



स्वर्गीय श्री सन्तोक चन्द जी बैद



सुश्राविका फत्ता देवी वैद

कृति तत्त्व बसन्त

आशीर्वाद

परम श्रद्धेय आचार्य
श्री रामलाल जी म.सा

कर्मठ सेवामविनी
श्री पेंप कँवर जी म.सा.

समर्पण

महासती श्री लीलावती जी
महासती श्री इन्दु बाला जी
महासती श्री सुशीला जी
महासती श्री राजमती जी
महासती श्री तरुलता जी
महासती श्री जयती श्री जी
महासती श्री विभा जी
महासती श्री कविता श्री जी
महासती श्री अजलि श्री जी

प्रस्तुति

प्रकाश मुनि जी

प्रस्तावना

कमल चन्द वैद

संस्करण : वर्ष : प्रतियाँ

द्वितीय : 2001 . 1000

आचार्य श्री नानेश

आचार्य देव की कीर्ति अजर और अमर होती हुई सूर्य चन्द्र वत सदैव स्थिर मानी गई है। जैसे रत्नाकर के रत्नों की गणना नहीं की जा सकती है वैसे ही आचार्य-देव के गुण-रत्नों की भी गणना करना अति कठिन है।

आप की महिमा अपरम्पार थी। धर्म-प्रयत्न में भगीरथ थे। तेज में सूर्य थे। शान्ति में चन्द्र थे। स्थिरता में मेरु थे। सत्य में युधिष्ठिर थे। हिमाचल सम उन्नत - व्यक्तित्व वाले आचार्य देव सद्गुण पुष्प-विकासक थे। जिनकी प्रभा-पूर्ण प्रेरणा से चतुर्विध श्री सघ में श्रद्धा रूप फूलों की सुरभि, चारित्र्यमय स्फूर्ति और ज्ञानमय प्रकाश का सुन्दर अकुर प्रस्फुटित हो जाता था।

“जौहरी ही कर सकता है हीरे की पहचान

पैनी दृष्टि ही कर सकती है नाना-राम की पहचान”

आचार्य श्री रामेश

भावी शासन नायक आगमों के निगूढ़ रहस्यों को उजागर कर ज्ञानियों का मन मोहने वाले प्रशात मन से जिन शासन की सेवा करने वाले तपस्या से आत्मा को उज्ज्वल बनाने वाले श्रद्धेय आचार्य भगवन् 1008 श्री राम लाल जी म सा भी समर्पण के इन क्षणों में अविस्मरणीय है, स्वधर्मी वात्सल्य का उद्घोष कर समता दर्शन को व्यवहार मे लाने के हिमायती है, व्यसन मुक्ति एव सस्कार क्रान्ति का विगुल बजाकर स्वस्थ समाज निर्माण के पक्षधर है। आगमानुकूल क्रिया का पालन करके एवं करवाकर जिन शासन की शोभा में अभिनव आभा फैला रहे है। ऐसे युगावतारी महापुरुष के चरणों में निरन्तर प्रगति एव शुभाशीर्वाद की भावना सजोये।



सेवा गुण सम्पन्ना गुरुणी मैया

पथ भटके पथिकों को सही रह दिखाई सेवा धर्म आपके जीवन का प्रमुख अंग बन गया। जहाँ भी सेवा का प्रसंग बनता आप श्री सबसे पहले तैयार रहते। सेवा के कार्य में जरा अहमत्व ममत्व आप श्री के पास नहीं खटकता, छोटे से छोटा कार्य करने में आप कभी भी नहीं हिचकिचाते। आप उस वेदना पीड़ित प्राणी को हर प्रयास से शान्ति पहुँचाते इस प्रकार आप पर कार्य के कल्पवृक्ष बनते हुए, हम सबको अपनी शीतल छाया प्रदान करते हुवे, छोटी-छोटी कलियों का ज्ञान, दर्शन, चरित्र के मधुर रस से सिंचन कर रहे हैं। हम आपके उपकारों को जन्म-जन्म तक भी नहीं भूल सकते हैं। आपका यह शीतलता प्रदायक जीवन श्याम सलोना चन्द्र सा पावन मुखडा सदा सर्वदा काल अपनी निर्मल श्वेत कुमुदनी को विखेरता रहे यह युगों-युगों तक आप इस विश्व वसुन्धरा पर शतायु, दीर्घायु बनते हुवे अपनी शीतलता मधुर छाया को प्रदान करते रहे।

इसी शुभकामना के साथ। परम श्रद्धेय जैन जगत के ज्योति मान नक्षत्र आध्यात्म साधना की निर्धूम ज्योति अनन्त-अनन्त आस्था के आस्थान अनन्य आराध्य आचार्य भगवन, नानेश हृदय विहारी हुक्म सघ के नवम् पहधर⁶ सहजता के धनी, महासाधक आचार्य रामेश की आज्ञानुवर्तिनी परम श्रद्धेया कर्मठ सेवाभाविनी, शान्त-दान्त धीर, वीर गम्भीरा, श्री पेपकवरजी म सा की 81 जन्म जयन्ती के पोषवदी अष्टमी के उपलक्ष्य में तत्त्व वसन्त पुस्तक वेद परिवार की ओर से समर्पित

महासती सुशीला जी का जीवन परिचय

महासती श्री सुशीला कुमारी जी म सा का जन्म असम के प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण आउगुडी ग्राम में वीकानेर निवासी वेभवशाली धर्मपेमी सुश्रावक श्री सन्तोक चन्द जी सा वैद की धर्म परायण श्रद्धालु श्रीमती फता देवी की कुक्षि से सवत् 2010 मे जन्म हुआ।

सौन्दर्यता की प्रतिमूर्ति वालिका के जन्म के पश्चात घर में अत्यधिक आनन्द मनाया गया, मंगल गीत गाये गये। घर-घर मिठाईया वाटी गई। माता श्री की मनोकामना पूर्ण हुई क्योंकि चार भाईयों के वाद सुन्दर कन्या की प्राप्ति आशा के अनुरूप थी। भात तात लाडली पुत्री का लालन-पालन अति दुलार से करने लगे। आप असम में रहते थे तब करीब 28, 29 डाकुओं ने हमला किया, काफी धन की क्षति हुई। आपकी माता श्री फता वाई ने साहस का परिचय दिया और तिजोरी की चाविया डाकुओं के हवाले कर दी ताकि (पर पुरुष) डाकु उनके तन को छू न ले।

आपके माता श्री को धन इतना प्रिय नहीं जितना अपने पति-देव को वचाने के प्रति धन समर्पित की भावना का एक अद्भूत परिचय दिया। डाकुओं के दल से घन्टों सघर्ष करने के पश्चात् आपके पिता श्री छुरों-भालों से अत्याधि क घायल हो गये। पिता श्री के शरीर पर करीब 15-16 छुरे-भालों के घाव के रक्त रजित होते हुए भी डाकुओं का चार-पाच किलोमीटर पीछा करके सूरवीरता का अनुठा परिचय दिया।

तब से आप असम से पुन वीकानेर आकर रहने लगे। सयोगवश सवत् 2019 मे गुरु देव के मंगल आदेश को शिरोधार्य कर 1005 कर्मठ सेवा भावी धाय मातृ पद से अलकृत श्री पेप कँवर जी म सा आदि ठाणा, वीकानेर पधारे तब आप म सा के सम्पर्क में आना जाना शुरू किया ही था। यह कल्पना किसी को भी नहीं थी कि आप दीक्षा ग्रहण करेंगी।

स्कूल की पढाई सुचारू रूप सं चल रही थी। आठवीं कक्षा उर्तीण करके प्रीष्मकालीन अवकाश में धार्मिक अध्ययन करने लगे। कुशाग्र बुद्धि की वजह से



एक बार पढाने पर सूत्र-पाठ कठस्थ हो जाता था। माता के आदेशानुसार अपनी पारिवारिक बहिन को कभी बुलाने जाया करती थी। वहा पर ग्रहस्थ जीवन के वातावरण को देखा तो स्वत ही आपके मन में भावना जागृत हुई और आप श्री के मन में यह आभास हुआ कि यह संसार सागर एक मकड़ी का जाल है। यह दृश्य अवलोकन कर “कम्मे सूरुा ते धम्मे सूरुा” की युक्ति को चरितार्थ करने के लिए अपने मन में दृढ़ सकल्प कर लिया कि “अहम् मुण्डे भविता” बनूंगी।

जैसा कि आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में बतलाया है कि सम्यग दर्शन निसर्ग अर्थात् स्वभावर्स उत्पन्न होता है

“तन्नि सर्गा दधिगमाद्धा”।

ससार पक्ष की मौसी जी श्री पेप कँवर जी म सा के सान्निध्य में रहने लगी और मधुर व्याख्यानी आदर्श त्यागी विदुषी महासती श्री रोशन कँवर जी म सा के पास ज्ञानाभ्यास करने लगे। निरन्तर अभ्यास की गति बढ़ती गयी। जिस तीव्रता से आप ज्ञानाभ्यास कर रही थी तो ऐसा लगा कि पूत के पैर पालने में ही पहचाने जाते हैं।

ज्ञानाभ्यास करते-करते आप में वैराग्य की भावना जागृत हो गयी। तत्पश्चात् आप के बडे भ्राता श्री कमल चन्द जी इन्दर चन्द जी आपको दीक्षा नहीं लेने-देने के लिए अनेक प्रकार से परीक्षा की, प्रलोभन दिये, पर आप किंचित मात्र भी नहीं डिगी, दीक्षा का प्रसंग पैदा हुआ तो आपके पिता श्री इस पक्ष में नहीं थे। वे न तो शीघ्र दीक्षा देना चाहते न ही आपको म सा के साथ रखने को तैयार थे। तव श्री धर्मनिष्ठ सुन्दर लाल जी सा. पारख ने हार्दिक सहयोग करके इस धार्मिक शुभ कार्य को सफल बनवाया वैसे ही आपकी शुभ भावना के प्रवल पुन्योदय से “देव सहयोग” मिला। इधर सहसा पिता श्री भी आज्ञा देने को तैयार हो गये। उस समय श्रीमती चमेली वाई और आप दोनों की भगवती दीक्षा के कार्यक्रम की तैयारिया होने लगी।

वीकानेर में यह बाल-ब्रह्मचारी कन्या की पहली दीक्षा होने से समाज के अग्रणिय श्रावकों ने उत्साह के साथ बडे समारोह से दीक्षा करवाना श्री सुन्दर लाल जी पारख, श्रीमान तातेड सा व श्री श्रीमाल जी आदि ने जब विदाई समारोह सम्पन्न किया तो आप सबके मन में जो वात्सल्य रूपी समुद्र थपेडे मार

रहा था। इस तरह नयनों में अश्रुधारा बन कर बरसने लगी। जैसे किसी का मोतियों का हार टूट गया हो जन-मन के मुख से यह आवाज मुखरित हुई कि अप्सरा के तुल्य यह रूपवती कन्या क्यों दीक्षा ले रही है? जब पूर्व जन्म में पुण्य कमाया हो तो आत्मा इस जन्म में इस गृहस्थी रूप माया जाल में फस कर रहना कहा पसन्द करेगी।

आखिरकार वह शुभ दिन भी आया जिस दिन माता-पिता ने अपनी इष्ट वल्लभ कन्या को दीक्षा के लिए सहृदय अनुमति प्रदान की। तब आचार्य श्री नानेश की विशिष्ट अनुकम्पा से दीक्षा अनुमति मिली। तब तपस्वी श्री सूरज मल जी म सा ने फागुन वदि पचमी सवत् 2025 को सहर्ष भगवती दीक्षा का कार्य सम्पन्न किया।

बडी दीक्षा के पश्चात् दसवें दिन ऐसा उपसर्ग उपस्थित हुआ जिसका वर्णन इस लेखनी द्वारा करना सम्भव नहीं। फिर भी आपने आध्यात्मिक बल व दृढ भावना के साथ अपने आप को साधना पथ में अटल रखा। आपने तपस्या 1 (एक) से 11 (ग्यारह) तक की लड़ी तथा 31 (इक्कीस) तथा 51 तक की है।

महान् भाग्यवान सासारिक पक्ष के मौसी जी श्री 1005 पेप कँवर जी म सा ने बडे ही साहस के साथ सेवा का अपूर्व अनुठा उदाहरण उपस्थित किया जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है। भयकर प्रतिदेव्य प्रकोप की अवस्था में भी वर्तमान में आपने आचार्य की परीक्षा उर्तीण की है। तन्मयता सेवा अध्ययन अध्यापन में तथा विद्यार्थियों की भविष्य में ज्ञान-ध्यान करवाने में सदा तत्पर रहती है। भविष्य में आपकी मगल भावना से भव्य आत्माओं की ज्ञान-ध्यान का पथ प्रदर्शित करती रहे। यह हमारी हार्दिक मनोकामना है।

आपके सासारिक पक्ष के परिवार का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। माता श्री फता देवी व सात भ्राता एव एक बहिन है। भ्राता कमलचन्द, विमलचन्द, इन्द्रचन्द, मुन्नीलाल, धर्मचन्द, विजयचन्द, मुलचन्द व बहिन प्रेमलता व सात भाभिया, भतीजे-भतीजी आदि भरा-पूरा परिवार है, सभी का स्नेह परस्पर अच्छा है। नाना राम के अनन्य भक्त है। वर्तमान में इनका व्यापार हाग-काग, नेपाल, बम्बई, दिल्ली, जयपुर में चल रहा हैं।

प्रार्थना

नानेश गुरु के पट्टधर तुमको लाखों प्रणाम
तुमको मेरा प्रणाम

चार तीर्थ के मनहर तुमको लाखों प्रणाम
तुमको मेरा प्रणाम ...॥१॥टेर॥

देशनोक में जन्म लिया है, भूरा कुल को धन्य किया है नेमि
तात के नन्दा तुमको लाखों प्रणाम ...॥१॥१॥

नाना गुरु के चरणों में आए, आगम ज्ञान से जीवन सजाएँ
किया आत्म उत्थान, तुमको लाखों प्रणाम ...॥१॥२॥

फाल्गुन शुक्ला तीज जो आई, जुनागढ़ के प्रांगण माँई
युवाचार्य पद पाय तुमको लाखों प्रणाम ॥१॥३॥

ज्ञान गुणों से गुरुवर चमके, तप तेज से अनुपम दमके
राम राज्य सुखकार तुमको लाखों प्रणाम ..॥१॥४॥

व्यसन मुक्ति अभियान चलाया श्री संघ के मन को भाया
तिरण तारण की जहाज, तुमको लाखों प्रणाम .. ॥१॥५॥

“पेप” गुरूणी शुभ भावना भावे, गुरू आज्ञा को शीश चढावें
कनकपुरी मन्झार तुमको लाखों प्रणाम .. ॥१॥६॥



भजन

(तर्ज - तुम्ही मेरे मन्दिर)

आप हो गुरुणी, आप हो मैय्या
आप पिता हो, आप हो भैय्या ...।।टेर।।

पिता है कोठारी, सोहन लाला
माता जतन ने यतन से पाला
बीकाणे को गौरव खूब बढैय्या ..।।1।।

ज्ञान का दीप मेरे घट में जलाओं
अज्ञ अंधेरा दूर भगाओं
चरणों में रहूँ बन, अल्ला की गैय्या .।।2।।

बालिका तेरी चरणों में तेरे
पालन करना हाथ तुम्हारे
स्नेह से सिर पर हाथ धरैय्या ...।।3।।

संयम के पथ से डिगने न पाऊँ
पेप गुरुणी तुमसे आशीष चाऊँ
बनना तू मांझी तिराना तू नैय्या ..।।4।।

जीवन समर है अकेली लडूँगी
रक्षा के धाने की आश करूँगी
हिम्मत मुझको तू है दिलैय्या ...।।5।।

आया जन्म दिन खुशियाँ है छाई
अस्सी पे एक वर्ष बधाई-बधाई
“जय” जय आपकी हम है बोलैय्या .।।6।।

भजन

(तर्ज - हो-हो-हो- म्हारी तपस्या)

हो-हो-हो धन-धन शासन उपकारी
शासन उपकारी गुरुणी मैया हमारी ...।।टेर।।

बीकानेर की पुण्य धरा में जन्म मैय्या पाये
सोहन जतन मात तातने गोद खिलाये
चमक उठा है कोठारी कुल नाहटा वंश पुजारी ...।।1।।

पान-जवाहर चरण शरण में जीवन सजाएँ
नंदिषेण सम सेवा करके धायमातृपद पाये
नयन युगल से करुणा बरसे, वाणी आनंदकारी ...।।2।।

सागर सम गम्भीरा गुरुणी, पृथ्वी सम हो धीरा
गुरु नाना ने यो फरमाया अनुपम है यह हीरा
सौरभ फँले "राम राज्य" में कहती शिष्या सारी..।।3।।

भजन

(तर्ज - हो-हो-हो म्हारी तपस्या...)

हो-हो-हो- चमका शासन का सितारा
शासन का सितारा गुरूवर नाना राम हमारा ...॥१॥टेर॥

श्रृगार नन्दन कलिमल कन्दन जीवन सौरभ चन्दन
गंवरा नंदन शत्-शत् वन्दन काटो भव-भव बन्धन
कामधेनु कल्पवृक्ष चिन्तामणि रत्न हमारा ...॥१॥१॥

आयरियाणं पद पे विराजे राम गणिवर प्यारा
समता सागर ज्ञान गुणाकर राम है तारण हारा
अमर रहे यह अनुपम शासन गूजे यही नारा ...॥१॥२॥

स्वस्थ-स्वास्थ्य हो स्वस्तिक चाहे मंगलमय शुभ कामना
दीप्तिमन्त हो शासन गुरू का, सूर नर गण-गुण गावना
अजब निराला नवां पाट सति पेप ने निहारा ...॥१॥३॥

हो-हो-हो-चमका शासन का सितारा. .

अनुक्रम

भाग 1-2	अ	प्रश्न 1 से 315	1
	आ	प्रश्न 1 से 242	12
	इ	प्रश्न 1 से 119	20
	उ	प्रश्न 1 से 106	24
	ऊ	प्रश्न 1 से 9	28
	ए	प्रश्न 1 से 44	29
	क	प्रश्न 1 से 277	30
	ख	प्रश्न 1 से 111	40
	ग	प्रश्न 1 से 139	44
	घ	प्रश्न 1 से 49	49
	च	प्रश्न 1 से 218	50
	छ	प्रश्न 1 से 69	58
	ज	प्रश्न 1 से 170	61
	झ.	प्रश्न 1 से 39	66
	ट	प्रश्न 1 से 34	68
	ठ.	प्रश्न 1 से 24	69
	ड.	प्रश्न 1 से 39	70
	ढ.	प्रश्न 1 से 17	72
	ण	प्रश्न 1 से 13	72
भाग 3	प्रश्न 1 से 396	73
भाग 4	प्रश्न 1 से 680	86
भाग 5, 6	प्रश्न 1 से 519	110
भाग 7, 8, 9	प्रश्न 1 से 1112	128
भाग 10, 11	प्रश्न 1 से 680	165



प्रश्नवली

भाग 1-2	अ	प्रश्न 1 से 315	189
	आ	प्रश्न 1 से 242	191
	इ	प्रश्न 1 से 119	193
	उ... ..	प्रश्न 1 से 106	194
	ऊ	प्रश्न 1 से 9	195
	एं.....	प्रश्न 1 से 44	195
	क	प्रश्न 1 से 277	196
	ख	प्रश्न 1 से 111	198
	ग..... प्रश्न 1 से 139	199
	घ	प्रश्न 1 से 49	200
	च..... प्रश्न 1 से 218	201
	छ.....	प्रश्न 1 से 69	202
	ज	प्रश्न 1 से 170	203
	झ.....	प्रश्न 1 से 39	204
	ट	प्रश्न 1 से 34	205
	ठ..... प्रश्न 1 से 24	205
	ड.....	प्रश्न 1 से 39	205
	ढ..... प्रश्न 1 से 17	206
	ण	प्रश्न 1 से 13	206
भाग 3 प्रश्न 1 से 396	206
भाग 4 प्रश्न 1 से 680	209
भाग 5, 6 प्रश्न 1 से 519	215
भाग 7, 8, 9 प्रश्न 1 से 1112	219
भाग 10, 11 प्रश्न 1 से 680	227

भाग-1-2

अ

- 1 जगत की माता कौन है?
2. धर्म कथा के मध्य में आने वाली कथा क्या कहलाती है?
3. मन की बातें जानने वाला कौन?
4. पृथ्वी और ज्योतिष मडल के मध्य में क्या है?
- 5 वैदिक परंपरा में वर्णित प्रसिद्ध भक्त कौन?
6. व्रत भग का विचार करना क्या कहलाता है?
- 7 व्रत भग हेतु कदम बढ़ना क्या है?
8. किस तीर्थेश प्रभु के शासन में सर्वाधिक साधु साध्वी हुए?
- 9 गंगा पार करते-2 ससार सागर पार कौन हुए?
- 10 बारह वर्ष तक वन-वन कौन सती भटकी?
- 11 जीव-अजीव के ठहरने में सहायक कौन बनता है?
- 12 कस के भविष्य की घोषणा किसने की?
13. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
- 14 किस लब्धि से धातु क्षीण नहीं होती है?
- 15 श्रावक का कौन सा करण खुला है?
- 16 जैन सस्कृति ईश्वर को सृष्टि का क्या मानती है?
17. आगामी चौबीसी में श्री कृष्ण कौन से तीर्थकर होंगे?
- 18 कद मूल में कितने जीव होते हैं?
19. नब्बे मोक्षगामी जीवों का वर्णन किस सूत्र में आया है?
- 20 ससार कब से चला और इसका अन्त कब होगा?
- 21 विष से भी जहरीला क्या है?
22. भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कहा हुआ?
23. ऋषभ देव को 400 दिन आहर न मिलने का क्या कारण था।
24. किस नाम कर्म से जीव न ज्यादा भारी और न हल्का होता है?
25. सब में साम्यवाद की स्थापना करने वाला कौन सा सिद्धान्त है?
26. सूर्य का पर्यायवाची नाम क्या है?
- 27 सयंम जीवन की दुष्करता की तुलना किससे की है?

- 28 श्रेणीक सम्राट के सम्यक्त्व दाता गुरू कौन?
- 29 आर्द्रकुमार कहा का निवासी था?
- 30 आर्द्रकुमार ने किसकी प्रेरणा से दीक्षा ली?
- 31 क्या दुःखकारी हुआ करती है?
- 32 ससार में आत्मा क्यों भटकती है?
- 33 कौन सा जीव उत्पन्न होकर भी हिलता डुलता नहीं है?
- 34 सचित्त जल की एक बूद में कितने जीव होते हैं?
35. अतुल समृद्धिवान होने पर भी वस्त्र विहीन कौन?
- 36 कौन से जीव सुख-दुःख को भोगते हुए भी जानते नहीं?
- 37 कौन सुख-दुःख को न जानता है और न भोगता है?
- 38 पुण्य से हीन और गुणों से रहित कौन है?
- 39 एकान्त सम्यक्दृष्टि जीव कहा रहते हैं?
- 40 नन्दिनी पिया श्रावक की पत्नी कौन थी?
41. किस द्वीप के मनुष्य एकान्त मिथ्या दृष्टि है?
42. चपापुर कौन से देश की राजधानी थी?
43. नव भवों तक किसकी प्रीति बरकरार रही?
44. प्रतिमा रूप से नारी रूप में श्री राम का चरण स्पर्श कर कौन प्रकटी?
- 45 मस्तक पर तिलक किस अगुली से किया जाता है?
46. सुदर्शन सेट को शूली पर चढ़ाने में कौन निमित्त बनी?
- 47 स्वर्ग और मोक्ष के मध्य में क्या है?
- 48 जैन शास्त्र का प्रसिद्ध सन्यासी कौन?
49. ढढण मुनि ने भ. अरिष्टनेमि से क्या ग्रहण किया?
50. सिद्ध भगवन्त क्या कहलाते हैं?
51. नाटक देखते देखते केवल ज्ञान किसे हुआ?
- 52 प्रधानमंत्री की हत्या किसने की?
- 53 ब्राह्मी कला केन्द्र के प्रेरक कौन थे?
54. मानसरोवर पर किसकी शादी हुई?
55. पति वियोग किस सती ने देखा?
- 56 नवकार मंत्र का स्मरण करते जीवन किसने सजाया?

- 57 बारह भावना मं पाचवी, छठी भावना कौन मी है?
- 58 बारह भावना म पहली, दृमरी भावना कौन मी हे?
- 59 शाश्वत पर्वता मं म एक पर्वत का नाम लिखों?
- 60 छ माह तक पतिदिन सात हत्या करने वाला कौन था?
- 61 सम्मूर्च्छिम जीवों की उत्पति कहा होती है?
- 62 भगवान महावीर ने पथम चातुर्मास कहा किया?
- 63 णमोत्थुण देने की विधि का रूप क्या है?
- 64 बावीस परीपह मं से छटा-सातवा परीपह कौन सा है?
- 65 15 वा और 21 वा परीपह का क्या नाम है?
- 66 तप में शूर कौन होते हैं?
- 67 रामचन्द्र जी की पत्नी किस देवलोक मं हे?
- 68 सिद्ध भगवान कैसे है?
- 69 दुःख किस कर्मोदय से होता है?
- 70 किस दोप तक प्रतिक्रमण होता है?
- 71 रोग का मूल क्या है?
- 72 नरक में जाने का लाइसेंस क्या है?
- 73 जैन दर्शन के मूल सिद्धान्त कौन-कौन से है?
- 74 ससार में सोया हुआ कौन है?
- 75 मनुष्य के लिए क्या देखना कठिन है?
- 76 एकलव्य ने गुरू दक्षिणा में द्रोणाचार्य को क्या दिया?
- 77 चक्रव्यूह-रचना किसने गर्भ में सीखी?
- 78 पिता के साथ बैर करके ससार किसने बढ़ाया?
- 79 अलोक कितना बड़ा है?
- 80 दानेश्वर कौन कहलाता हे?
- 81 सूर्य ने आज तक क्या नहीं देखा?
82. भरत केवली किस भावना के चलते बने?
- 83 अनाथी मुनि ने ससार का त्याग किस भावना में किया?
- 84 आदिनाथ प्रभु कहा से मोक्ष पधारे?
85. पच महाव्रत धारी साधु क्या कहलाते ह?
- 86 आदिनाथ पभु कौन से नक्षत्र में मोक्ष पधारे?

- 87 केवल एक समय की कौनसी गति हाती है?
- 88 भारत को स्वतंत्रता किस महिने म मिली?
- 89 चक्रवर्ती व तीर्थकर पद किसने एक ही जन्म में भोगे?
- 90 अशरण भावना किसने भायी?
- 91 धन्ना अण्णगर का वर्णन किस सूत्र में आया है?
- 92 दस क्रोडाक्रोडी सागरो पम का कौनसा काल चक्र है?
- 93 चन्दन बाला से भगवान महावीर की कौनसी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई?
- 94 भगवान महावीर का निर्वाण कब हुआ?
- 95 नारकी व देवता का गुणस्थान कौन सा है?
- 96 चाय कलयुग में क्या कहलाती है?
97. श्रावक को धर्म स्थान में आते ही किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
98. किसी पर मिथ्या आरोप लगाना कौन सा पाप है?
99. कौनसा फूल दिखता नही, खिलता नही और न खुशबू देता है?
100. समता भाव से किसने उपार्जित कर्मों को भोग मोक्ष पाया?
101. स्वाध्याय से किसने प्रतिबोध पाया?
102. किस उपाय से अर्जित धन जल्दी बढ़ता व घटता है?
103. अधक विष्णु के 18 पुत्रों का वर्णन किस सूत्र में है?
104. युगलिए किस भूमि पर रहते है?
105. निरर्थक वचन बोलने से क्या लगता है?
106. नमस्कार मंत्र का सक्षिप्त उच्चारण क्या है?
107. मानव का सबसे बडा शत्रु कौन है?
108. ससार भ्रमण का मुख्य कारण क्या है?
109. तीर्थेश प्रभु कौनसी भाषा में देशना देते हैं?
110. पवनजय की पत्नि का नाम क्या है?
111. छट्टे प्रमत सयत गुण, तक कितने ध्यान रहते है?
112. भवन पति देव कहा पर रहते हैं?
113. वैशाख सुदी में कौन सा पर्व आता है?



- 114 किस पुत्र के लिए मा गावों नगरों में भटकी?
- 115 'वीर जिनेश्वर सोई दुनिया जगाई तूने' के रचनाकार कौन है?
- 116 इस ससार में कितने मिद्ध हुए?
- 117 अभी तक ससार में कितने जीव हैं?
- 118 सकडाल पुत्र की पत्नि का क्या नाम था?
- 119 आ श्री नानेशकी दीक्षा तिथि कौन सी है?
120. कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है?
- 121 वीर दर्शन-वदन को जाते सुदर्शन सेठ को मारने कौन आया?
- 122 मोक्ष में कौन जा नहीं सकता?
- 123 दिवाली के दिन बही खाते में किसकी वृद्धि चाहते हैं?
124. दूसरे और 14 वें तीर्थकर का जन्म किस नगर में हुआ?
- 125 32 शास्त्रों का हिन्दी अनुवाद सर्व प्रथम किसने किया?
- 126 किस योग से आत्मा का अधःपतन होता है?
127. किस आचार का सेवन वर्जनीय है?
- 128 भ. ऋषभ देव के कितने पुत्रों ने दीक्षा ली?
129. मा की आवाज सुन कौन जागृत बना?
130. दान की प्रवृत्ति किस देश में नहीं होती है?
- 131 श्री कृष्ण द्रौपदी की खोज करते कहाँ गए थे?
- 132 आकाश का पर्याय वाची शब्द क्या है?
- 133 भ.ऋषभ देव का जन्म कहा हुआ?
134. वीर प्रभु के पास किस बालक ने दीक्षा ली?
- 135 भ शातिनाथ की माता कौन थी?
- 136 महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में किससे युद्ध किया?
137. कौन हत्यारा भ महावीर के पास दीक्षित हुआ?
- 138 पांचो पाण्डवों में धनुर्धर कौन था?
139. भ. महावीर के निर्वाण के समय कितने देश के राजा मौजूद थे?
- 140 महात्मा गाधी का जन्म किस सन् में हुआ?
- 141 प जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस सन् में हुआ?
- 142 पयुर्पण में किस शास्त्र का वाचन किया जाता है?

- 143 भ महावीर ने कितने जनां के साथ दीक्षा ली?
- 144 भ महावीर की दीक्षा किस वृक्ष के नीचे हुई?
- 145 भ महावीर निर्वाण कितनां के साथ गये?
- 146 पाच समिति और तीन गुप्ति को क्या कहत हे?
- 147 नन्दी वर्धन की आयु कितनी थी?
- 148 अनत ससार समकित के बाद कितना रह जाता है?
- 149 जगल देश की राजधानी कौन सी थी?
- 150 भ महावीर के पास दीक्षित होकर भी अपमानित कौन होता रहा?
- 151 पांचसौ साठ भेद किसके है?
152. 25 बोल में एक सौ उनचालीस भेद किसके हैं?
- 153 काल शौकरिक कसाई कौन था?
154. कर्मचारी व जनता अपनी मांग मनवाने आज क्या करती है?
155. मा की इच्छा पूर्ण करने एक दिन का राजकाज किसने सभाला?
156. महाभारत में कितनी सेना का सहार हुआ?
- 157 प्रथम बलदेव कौन हुए?
158. बिना आज्ञा वस्तु लेना क्या कहलाता है?
159. नरक के विषय को शंका किस गणधर को थी?
- 160 लक्ष्मी कब विदा होती है?
- 161 हाथी को किससे वश में किया जाता है?
162. शास्त्र अध्ययन की विधि किसमें वर्णित है?
163. शारीरिक लम्बाई को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं?
164. गौशालक का परम भक्त कौन था?
- 165 कौन सी काया सर्व भक्षी है?
166. सौंदर्य को धिक्कारते हुए तपती शिला पर सथारा किसने किया?
167. व्यक्ति किस कर्मोदय से बीमार होता है?
- 168 सिकन्दर के गुरु कौन थे?
- 169 महाभारत का बली और सूत्र का माली कौन था?
170. प्रथम साधु सम्मेलन स 19 में कहा हुआ था?



- 171 सयम साधना का निदान कर द्वैपायन ऋषि क्या बना?
- 172 पिता की आज्ञा पालते हुए माता की रक्षा किमन की?
- 173 तीर्थकरों का दाह सस्कार कौन से देव करत हैं?
- 174 प्रगति का साधन क्या है?
- 175 मल्ली भगवती क पूर्व भव के मित्र किस भावना से विरक्त हुए।
- 176 इन्दौर शहर का प्राचीन नाम क्या है?
- 177 नन्दीश्वर द्वीप पर जाकर देव कौनसा पर्व मनाते हैं?
- 178 जैन साहित्य अधिकतर कौनसी भाषा में है?
- 179 लवण समुद्र में स्थित अकर्म भूमि क्या कहलाती है?
- 180 तीर्थेश प्रभु की देशना किस रूप में होती है?
- 181 अमृतोपम पावनदृष्टि प्रसार महामारी किसने शात की?
- 182 विद्वद शिरोमणि राजेन्द्र सूरि ने किस शब्द कोश की रचना की?
- 183 श्रावक का पहला गुण कौन सा है?
- 184 श्रमण भ महावीर विशेष निर्जरा हेतु किस देश में पधारे?
- 185 पयुर्पण पर्व में किस सूत्र का वाचन होता है?
- 186 सिद्ध प्रभु की पहचान कौन कराते हैं?
- 187 एक माह में एक बार क्या आती है?
- 188 तीर्थकर देवों का जन्म कब होता है?
- 189 साधु पूर्णतः क्या होते हैं?
- 190 साधु कैसे होते हैं?
- 191 तीर्थेश प्रभु के चौतीस क्या होते हैं?
- 192 भ महावीर की सात हाथ की क्या थी?
- 193 सामायिक का काल कितना है?
194. नकल से बडी क्या होती?
- 195 12 व्रतों में आठवा व्रत कौन सा है?
196. अगार मर्दन आचार्य कौन थे?
- 197 कौन किससे मिल नहीं सकते?
198. छात्रों को कक्षा में किसका पालन करना चाहिए?

- 199 श्रेणिक सम्राट का मंत्री कौन था?
- 200 विनाश को प्राप्त न होने वाला क्या कहलाता है?
- 201 कुमार पाल कितने देश के राजा थे?
- 202 कौन मोक्ष में कभी जा नहीं सकता?
203. युग दृष्टि आ श्री जवाहर का किस तिथि को स्वर्गारोहण हुआ?
- 204 ससार कब तक चलेगा?
205. कौन से तीर्थकर बाल ब्रह्मचारी हुए?
- 206 अपमानित होकर दीक्षा किसने ली?
207. चक्रवर्ती के चौदह रत्न कैसे हैं?
208. एक अनुतर विमान का नाम लिखो?
209. जैन धर्म दर्शन के मुख्य सिद्धान्त क्या है?
210. मुक्त आत्माओं का सुख कैसा है?
211. साधु का तीसरा महाव्रत कौनसा है?
- 212 बड़ी सादडी से माग किन्होने आ श्री नानेश का चातुर्मास अपने यहा करवाया?
213. विनय धर्म जीवन से कब नष्ट होता है?
214. प्रभव चोर जम्बू स्वामी को कौनसी विद्या दे रहा था?
215. कौन पराया नहीं कहलाता है?
- 216 हत्या करके भी मोक्ष कौन गया?
- 217 मृत्यु का निकट आना क्या कहलाता है?
- 218 आखो की सुन्दरता किससे बढती है?
219. सिद्ध बनने से पहले क्या बनना पडता है?
220. जीवन का अमूल्य धन कौनसा है?
221. आगम का दूसरा भेद कौनसा है?
- 222 राजमति का त्याग कर संयमी कौन बने?
- 223 ढढण मुनि को किस कर्म का विशेष सामना करना पडा?
- 224 सुबाहु कुमार के पिता कौन थे?
225. काली आदि महारानियों ने सयम लेने के बाद क्या अध्ययन किया?

226. भवन पति देव किस लोक में रहते हैं?
227. धन्ना अणगार का वर्णन किस शास्त्र में है?
228. चौदहवें गुण में किस प्रकृति का उदय रह सकता है?
229. उतराध्ययन के 5 वें अध्ययन में किस मरण का वर्णन है?
230. मल्ली भगवती को दिव्य कुण्डल युगल किस श्रावक ने भेंट किये?
231. अमनोज्ञ पदार्थों के बारे में घृणा क्या कहलाती है?
232. जिसमें जानने देखने की शक्ति हो वह कौन?
233. जम्बूद्वीप के चार द्वारों में एक द्वार का नाम लिखो?
234. अनुत्तर विमान वासी भव्य देवों का वर्णन किससे है?
235. नारक देवों को दुःख देने वाले देव किस स्वभाव के हैं?
236. दीर्घ कथा के मध्य में आने वाली कथा क्या कहलाती है?
237. शिक्षा का अधिकारी कौन नहीं है?
238. विशेष नियम से आहार लेने की प्रतिज्ञा क्या है?
239. निकाचित कर्मों का बंध वाला कौन सा कर्म है?
240. किस तिर्यच पचेन्द्रिय के अपर्याप्ता में सास्वादन समकित होती है?
241. पूर्वों के आधार पर किसकी रचना हुई?
242. सम्यक्त्वी का चौथा आचार कौन सा है?
243. सम्यक्त्वी की छद्दी रूची कौन सी है?
244. दूसरों को हीन दिखाने अपनी श्रेष्ठता बताना क्या है?
245. नमस्कार मंत्र किस भाषा में है?
246. किस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए?
247. विद्यार्थियों को किसमें रत रहना चाहिए?
248. गुरु का कभी क्या नहीं करना चाहिए?
249. नवकार मंत्र में कितने अक्षर हैं?
250. अरिहंत कितने दोषों से रहित होते हैं?
251. सिद्ध भगवन्त के शरीर कितने हैं?
252. सिद्धों की उम्र कितनी है?
253. आचार्य किसके प्रतिनिधि होते हैं?

254. एक मरण का नाम लिखो?
255. तीर्थेश प्रभु समवशरण में किस वृक्ष के नीचे विराजते हैं?
256. जिसका रूप न हो उसे क्या कहते हैं?
257. लाइट का उपयोग सामायिक में क्यों नहीं करते?
258. पयुर्षण का दूसरा नाम क्या है?
259. तेले का तप क्या कहलाता है?
260. काल द्रव्य कौनसा द्रव्य है?
261. सामायिक का मूल्य क्या है?
262. साधु जीवों को क्या देते हैं?
263. फलों में फल क्या है?
264. चार प्रकार के बंध में रस बंध को क्या कहते हैं?
265. वैक्रिय शरीर में क्या नहीं होती है?
266. पापों का कभी क्या नहीं करना चाहिए?
267. क्षमा धर्म के सर्वोत्तम साधक कौन?
268. नवागी टीका कार कौन हुए?
269. आत्मा के प्रदेश कितने हैं?
270. देव अधिक से अधिक कितना रूप बना सकता है?
271. अभव्य कब तक इस ससार में परिभ्रमण करेगे?
272. वैदिक धर्म के प्रवर्तक क्या कहलाते हैं?
273. विषय-वासना को सब कुछ मानने वाला कौन?
274. गुरु के सामने पाव पर पाव चढ़ाकर बैठना क्या है?
275. भ महावीर को क्या कहा गया है?
276. दूसरों की वस्तु पर अपना अधिकार जताना क्या है?
277. सत्य की रक्षा के लिए सीता ने क्या किया?
278. द्रौपदी ने नारद ऋषि का क्या किया?
279. अग्नि का पर्यायवाची क्या है?
280. जीवन की यौवनवास्था कैसी है?
281. अपने आचार का पालन न कर व्यसन सेवन करे वह कौन?
282. देवी देवता के सामने बलि चढ़ाना क्या है?
283. कामना पूर्ति हेतु की जाने वाली साधना क्या है?

284. ग्रहण किये व्रतों को तोड़ना, छोड़ना क्या है?
285. प्रत्याख्यान रहित मरण कौनसा है?
286. तेइन्द्रिय जीवों तक के कौनसा दर्शन होता है?
287. अपने स्थान पर रहे पदार्थों को कौन देखता है?
288. रावण की वाटिका में सीता क्या कर रही थी?
289. नैतिकता की पृष्टि किस व्रत से होती है?
290. मौत के मुह में जाते जीवों का रक्षण करना क्या है?
291. नास्तिक दर्शन क्या कहलाता है?
292. वर्तमान में विशेष समाचार जानने का साधन क्या?
293. लड़ाई झगड़ों से जन जीवन को क्या मिलती है?
294. विपुल वैभव के बाद भी दुःख का कारण क्या?
295. मौत क्या है?
296. मूर्ख पंडित कैसे बनता है?
297. इस कलिकाल में मोक्ष क्या संभव है?
298. मांस मदिरा का सेवन कौन करते हैं?
299. कटु कर्मों का बन्ध कौन करते हैं?
300. श्रेणिक किस मुनि के रूप पर मोहित बना?
301. मीरा ने विष को क्या समझ कर पिया?
302. सबसे तीक्ष्ण शस्त्र कौन सा है?
303. आत्मा कैसी है?
304. विक्रम राजा ने कहां बोध पाया?
305. कटक देश पर 12 वर्ष में विजय किस बादशाह ने पायी?
306. जन्म लेते ही नाग केतु ने क्या किया?
307. वर्तमान तीर्थकरों की अधिष्ठायिका देवी कौन?
308. देव लोक में विरति का क्या है?
309. मणिभद्र देव कौन है?
310. यशोविजय जी ने काशी जाकर क्या किया?
311. ईर्यावर्ह। करते-करते केवलज्ञानी कौन बने?
312. उदायन ऋषि कौन से राजर्षि थे?
313. आठ सिद्धियों में से एक सिद्धि का नाम लिखो?

314. दर्शन परीषह का उदय किसे आया?
315. अतिथि भिक्षुक का दूसरा नाम क्या है?

आ

- 1 श्री पाल, मैना सुन्दरी को किस तपाराधन से नव निधी मिली?
- 2 बारह भावना में सातवी भावना कौन सी है?
3. मत्री सबको क्या देते हैं?
4. 25 बोल में आत्मा कितने प्रकार की कही गई है।
5. सामायिक की पाटियां कितनी है?
6. आत्मा निर्मल किससे बनती है?
7. सर्व श्रेष्ठ बल किसका है?
8. सामायिक उपकरण देखने से जाति स्मरण ज्ञान किसे हुआ?
9. आत्मा विभाव स्वरूप को कब प्राप्त होती है?
10. बाबीस परीषह कौन सा है?
11. सूर्य से भी अधिक तेजस्वी क्या है?
12. गौशालक ने कौनसा मत चलाया था?
13. छोटी साधु वन्दना के रचनाकार कौन है?
14. अधाती कर्म कौन सा है?
15. तीर्थकर नाम कर्म बध के उपरान्त श्रेणिक को नरक क्यों जाना पडा?
16. चौदह पूर्वधर मुनि को कौनसी लब्धि प्राप्त होती है?
17. रैवतक पर्वत पर कौन से तीर्थकर केवली बने?
18. अवधि ज्ञान का उपसर्ग किस श्रावक को आया?
19. व्यक्ति अपना धैर्य कब खो बैठता है?
20. सुचारू रूप से कौन परिवार का सचालन करती है?
21. संवत्सरी पर्व का आवश्यक कर्तव्य क्या है?
22. स्वर्गस्थ शिष्य से पुनः संयम में स्थिर कौन आचार्य हुए?
23. रत्नाधिक मुनियों की अवहेलना को क्या कहते हैं?

- 24 द्वारिका नगरी किस तप के प्रभाव से सुरक्षित थी?
- 25 प्रतिपूर्ण पौषध कितने पहर का होता है?
- 26 सभी को स्थान देने वाला कौन सा द्रव्य है?
- 27 फलों का राजा कौन है?
- 28 कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं?
- 29 इन्द्रभूति गौतम ने किस श्रावक से क्षमा मांगी?
30. काल चक्र के विभाग को क्या कहते हैं?
- 31 अपना शत्रु व मित्र कौन है?
32. काम धेनू की उपमा किसको दी जाती है?
- 33 स्त्रियों को सरलता से क्या आते हैं?
34. अलोक में कौन नहीं रहती है?
35. दडित कौन होती है वह कौन करती है?
- 36 अरिहत प्रभु क्या नहीं करते हैं?
- 37 सूर्य विमान के जीवों के किस नाम कर्म का उदय है?
38. कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी कौन बनता है?
39. देव एकन्द्रिय में ज्यादा क्यों उत्पन्न होते हैं?
40. काल चक्र के विभाग को क्या कहते हैं?
41. सघ के अनुशास्ता क्या कहलाते हैं?
42. वीर प्रभु की साधना का वर्णन किस शास्त्र में है?
- 43 चरम शरीरी कौन बनता है?
44. आठ रूचक प्रदेश किसके हैं?
45. जैन साधुओं के लिए क्या अनाचरणीय है?
- 46 साधु श्रावक आत्म शुद्धि नित किस शास्त्राधार से करते हैं?
- 47 सुपात्र दान की पथा कब से शुरू हुई?
- 48 बिना वाहन के गति कौन करता है?
- 49 संसार में शाश्वत क्या है?
50. सुख-शांति की अभिलाषा से प्रयत्न कौन करती है?
51. किस तप के बिना मुक्ति हो नहीं सकती?
52. जैन शास्त्र क्या कहलाते हैं?
53. सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्युक्ति कौनसा है?

54. किसी नियम में छूट रखने को क्या कहते हैं?
55. एक शरीर में अनतानत क्या रह सकती है?
56. इन्द्रियों से अग्राह्य कौन है?
57. भ.महावीर के किस श्रावक को अवधिज्ञान हुआ?
58. अनार्य देश के किस राजकुमार ने भ महावीर के पास दीक्षा ली?
59. विविध शरीर व रूप को धारण कौन करता है?
60. द्रव्य व भाव प्राणों को धारण करने वाला कौन है?
61. एक सौ आठ आत्माओं के साथ कौन सिद्ध हुए?
62. तीर्थंकर धर्म की क्या करते हैं?
63. कोई वस्तु परिग्रह रूप कब बनती है?
64. अक्षर का अनत वा भग किसके ज्ञान का खुला रहता है?
65. जहाज, रेल, बस में क्या नहीं होती है?
66. सम्यक् तथा उठाने व रखने की पद्धति किस समिति में है?
67. ज्ञाता व दृष्टा कौन बनता है?
68. चारित्र मोहोदय से कौनसा परीषह आता है?
69. कायोत्सर्ग में कौनसा ध्यान वर्जनीय है?
70. मन की स्थिरता के लिए क्या लेना आवश्यक है?
71. भरत सम्राट के बाद राजा कौन बना?
72. भ. महावीर ने किसमे धर्म बतलाया है?
73. केशी श्रमण ने प्रदेशी के सामने किसका अस्तित्व सिद्ध किया?
74. राजा प्रदेशी किसके अस्तित्व को नहीं मानता था?
75. किस वृक्ष के कारण इक्षुकार राजा को वैराग्य हुआ?
76. किस फक्कडयोगी की चौबीसी विशेष प्रसिद्ध है?
77. जीव जन्म लेते ही क्या ग्रहण करता है?
78. हेय, ज्ञेय, उपादेय को कौन जानता है?
79. जैन मुनि के लिए कौनसा आहार वर्जनीय है?
80. कितने कर्मों को क्षय कर आत्मा मोक्ष जाती है?
81. कौनसा सर्प सर्वाधिक धातक होता है?



82. सत्चित् आनदघन स्वरूपी कौन है?
83. सवर का पतिपक्षी तत्व कौन सा है?
84. दिन में प्रकाश करने वाला कौन सा ग्रह है?
85. 28 लब्धियों में से एक लब्धि का नाम लिखो?
86. कर्म बन्धन किससे होता है?
87. अनुयोग द्वार में तीन प्रकार किसके बतलाए है?
88. एक तारा किस नक्षत्र का होता है?
89. साधु की सामायिक कितने काल की होती है?
90. सभी जीवों में कौनसी सज्ञा अवश्यमेव होती है?
91. मसूर के आकार वाली इन्द्रिय कौनसी है?
92. भारत देश को किस देश के रूप में जानते है?
93. कल का पूर्वज कौन है?
94. दर्पण को उर्दू में क्या कहते हैं?
95. जिदगी में एक ही बार बाधा जाने वाला कर्म कौनसा है?
96. किस शक्ति के आधार पर जीव जीवित रहता है?
97. महासती महासेन कृष्णा ने कौनसा तप किया?
98. श्रमण सध के द्वितीय पट्टधर कौन हुए?
99. कोई किसी को प्रिय कब लगता है?
100. साध्वी जी को शास्त्र मे क्या सबोधन है?
101. चतुर्गति भ्रमण को क्या कहते हैं?
102. इष्ट देव के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग करते हे?
103. फुटकर तप को क्या कहते हैं?
104. दूसरे लोकान्तिक देव लोक का क्या नाम है?
105. सयम की निर्दोष साधना करने वाला क्या बनता है?
106. पभु महावीर का चातुर्मास किस नगरी में हुआ ?
107. सामायिक में हाथ पैर पसारने से कानसा दोष लगता हे?
108. किसके वचन प्रमाण माने जाते हैं?
109. गुरु से आप किस वाद की अपेक्षा रखते हं?
110. चातुर्मास कब पारभ होता हे?
111. चरित्र का पर्यायवाची शब्द कानमा हे?

112. समय लेने वाले को माता पिता से क्या लेनी पडती है?
113. सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं?
114. शिष्य के लिए आगम में कौनसा सबोधन आया है?
115. आचार्य की प्रथम सम्पदा कौनसी है?
116. सामायिक में दीवार, खभे का सहारा लेने से कौनसा दोष लगता है?
117. सवत्सरी पर्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
118. आजकल मगाने भेजने को क्या कहा जाता है?
119. लेनेदेने में कौनसा शब्द उपयोग में होता है?
120. गुरुजन की कभी क्या नहीं करनी चाहिए?
121. श्रेष्ठ घोड़ा किस जाति का कहलाता है?
122. रत्न कम्बल किससे साफ होती है?
123. सामायिक में बैठने के काम आने वाला उपकरण कौनसा है?
124. सामायिक की आराधना कब से चली?
125. जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है?
126. धन्ना अणगार ने पारणे में कौनसा तप किया ?
127. याक्षिक पर्व को क्या करना चाहिए?
128. महिलाए शरीर पर सबसे अधिक क्या धारण करना चाहती है?
129. ऐसी कौनसी चीज है जो देखी जा सकती, पर पकडी नहीं जाती?
130. अश्रुपात करना कौनसा ध्यान है?
131. अष्ट सम्पदा के अधिकारी कौन होते हैं?
132. भरत महाराज को केवल ज्ञान कहा पर हुआ है?
133. गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था?
134. कामभोग किसके सदृश कहे गये हैं?
135. भ.महावीर के शासन में कितने राजा दीक्षित हुए?
136. मूर्च्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है?
137. शक्रस्तव में अरिहंतों को क्या विशेषण आया है?
138. महापापी कौन बनता है?
139. स्नेही जनों से क्या प्राप्त होता है?

- 140 तेजन्द्रिय जीवों के क्या नहीं होती?
- 141 गर्मी बढ़ने पर क्या बढ़ जाती है?
- 142 ग्रीष्म ऋतु का मेहमान कौन है?
- 143 महावीराष्टक के कुल कितने श्लोक हैं?
- 144 आज कल मरणोपरान्त कौनसा दान किया जाता है?
- 145 दयाव्रत धारण करने वाला किसका त्याग करता है?
- 146 चैत व आसोज सुदी में कौनसा तप किया जाता है?
- 147 मोक्ष गामी क्या क्षय करके क्या पाए?
- 148 आठ भाषा के जानकार कौन से ऋषि हुए?
- 149 किस कर्म के क्षय हुए बिना मुक्त हो नहीं सकते?
- 150 आठ कर्म वर्गण में तीसरी कर्म वर्गण कौन सी है?
151. श्रावक का धर्म कौनसा धर्म है?
- 152 सबसे पहले सुपात्र दान किसने ग्रहण किया?
- 153 कौनसा सूत्र चारों तीर्थ के लिए विधान रूप है?
- 154 किस अभिग्रह की कमी होने से वीर प्रभु बिना भिक्षा लिए लौटे?
- 155 अगली चौबीसी में कौन श्रावक तीर्थकर बनेगा?
- 156 प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल के एक शहर का नाम लिखो?
157. भ महावीर की वाणी किसमें संग्रहित है?
- 158 गुरु की क्या की जाती है?
- 159 पद्म परमाधामी देवों में दो देवों के नाम लिखो?
- 160 पद्म अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ?
- 161 आविष्कार की जननी क्या है?
- 162 कौन व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता?
- 163 समकित का पाचवा लक्षण कौनसा है?
164. 29 पाप सूत्रों में एक पाप सूत्र का नाम लिखो?
- 165 महापुरुष सदा क्या उपस्थित करते हैं?
166. महापुरुषों की क्या माननी चाहिए?
167. पतिक्रमण का दूसरा नाम क्या है?
- 168 श्रावक किस हिंसा का त्याग करने में ममर्थ नहीं है?

- 169 अचानक घटने वाली घटना क्या कहलाती है?
- 170 मनुष्य को किसका भय रहता है?
- 171 मनुष्य का विवाह, जिदगी का क्या है?
- 172 इस शरीर का चौकीदार कौन है?
- 173 धन से सुख साधन मिल सकते हैं पर क्या नहीं मिलता?
- 174 बरसा के अलावा जल को न पीने की प्रतिज्ञा किसने की?
- 175 काल चन्द सदा किसको खाता है?
- 176 व्यक्ति थकान के बाद क्या चाहता है?
177. जीवन का अमर धन क्या है?
- 178 आज व्यक्ति किस प्रवाह में बह रहा है?
- 179 वीर पुरुष कैसे जीते हैं?
- 180 कैसे तूफान में नहीं बहना चाहिए?
181. गुरु के प्रति क्या रखनी चाहिए?
- 182 वैदिक धर्म में मानव के लिए किसकी व्यवस्था है?
- 183 लोगस्स में किसकी माग की गयी है?
- 184 भवान्तर से आकर जहा उत्पन्न होते है उसे क्या कहते है?
185. सुकुमारता को छोडने साधु क्या लेते है?
186. स्पर्शेन्द्रिय के कितने विषय है?
187. षट्द्रव्य काल की अपेक्षा कैसे है?
- 188 ज्ञान के अतिचारों का पाठ कौन सा है?
- 189 नवकार मंत्र में शासक पद कौनसा है?
- 190 इच्छामि खमासमणों में दो बार क्या आया है?
- 191 आठवें व्रत के कितने आगार है?
- 192 प्रतिक्रमण में 6 क्या आते है?
- 193 पचाचार पालने वाले क्या कहलाते है?
- 194 आ श्री नानेश की दीक्षा तिथि क्या है?
- 195 मुहपति के कितने पुड होते है?
196. आ.श्री नानेश का युवार्चाय पद किस माह में हुआ?
197. तेरहवां चौदहवां योग कौनसा है?
198. पानी को शास्त्र में क्या कहा है?

- 199 कितने मद का त्याग करना चाहिए?
- 200 26 बोल की मर्यादा में एक मर्यादा का नाम लिखो?
- 201 पाक्षिक प्रतिक्रमण में कितने लोगस्स का ध्यान करना चाहिए?
- 202 तेतीस प्रकार की क्या कही है?
- 203 . 10 वें व्रत में एक अतिचार कौनसा आया है?
- 204 ध्यान में क्या बोला जाता है?
- 205 माया के मजिल में कौन धसा?
- 206 समता दर्शन समाज को किसने दिया?
- 207 मनुष्य जन्म पाने पर भी क्या मिलना मुश्किल है?
208. सिद्ध प्रभु क्या नहीं करते हैं?
- 209 जीव कहा जाते भी नहीं और आते भी नहीं?
210. प्रमादी का सहारा क्या?
- 211 इन्द्रभूति ब्राह्मण को किसकी शका थी?
212. युवाचार्य श्री राम की पठन रूची क्या?
213. क्षणभर में सैकड़ों योजन गमनकारी विद्या कौनसी है?
214. अनन्त प्रदेशी द्रव्य कौनसा है?
215. सम्यग्दृष्टि जीव के पहचान का मुख्य लक्षण क्या है?
- 216 स्त्रियों का सबसे बडा हथियार क्या है?
- 217 साधु की पहचान किससे होती है?
- 218 साधु किसके अनुरागी होते हैं?
219. सर्वोत्तम सस्कृति कौन सी है?
- 220 लौकिक सिद्धिया कितनी है?
221. आत्मा पर विश्वास कौनसा दर्शन रखता हे?
- 222 आस्तिक दर्शन किसका मडन करता है?
- 223 अविनाशी तत्व कौनसा हे?
- 224 अक्षय आनंद का स्थान कौन सा हे?
- 225 दुष्कर्मों के सेवन से क्या आती है?
- 226 बडों का आदर सूचक शब्द क्या है?
227. मुख शांति का स्रोत क्या है?
228. एक पूर्व का नाम लिखो?

- 229 निराकार स्वरूप किसका है?
- 230 परस्पर की फूट से क्या आती है?
- 231 विश्वसनीय वचन किसके होते हैं?
- 232 आदि और अन्त से रहित कौनसा तत्व है?
- 233 चौदह पूर्व धर पुरुष कैसे होते हैं?
- 234 दुष्कर्म-सत्कर्म करने वाला कौन है?
- 235 मक्खी आदि चौरन्द्रिय में कितने प्राण होते हैं?
- 236 शांति मय जीवन का बाधक कौन है?
- 237 छोटों के प्रति बड़ों का क्या चलता है?
- 238 उपाश्रय का दूसरा नाम क्या है?
- 239 चारित्रवान पुरुष को क्या कहते हैं?
240. विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या है?
241. एकासन और आयम्बिल तप के कितने-कितने आगार हैं?
242. सुभाष चन्द्र बोस ने किसकी स्थापना की?

इ

1. भ ऋषभ देव किस वश के थे?
- 2 नाचते नाचते केवल ज्ञान किसने पाया?
- 3 सोलह साल तक भारत पर राज्य किसने किया?
- 4 रानी कमलावती के प्रतिबोध से कौन राजा सयमी बना?
5. क्षेत्र विशुद्धि के लिए कौनसा पाठ बोला जाता है?
6. भ. ऋषभ देव का प्रथम पारणा किससे हुआ?
- 7 महापुरुषों का क्या बनता है?
8. आज व्यापारियों को किसका भय रहता है?
9. भगवान के पास वादी बन गये विनित कौन बने?
10. कौनसी घड़ी लम्बी लगती है?
- 11 सर्व साधन होने पर भी वाहन किसके बिना नहीं चलता?
12. धन पाकर धर्मी कौन बना?




- 13 आम के फलने पर कौन नही फलता?
- 14 किसके नाम आते ही मुह में पानी आ जाता है?
- 15 दु ख में काम आने वाला कौन होता है?
- 16 दु ख दर्द में सहयोग देना किसका लक्षण है?
- 17 न्याय का पर्याय वाची शब्द क्या है?
- 18 देवों का नायक क्या कहलाता है?
- 19 बिन पाल का सरोवर कौन सा है?
20. मैडल फॉर वेलर किस देश का सैनिक सम्मान है?
21. विश्व में वन दिवस कब मनाया जाता है?
22. भारत की राजधानी का हवाई अड्डा किस महिला रत्न के नाम पर है?
- 23 यज्ञ को छोड़ मान मर्दन के भाव से आक्रोश में कौन बढा?
24. दशहरा पर्व किस मुस्लिम देश में मनाया जाता है?
25. यति कौन कहलाते हैं?
- 26 किस पर विजय पाने वाला भगवान बनता है?
- 27 गुरु का कृपा पात्र कौन बनता है?
- 28 भारत का अपर नाम क्या है?
- 29 अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कौनसी है?
30. दर्शाण भद्र का मान मर्दन किसने किया?
- 31 पाचवा, छठा पहला और दूसरा आरा कितने हजार वर्ष का है?
- 32 किससे पृच्छा कर केशी श्रमण शिष्यों सहित वीर शासन में आए?
33. किस राज कुमार की शादी में रथ शेर द्वारा खीचा गया?
- 34 पीसा की झुकी मीनार किस देश म है?
- 35 आत्म अस्तित्व की शका किसको थी?
36. श्रावक की सामायिक कितने काल की है?
- 37 एक से सौ बार गिनने मं एक कितनी बार आता है?
- 38 एक सौ पैसठ की तपस्या किस श्राविका ने की?
- 39 नटनी पर मोहित होकर कुल गौरव किसने खोया?
- 40 ससार का सबसे पाचीन विश्व विद्यालय कहा पर हे?

- 41 कुतुब मीनार की क्या विशेषता है?
- 42 प्रतिक्रमण का सार किस पाठ में है?
- 43 श्रावक के कितने गुण हैं?
44. सलेखना का प्रथम अतिचार क्या है?
- 45 प्रतिक्रमण का प्रथम पाठ कौनसा है?
- 46 ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पहला अतिचार क्या है?
- 47 सामायिक चारित्र का प्रथम भेद कौनसा है?
- 48 अनशन तप का प्रथम प्रकार कौनसा है?
- 49 भ.महावीर का शासन कब तक चलेगा?
- 50 आ श्री हुक्मी चन्द जी म.ने बेले बेले कितने वर्ष किये?
51. आर्त्तध्यान का एक भेद लिखो?
52. पृथ्वी काय का गौत्र क्या है?
- 53 तीर्थकरों का जन्मोत्सव मेरू गिरि पर कौन मनाते है?
- 54 अच्युत देवलोक की जधन्य स्थिति कितनी है?
- 55 टी वी. विडियो फिल्म के त्याग से कौनसा तप होता है?
56. सात भयों में प्रथम भय कौनसा है?
57. समाचारी के दस भेदों में छट्टा भेद कौनसा है?
- 58 मुह पति कितने अंगुल लम्बी व चौड़ी होती है?
- 59 5 महाव्रत की 25 भावना में से प्रथम भावना कौनसी है?
60. जीवन निर्माण के लिए किसकी सगत करना?
61. मुष्टि प्रहार करते बाहुबली को किसने रोका?
62. देव भद्र व यशोभद्र किस नगर में जन्मे थे?
- 63 प्राचीन सस्कृति-सभ्यता का ज्ञान किससे होता है?
- 64 मिष्ठानों में एक प्रसिद्ध मिष्ठान क्या है?
65. कार्य की पूर्णाहुति का दूसरा नाम क्या है?
- 66 आहार और शरीर पर्याप्ति के बाद कौनसी पर्याप्ति बंधती है?
- 67 शब और शिव शब्द में किसका अन्तर है?
68. किस वनस्पति के फल नहीं आते?
69. चोरी करने व झूठ बोलने से क्या जाती है?
70. मुनि साधना काल में किसका निरोध करते है?



- 71 तीर्थंकर जहा विराजते है वहा क्या नही होती?
- 72 देव श्रमण ब्राह्मण को पतिबोध देने कौन गये?
- 73 मरण के 17 भेदों में से एक का नाम लिखो?
- 74 हाथी डूब जाय इतने वेभव का स्वामी क्या कहलाता है?
- 75 वसुभूति व पृथ्वी सुत कौन था?
- 76 साधु को सदैव कैसे रहना चाहिए?
- 77 रावण के एक पुत्र का नाम क्या था?
- 78 विनय वान् शिष्य कैसा होता है?
- 79 वर्पात्रतु में लाल मुलायम कीडा कौनसा होता है?
- 80 इन्द्रभूति ने प्रभु के लिए क्या सबोधन किया?
- 81 जरस्थु किस देश में हुआ?
- 82 पूर्व दिशा का दूसरा नाम क्या है?
83. आ श्री गणेश की मातु श्री कौन थी?
- 84 12 वें देवलोक के उपर क्या नही है?
- 85 मनुष्य का दण्डक कौनसा है?
- 86 गोबर के विशेष प्रयोग किस देश में हुए?
87. सामायिक में ध्यान करते कौनसा पाठ बोला जाता है?
88. 15 कर्मादानों में पहला कर्मादान कौनसा है?
- 89 पांच क्या होती है?
- 90 इच्छा कारण का तीसरा नाम क्या है?
- 91 आत्मा को ओर क्या कहा गया है?
92. नमि राजर्षि से ब्राह्मण रूप में प्रश्न किसने पूछे?
- 93 कौन व्यक्ति सुख से नही रहता?
- 94 मानव की प्रतिष्ठा का आधार क्या है?
- 95 इस्लामी बधुओं का त्यौहार कौनसा है?
- 96 नित्य सुबह उठकर क्या करना चाहिए?
97. मैं विषय से भी अधिक धातक हू?
- 98 खाने में कम फेंकने में ज्यादा क्या आता है?
- 99 महाविदेह में विचरने वाले एक विहरमान का नाम?
100. साधु को कैसे चलना चाहिए?



- 101 शकेन्द्र का निवास कहा पर है?
- 102 धर्मास्तिकाय के लिए विज्ञान कौनसा शब्द प्रयोग करता है?
- 103 चन्द्र से अधिक श्वेत, निर्मल कौनसी शिला है?
- 104 किसके बिना भोजन नहीं बनता है?
- 105 पुष्पों के रस से क्या बनता है?
- 106 किसको अपनाने वाला स्वर्ग सा सुख भोगता है?
- 107 तीर्थेश प्रभु व केवली भगवन्त किस दिशा में लचन करते हैं?
- 108 हिन्दुओं का तीर्थ व अस्थि विसर्जन कहा होता है?
- 109 सयोगी केवली भगवन्त को कौनसी क्रिया लगती है?
110. विश्व में सर्वाधिक फसल कौनसी होती है?
111. पच्चास में क्या जोड़ने से पच्चीस हो जाता है?
112. मतिज्ञान का दूसरा भेद कौनसा है?
- 113 56 दिक्कुमारियों में से एक का नाम लिखो?
- 114 अतिम दण्ड क्रिया कौनसी है?
115. आहार करने के 6 कारणों में पहला कारण क्या?
- 116 नीति किस गुण पर जीवित रहती है?
- 117 कषायों से रहित आश्रव कौनसा है?
- 118 अग्नि का आहार क्या है?
- 119 पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है?

उ

1. श्रावक को क्या कहते हैं?
- 2 आत्मा के समीप रहने को क्या कहते हैं?
- 3 भाणजे को राज्य किसने सौपा?
- 4 वन्दन करने से किस गौत्र का बध होता है?
5. सुख सामग्री होने पर भी कोई उसे क्यों नहीं भोग सकता?
6. अपराध होने पर अभिभावक या गुरु क्या देते हैं?

- 7 आज्ञा न मानने पर क्या होती है?
- 8 चारित्र का पालन किन भावों से करना चाहिए?
- 9 वैमानिक देव किस लोक में रहते हैं?
- 10 आगमों का पठन पाठन कराने वाले क्या कहलाते हैं?
- 11 दस श्रावकों का वर्णन किस सूत्र में है?
- 12 दानी कौन हो सकता है?
- 13 औपपातिक सूत्र का प्रकृत नाम क्या है?
- 14 सीने के बल से चलने वाले क्या कहलाते हैं?
- 15 क्या सदा घटती ही घटती है बढ़ती नहीं?
- 16 बुद्धिमान पुरुष किसी का क्या नहीं करते हैं?
17. खदक के 500 शिष्य क्या सहते-2 मोक्ष गये?
- 18 तत्त्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन है?
19. चातुर्मास में जीवों की अधिक क्या होती है?
20. लक्ष्मण की पत्नि का क्या नाम था?
- 21 जीव का स्वभाव कैसा है?
- 22 जीव का लक्षण क्या है?
23. सफलता के लिए जीवन में किसकी आवश्यकता है?
- 24 छतीस अध्ययन किस शास्त्र में है?
25. प्रभु की आपुठ वागरणा का शास्त्र कौनसा है?
- 26 संघ का सकट दूर करने भद्रबाहु स्वामी ने क्या रचा?
- 27 निर्मल चारित्र पालन से जीव का क्या होता है?
28. धर्मो पुरुष की गति कौनसी होती है?
- 29 गणधरों को प्रभु कौनसी त्रिपदी देते हैं?
30. साकार और अनाकार भेद किसके हैं?
- 31 मनुष्य कैसा प्राणी है?
- 32 आर्द्रकुमार को सामायिक का क्या देख जाति स्मरण ज्ञान हुआ?
- 33 4 से 11 वें गुण स्थान तक कौनसी समकित रहती है?
34. राजस्थान में कौनसी नगरी झीलों की नगरी कहलाती है?
- 35 प्रेम की कैची क्या है?
36. त्रिशुल धारी शकर की पत्नी कौन थी?

37. अरिहत सिद्ध साहू और धर्म लोक में क्या है?
38. सूर्य व चन्द्र किस नाम कर्मोदय से चमकते हैं?
39. उदय से पहले कर्म निर्जरा होना क्या कहलाती है?
40. किस श्रेणी से चढ़ा जीव पुनः नीचे आता है?
41. भक्त को उठते ही क्या करना चाहिए?
42. सत्तर क्रोडा क्रोडी सागर की मोह कर्म की कौन सी स्थिति है?
43. उदयपुर शहर को किसने बसाया?
44. दिन में न देख रात को कौन देखता है?
45. नव तत्वों में सवर और मोक्ष क्या है?
46. किस क्षमावीर सम्राट की क्षमा प्रसिद्ध है?
47. अपने जीवन को किस रूप में पेश करना चाहिए?
48. श्री पाल को कोठियों ने कौनसी उपाधि भेंट की?
49. भ. महावीर को देव, मनुष्य, तिर्यच के क्या आए?
50. दान देते रहने से कौनसा गुण बढ़ता है?
51. देश की समृद्धि का सहारा कौन है?
52. तिब्बत की कौनसी झील हर बारह वर्ष में खोर मीठे रूप में बदलती है?
53. कर्ण की प्रसिद्धि किससे हुई?
54. श्रावक का सातवा व्रत कौन सा है?
55. अग्नि का स्वभाव कैसा है?
56. जैनी सवत्सरी के रोज क्या करते हैं?
57. संत महात्मा क्या देते हैं?
58. जो पदार्थ एक बार काम आवे उसे क्या कहते हैं?
59. 6 भावों में एक भाव का नाम लिखो?
60. मेवाड की सबसे बड़ी सिटी कौनसी है?
61. लक्ष्मी का वाहन क्या है?
62. लोगस्स का दूसरा नाम क्या है?
63. ऐसा कौनसा देश है जिसमें जमीन नहीं है?
64. जैन धर्म कौनसा धर्म है?
65. धैर्यता से सागर की उपमा किस आचार्य ने पायी?



- 66 रणवीर से क्षमावीर कौन बने?
- 67 पाग गिरने से वैरागी कौन बने?
- 68 दिन में चुप और रात को बोलने वाला कौन?
- 69 अहिंसा सयम और तप रूप धर्म कैसा है?
- 70 आगमेतर ग्रन्थों में तीर्थकरों को क्या कहा है?
- 71 धर्म स्थान में श्रावक मुह पर क्या लगाते हैं?
- 72 अभिमन्यु की पत्नी कौन थी?
- 73 वैरागी आत्मा में क्या होना चाहिए?
- 74 गुरु दर्शन करने मन में क्या रहना चाहिए?
- 75 सेवादि कार्यों को करने की क्या होनी चाहिए?
- 76 कभी-2 जीवात्मा कर्मों की क्या करती है?
- 77 काकदी के धन्ना की साधना कैसी थी?
- 78 ज्ञान किससे बढ़ता है?
- 79 14 पूर्वों में पूर्व कौनसा है?
- 80 समुद्र को क्या कहते हैं?
- 81 राजमति के पिता कौन थे?
- 82 दान पुण्य करने वालों का भाग्य कैसा बनता है?
- 83 शख श्रावक की पत्नि का क्या नाम था?
- 84 प्राचीन काल में तीर्थकर आदि कहां पर रूकते थे?
- 85 जिन नहीं पर जिन सरीखे कौन?
- 86 आहार कब छोड़ना चाहिए?
- 87 आगम अध्यन करते कौनसा तप करना चाहिए?
- 88 विम कर्मोदय से शरीर से शीतल पकाश होता है?
- 89 राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक क्या?
- 90 धर्म कार्य में सहायक साधन को क्या कहते हैं?
- 91 नगरे के स्थान को पाकृत में क्या कहा है?
- 92 त्वन पति देवों का आठवा दण्डक किमका है?
- 93 जीन विराधना का एक प्रकार लिखो?
- 94 का छद्म आगार कौनसा है?
- 95 में मिट्टों को कैसा बतलाया है?

96. तीर्थेश प्रभु कैसे होते हैं?
97. 26 बोल में पहला बोल कौनसा है?
98. किस गुण स्थान वाला जीव नीचे गिरता है?
99. स्पर्शेन्द्रिय के आठ विषय में से एक का नाम लिखो?
100. 24 वें बोल के कितने भागे हैं?
101. 26 बोलों में से पांचवा और 23 वा बोल कौनसा है?
102. चातुर्मास के अलावा शेष काल में संत एक स्थान पर कितने दिन रह सकते हैं?
103. गणेशाचार्य का जन्म, दीक्षा, स्वर्गवास कहा हुआ?
104. आ.श्री नानेश को युवाचार्य पद व आचार्य पद कहा मिला?
105. एक अग और एक उपांग का नाम लिखो?
106. जंभाइएणं का क्या अर्थ है?

ऊ

1. भोजन करते हुए कौनसा तप किया जा सकता है?
2. ब्रह्मचार्य पालने से जीवन में क्या बढ़ती है?
3. सूर्य की किरणों से मिलती क्या है?
4. गणेश जी का वाहन क्या है?
5. रेगिस्तान की जहाज कौन है?
6. बरसात निरर्थक कहाँ पर जाती है?
7. हिमालय की शिखा कैसी है?
8. भारी कर्मा जीव प्रवचन सभा में क्या करता है?
9. ध्यान का प्रथम आगार क्या है?

ए

- 1 खेलते 2 केवल ज्ञानी कौन बना?
- 2 ध्यान साधना के लिए मन कैसा जरूरी है?
- 3 नमि राजर्षि ने कौनसी भावना भायी?
- 4 पाच सीवर कायिक जीव क्या कहलाते हैं?
- 5 भ महावीर स्वामी के कितने श्रावक थे?
- 6 दशार्ण भद्र राजा को किसका मद था?
- 7 अक्षय तृतीय पर किन तपस्वियों का पारणा होता है?
- 8 जीवन के उद्धार के लिए सदगुरू के कितने वचनों की जरूरत है?
- 9 सगठन का दूसरा नाम क्या है?
- 10 महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सत का नाम लिखो?
- 11 द्रौणाचार्य की भक्ति में किस शिष्य का नाम आता है?
- 12 एक स्थान पर बैठकर एक बार खाने से कौनसा तप होता है?
- 13 एक स्थान पर एक बार में अन्न जल लेना कौनसा तप है?
- 14 भ ऋषभ देव के परिवार से कितनी दीक्षाएं हुईं?
- 15 लम्बे सफर के लिए कौनसी ट्रेन सुविधा जनक है?
- 16 आधुनिक शिक्षित नारिया स्वतंत्रता बनाये रखने क्या करवाती है?
- 17 स्वतंत्रता के पहले भारत पर किसने राज्य किया?
- 18 जैन धर्म किस वाद को सत्य नहीं मानता?
- 19 शरीर में खरदरा क्या है?
- 20 शक्रेन्द्र की सवारी क्या है?
- 21 क्षायिक समकित जीवात्मा को कितनी बार आती है?
- 22 सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव कितने भव करते हैं?
- 23 चक्रवर्ती का राज्य कैसा होता है?
- 24 नरक के दस भेद में लेश्या कितनी होती है?
- 25 श्रमण आहार पानी की क्या करते हैं?
- 26 13 वै गुणस्थान में किस कर्म का वध होता है?

- 27 जम्बु कुमार ने उपदेश कितनी बार सुना तो वैराग्य जगा?
- 28 साधु का दूसरा मनोरथ कौनसा है?
- 29 चक्रवर्ती की कितनी रानिया होती है?
- 30 तीर्थंकर वर्षादान में प्रतिदिन कितना दान देते हैं?
- 31 मार्ग बहते जीव में कितने प्राण रहते है?
- 32 ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है?
- 33 चौबीस दण्डक में पाच दण्डक किसके है?
- 34 सध, समाज व परिवार में क्या होना जरूरी है?
- 35 अज्ञानी आत्माओं में कौनसा गुणस्थान पाता है?
36. ठाणांग सूत्र का प्रथम सूत्र कौनसा है?
- 37 एकान्त सम्यग्दृष्टि व मिथ्या दृष्टि में कितनी दृष्टि पाती है?
38. शुक्ल ध्यान का एक पाया कौनसा है?
39. तीर्थंकर भ. के शारीरिक लक्षण कितने होते हैं?
40. साधु जी कितने अतिचारों का प्रतिक्रमण करते हैं?
- 41 जिन्दगी को व्यर्थ किसमें मत गवाओं?
- 42 भद्रा सेठानी के यहा श्रेणिक क्या देखने गया?
43. हाथियों में सर्व श्रेष्ठ हाथी कौनसा है?
- 44 एक पर्वत का नाम लिखो?

क

- 1 मेरा मुझ मे कुछ नही, जो कुछ है सौ तौरा।
तेरा तुझको सौपते, क्या लागत है मोर? यह किसने कहा?
2. इच्छापूर्ण करने वाला कौनसा वृक्ष है?
- 3 यह आरा किस युग का चल रहा है?
- 4 पहनाते वो देखते नहीं, देखते है वे पहनते नहीं क्या?
5. कौन दिन में खिलता रात को मुरझाता है?
6. सत महात्मा किसके त्यागी होते हैं?
- 7 छह लेश्या में प्रथम लेश्या कौनसी है?

- 8 अर्जुन रथ के सारथी कौन थे?
- 9 आ श्री नानेश का दीक्षा स्थल कहा है?
- 10 दो मासे स्वर्ण क लिए इधर उधर कौन भटका?
- 11 बैल को देख कर केवलज्ञानी कौन बने?
- 12 भ महावीर का जीवन चरित्र किस शास्त्र में है?
- 13 किस राजाने मरते दम तक दान दिया?
- 14 वीर प्रभु के पास ब्राह्मण क्या मागने आया?
- 15 भ महावीर को निम्न कोटि का उपसर्ग किसने किये?
- 16 जीव चतुर्गति ससार में क्यों भटकता है?
- 17 इक्षुकार राजा ने किससे प्रेरित हो सयम लिया?
- 18 कौनसी भाषा साधु को नही बोलनी चाहिए?
- 19 किससे कुल मर्यादा नष्ट होती है?
- 20 मनुष्य कैसा प्राणी है?
- 21 भ ऋषभ देव के पांच नाम किसमें आये हैं?
- 22 सिद्धसेन दिवाकर ने किसकी रचना की?
- 23 राजा श्रेणिक की दासी का क्या नाम था?
- 24 भारत की दक्षिण सीमा कहां तक है?
- 25 शकुतलम् नाटक के रचियता कौन है?
- 26 आज के युग में किनकी कमी नही है?
- 27 नगर रक्षक ने बदी किसको बनाया?
28. सिद्ध और संसारी में क्या अन्तर है?
- 29 पार्श्वकुमार ने जलते नाग-नागिन को किसके यज्ञ से बचाया?
30. 14 वीं, 15वीं सदी में किसने धार्मिक एकता का उपदेश दिया?
31. न खाया न खरचा, पर जोड़-2 चल बसा कौन?
32. भिक्षुक हाथ में क्या रखते हैं?
- 33 तीर से भी तीक्ष्ण क्या है?
- 34 श्रावक के लिए सर्वथा अनाचरणीय क्या है?
- 35 क्लेशोत्पादक नारी क्या कहलाती है?
- 36 कौन श्लाघ्य पुरुष करागृह में जन्मे?
37. भ.महावीर ने आहार किममें किया?

- 38 जड होने पर भी चेतन पर कौन प्रभाव डालता है?
- 39 तन की कुर्बानी दे राजाने किसे बचाया?
- 40 श्रेणिक के नरक टलने का एक कारगर उपाय?
- 41 तेइन्द्रिय जीवों में सबसे बड़ा कौन?
- 42 उतराध्ययन के तेतीसवें अध्ययन का क्या नाम है?
- 43 जैन दर्शन में किसकी प्रधानता है?
- 44 माया का दूसरा नाम क्या है?
- 45 पार्श्वकुमार ने किसका मान मर्दन किया?
- 46 क्रोध किस अंग में रहता है?
- 47 गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए?
- 48 पयुर्षण के समय अपराहन में कौनसा सूत्र पढा जाता है?
- 49 देवकी महाराणी का भाई कौन था?
50. आठ स्पर्श में से एक स्पर्श का नाम बताओ?
51. पाच रसों में एक रस का नाम लिखो?
- 52 युद्ध में सुरक्षा के लिए क्या पहना जाता है?
53. द्वापर युग के अमर दानी का नाम क्या?
- 54 धतुरे को किस नाम से पुकारते हैं?
55. हुमायू को राखी किसने भेजी?
- 56 सुख दुःख का जीव क्या है?
57. प्रत्येक बुद्ध राजा कौन हुए?
- 58 पापी श्रमण नित क्या करता है?
- 59 प्रभु के नाम का आधार किस युग में रहता है?
- 60 अग्नि किसे कहा गया है?
- 61 हूमायुं के न आने पर शील रक्षा हेतु जौहर किसने किया?
- 62 महाबल मुनि को अग्नि में किसने जलाया?
- 63 जग वासियों के तन को कौनसा फूल ढकता है?
64. सुस्वर का जन्म कहा से होता है?
65. चित संभूति का मिलन किस नगर में हुआ?
- 66 शरीर का अन्तिम साथी कौन?
- 67 सिद्ध भगवन्त में क्या नहीं होते हैं?



- 68 मल्लि भगवती ने पूर्वभव में तप किस भाव से किया?
- 69 जरासध का दामाद कौन था?
- 70 राग द्वेष से किसका वश बढ़ता है?
- 71 स्वाती बूद किसमें गिर कपूर बनती है?
- 72 कर्मवाद का विवेचन किसमें है?
- 73 देवेन्द्र सूरि ने किस ग्रन्थ की रचना की?
- 74 तिलक की रक्षा किसने की?
- 75 उज्जैन के गर्दभिल्ल नृप के साथ किस मुनि ने युद्ध किया?
- 76 52 भैरू 64 योगिनीयां किसके वश में थीं?
- 77 शास्त्रार्थ में परास्त हो मुनि कौन बने?
- 78 शांति का प्रतीक पक्षी कौन है?
- 79 सगीत कब आकर्षक बनता है?
- 80 छठें तीर्थकर का चिन्ह क्या है?
- 81 रसना के अधीन हो नरक गामी कौन हुआ?
- 82 किससे ससार बढ़ता जाता है?
- 83 भारत का स्वर्ग क्षेत्र कौनसा है?
- 84 भारत की सर्वाधिक आबादी क्षेत्र कौनसा है?
- 85 अनर्थ की जड़ क्या है?
- 86 भ पार्श्वनाथ को उपसर्ग किसने दिये?
- 87 विद्या देवी का आसन क्या है?
- 88 काजल से काला क्या है?
- 89 सुभद्रा को सास ने कौनसा तिलक लगाया?
- 90 मृगनाभि में कौनसी औषधी रहती है?
- 91 तृष्णा को वश करके कौन तिरे?
- 92 अर्जुन को गीता पाठ किसने सुनाया?
- 93 बहन की सतान को खत्म करने वाला कौन था?
- 94 राजा मेधरथ ने किसकी रक्षा की?
- 95 पाचाल देश की राजधानी किस नगर में थी?
- 96 रुद्राक्ष की माला को क्या कहते हैं?
- 97 कचनपुर किस देश की राजधानी थी?

98. कमाई का केन्द्र क्या है?
99. भ मल्लिनाथ का प्रमुख चिन्ह क्या है?
100. मनुष्य को क्या नहीं भूलना चाहिए?
101. दोस्ती का जहर क्या है?
102. 12 देवलोक वाले क्या कहलाते हैं?
103. शख राजा ने किस रानी के हाथ कटवाये?
104. तीर्थंकर देवों के पात्र क्या होते हैं?
105. हम किस भूमि पर रहते हैं?
106. स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है?
107. साधु-साध्वी कैसी वस्तु ग्रहण करते हैं?
108. चण्ड कौशिक ने किसका प्रतिक्रमण किया?
109. श्रेणिक की दूसरी रानी ने कौनसा तप किया?
110. कुशील निर्ग्रथ का दूसरा भेद कौनसा है?
111. लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है?
112. मरीचि का शिष्य कौन था?
113. विजयसेठ व विजया सेठानी किस राजधानी के थे?
114. अशोक सम्राट किस देश का राजा था?
115. हंसी का मूल क्या है?
116. पांच कल्पों में से एक कल्प का नाम लिखो?
117. श्माशन घाट पर कौनसी क्रिया कैसी होती है?
118. साधु की इन्द्रिय गोपन क्रिया कैसी होनी चाहिए?
119. भ.नेमिनाथ ने पशुओं पर क्या की?
120. सभ्य संस्कृति का प्रतीक चिन्ह क्या है?
121. वासुदेव किस कोटि के पुरुष माने गये हैं?
122. पोटिया किसकी पुत्री थी?
123. पुनर्जन्म के सिद्धान्त को सटीक सिद्ध कौन करता है?
124. नमि विनमि के पुत्र कौन थे?
125. नमि राजर्षि ने मिथिला का त्याग किस प्रेरणा से किया?
126. वसुदेव को बंदीगृह में रखने वाला कौन था?
127. अनंत कायिक वनस्पति कौनसी है?

- 128 किसका तिलक निकला जाता है?
- 129 अतिमुक्त मुनि को किसकी पत्नी ने गृह जीवन का निमंत्रण दिया?
- 130 कृष्ण ने किसको मृत्यु के घाट पहुँचाया?
- 131 वैभव होने पर भी दान कौन नहीं दे सकता?
- 132 6 लेश्या में पहली लेश्या कौनसी है?
- 133 द्रौपदी चिर हरते शील किसने बचाया?
- 134 भ विमलनाथ के पिता कौन थे?
135. यदुवश में अभवी कौन था?
- 136 जन्मे तब शहनाई नहीं, मरे तब रोने वाला नहीं कौन थे?
137. बेइन्द्रिय में सबसे बड़ा कौन?
138. धर्म दलाली कर तीर्थकर गोत्र किसने बाँधा?
139. जेल में जन्मे पृथ्वी पति कौन बने?
140. किस वासुदेव की आठ पत्निया भाई सात मोक्ष गए?
141. गुरु को कल्याण रूप किस शब्द से कहा गया है?
142. 25 बोल का 10 बोल किसका है?
143. समकित का दूसरा अतिचार क्या है?
144. तीन क्या कहे गये हैं?
145. अट्टारह पाप स्थानों में एक पाप स्थान बताओ?
146. सामयिक में चार क्या करना निषेध है?
147. आठ आत्मा में दूसरी आत्मा कौनसी है?
148. प्रतिक्रमण का चौथा भेद कौनसा है?
149. साधु जी का 16वां गुण कौनसा है?
150. पद्मह क्या कहे गये हैं?
151. रसनेन्द्रिय के दो विषय बताओ?
152. प्रज्ञापना सूत्र का 14वां अध्ययन कौनसा है?
153. सामायिक में दो करण त्याग के कौनसे हैं?
154. देव उपसर्ग को किस श्रावक ने समभाव से सहा?
155. भ.सुविधिनाथ जी का जन्म कहा हुआ?
156. राजाभोज के समय मूर्ख कवि कौन था?

- 157 स्त्री क्या कहलाती है?
158. सर्व जीवों के कौनसा शरीर होता है?
- 159 पुष्कर द्वीप के चहु ओर कौनसा समुद्र है?
- 160 अढाई द्वीप के बाहर क्या नहीं होता है?
161. 1008 वणिको सहित मुनि सुव्रत के पास कौन दीक्षित बना?
162. श्रोतेन्द्रिय को क्या कहते हैं?
163. साधु का वर्ण कैसा है?
164. उतराध्ययन सूत्र कौनसा सूत्र है?
165. अपर्याप्त अवस्था, बांटे बहते जीव के कौनसा योग रहता है?
166. भ.महावीर का निर्वाण कब हुआ?
167. उपसर्ग में श्रद्धा किसकी नहीं डिगी?
168. वाराणसी नगरी कहा की राजधानी थी?
169. 500 सौ भैसों को रोज कौन मारता था?
170. बारह आगार किसके हैं?
171. ग्वाले ने वीर के कानों में कील किसकी ठोकी?
172. व्युत्सर्ग तप का दूसरा नाम क्या है?
173. आंख होते हुए भी अंधा कौन?
174. अढाई द्वीप में एक समुद्र कौनसा आता है?
175. बीस क्रोडा क्रोडी सागरोपम का क्या होता है?
176. साधना को किससे नहीं जोड़ना चाहिए?
- 177 कुल से हीन व विचारों से भी हीन कौन था?
178. मुत्यु का दूसरा नाम क्या है?
179. नाम को कौन नहीं खा सकता?
180. देउ तो लाजू, न देउ तो लाजूं वह क्या ?
181. विरोध प्रदर्शन में क्या दिखाया जाता है?
- 182 सात भेद किस योग के हैं?
183. बाह्य तप में 5 वां भेद कौनसा है?
184. आभ्यान्तर तप का अन्तिम भेद कौनसा है?
185. शारीरिक मोह ममत्व का त्याग हेतु क्या किया जाता है?
186. तस्स उतरी का पाठ बोलकर क्या किया जाता है?

- 187 संलेख्ना का 5वा अतिचार कौनसा है?
- 188 सामायिक के 5 अतिचारों में एक काया का अतिचार कौनसा है?
- 189 सामायिक के 32 दोषों में 12 दोष किसके हैं?
- 190 इच्छामि ठामि में कराये का सूचक शब्द क्या है?
- 191 चौथे अणुव्रत का एक अतिचार लिखो?
192. 12 वें व्रत का तीसरा अतिचार क्या है?
193. चक्षु इन्द्रिय का एक विषय लिखो?
- 194 पुण्य का आठवा भेद कौनसा है?
195. खमासमणो के पाठ में दूसरा तीसरा आवर्तन क्या है?
- 196 समय सूचक द्रव्य कौनसा है?
- 197 तीसरी अशुभ लेश्य का क्या नाम है?
- 198 तीसरी गुप्ति कौनसी है?
199. साधु का 22वां गुण कौनसा है?
200. महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था?
- 201 ईसामसीह ने किस धर्म की स्थापना की?
202. आचरण को प्रमुखता देने वाले वादी कौन है?
- 203 सर्व प्रणियों का आधार भूत कौन है?
204. पुत्र का संकल्प ले संसार किसने त्यागा?
205. धर्म रूची अणगारने कड़वा तुम्बा क्यों खाया?
- 206 किलापना पहुंचाने का द्योतक शब्द क्या है?
- 207 लोगस्स में कीर्तन करूगा का सूचक शब्द क्या है?
208. भमल्लीनाथ के पिता का क्या नाम था?
- 209 नरक में जीव किसमें उत्पन्न होते हैं?
210. रावण के भाई का नाम क्या था?
- 211 पाँचों पाण्डवों की माता द्रौपदी की सास कौन थी?
212. इस्लाम के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है?
- 213 अमोरों का पिय पालतु जानवर क्या है?
- 214 ऋषभ देव माता के गर्भ में आए तो हिरण्य वृष्टि किसने की?

- 215 कर्ण की माता कौन थी?
- 216 पितृ आज्ञा पालन में सहर्ष आखो का बलिदान दिया?
- 217 युगालिक काल में दण्डनायक कौन होते हैं?
- 218 नाभि महाराज कौन थे?
- 219 परमार्हत पद किस सम्राट को मिला?
220. केवली होने पर भी 6 माह गृहस्थ में कौन रहे?
221. युगलियों के मार्ग दर्शक कौन होते हैं?
- 222 तपोबल से किसने लक्ष्मी को रोका?
223. 'जयतिहुअण स्तोत्र' रचते नवागी टीका अभयदेव किस रोग से मुक्त बने?
- 224 20 लाख पूर्व तक भ.ऋषभदेव किस अवस्था में रहे?
225. भ. के अतिसार हेतु रेवती श्राविका ने कौनसी औषध बनायी?
226. हिन्दु धर्म-शास्त्र के विद्वान भाष्य कार कौन हुए?
227. आत्मा से परमात्मा बनने क्या देनी पडती है?
228. दोनों कुलों की कुल दीपिका कौन होती है?
229. कृतज्ञ कौन है?
230. सिद्धार्थ नरेश कहां के राजा थे?
231. गौत्र कर्म किसके समान है?
232. महाभारत युद्ध किस क्षेत्र मे हुआ?
- 233 सिद्धसेन दिवाकर का दूसरा नाम क्या है?
234. भरत महाराज के वंदन से मरीचि को क्या हुआ?
- 235 संवत्सरी को आहार करते-2 कर्म किसने काटे?
236. वैश्रमण का दूसरा नाम क्या है?
237. गौतम स्वामी से शकाओ का समाधान किसने लिया?
238. उत्तराध्ययन के 23 वें अध्ययन में किसका वर्णन है?
- 239 त्रिकाल दर्शी, ज्ञानी कौन होते हैं? स्वप्न कौन नही देखते?
240. तीर्थंकर प्रभु धर्म देशना कब देते हैं?
241. स्वतंत्रता के बाद कम्युनिष्ट पार्टी का जन्म कहां हुआ?
242. रावण की माता कौन थी?
243. भरत की माता का क्या नाम था?

- 244 हर कारीगर का प्रथम हथियार क्या है?
- 245 नवग्रह में एक ग्रह का नाम लिखो?
- 246 शरीर में सबसे हल्का क्या है?
- 247 राजा परदेशी के गुरु कौन थे?
- 248 आज के युग का असाध्य रोग क्या?
- 249 दीक्षा प्रसंग पर क्या छाटी जाती है?
- 250 दशरथ को युद्ध में किस रानी ने सहायता की?
- 251 मन्थरा ने किसके मस्तक को घूमा राम को बनवास दिलाया?
- 252 साध्वियों को कौनसा फल अखण्डित लेना नहीं कल्पता?
- 253 राजा परदेशी किस देश का स्वामी था?
254. जग को देखने की दुरबीन क्या है?
- 255 रूपवान है पर गंध रहित कौनसा पुष्प है?
- 256 चन्द्रमा को कौनसा ग्रह ग्रस्ता है?
257. जम्बु स्वामी इस काल के अन्तिम क्या हुए?
258. श्रेणिक ने किस पुत्र को आते देख प्राण त्यागे?
259. वीर पशु के कुशल समाचार सुन अन्न जल कौन लेता?
- 260 13वां चक्रवर्ती बनने का स्वप्न किसने सजोया?
261. स्व-पर दाहक कौन है?
262. सयती नृप कहा का वासी था?
263. लव-कुश की दादी राम की मा कौन थी?
- 264 नारद किसके पिय होते हैं?
- 265 हीरों में सर्व श्रेष्ठ हीरा कौनसा है?
- 266 श्रेणिक को कारागृह में किसने रखा?
267. स्थूलिभद्र मुनि ने किसकी चित्रशाला में वर्षावाम किया?
268. वासुदेव श्री कृष्ण की मृत्यु कहा हुई?
269. कौनसा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता?
270. किमके पास में सर्प नहीं आता है?
271. अर्थशास्त्र के रचयिता चन्द्र गुप्त मौर्य क गुरु कौन थे?
272. शरीर की सबसे छोटी ईकाई क्या है?
273. अन्तराय कर्म किसके तुल्य है?

- 274 आज न्याय-अन्याय की हेरा फेरी कहा होती है?
- 275 साकेत पुर किस देश की राजधानी थी?
- 276 अग्नि से भी तेज क्या है?
- 277 कौन मूर्खता से जन्म पश्चाताप में नष्ट होता है?

ख

- 1 पृथ्वी से निकलने वाला क्या होता है?
- 2 सवल्सरी के दूसरे दिन जैन बन्धु क्या करते हैं?
3. किस मुनि की चमड़ी उधेड़ी गयी?
- 4 किनके समक्ष उनके शिष्यों को धाणी में पिला?
5. आत्मा का अक्षय क्या है?
6. गधे की एक नश्ल कहलाती है?
- 7 केशीयर को क्या कहते है?
8. त्रिदंडी मरीचि पांव में क्या पहनता था?
9. क्रोध का परिणाम कैसा रहता है?
10. पक्षी को क्या कहते हैं?
11. वीर प्रभु के कानों से कीलें किसने निकाली?
- 12 क्षमा का प्राकृत शब्द क्या है?
13. यति धर्म का पहला लक्षण क्या है?
14. जीवन की आराधना करने क्या करना चाहिए?
15. चमड़ीउतरवाते-2 केवल ज्ञान कौन पाए?
16. सौंदर्य के लिए किस निरीह पशु के प्राण जाते हैं?
- 17 वन्दन की सर्व श्रेष्ठ विधि कौन सी है?
- 18 नारद जी पैरो में क्या रखते हैं?
- 19 इमली का स्वाद कैसा रहता है?
- 20 भरत ने सिंहासन पर श्री राम की क्या रख राज्य किया?
21. चक्रवर्ती का एक एकेन्द्रिय रत्न का नाम लिखो?

- 22 तलवार का दूसरा नाम क्या है?
- 23 भूत प्रेत आदि कहा रहते हैं?
- 24 मुस्लिम लोग पत्र को क्या कहते हैं?
- 25 काचर छील चमडी किसने उधड़वायी?
- 26 पुरूषसिंह का साला सुनदा का भाई कौन था?
- 27 झरोखे से मुनि को देख सुनदा को किसकी याद आयी?
- 28 उपसर्ग सहते-2 ससार किसने बढ़ाया?
- 29 शिष्य मोह में करणी बेच कंगाल कौन बना?
30. अपमान का बदला लेने पालक ने पडयत्र रच किन्हें मरवाया?
- 31 कौन मुनि आयु पूर्ण कर अग्नि कुमार देव बना?
- 32 गज सुकुमाल की खोपड़ी कैसे सीझ रही थी?
33. अग्नि का एक प्रकार कहलाता है?
34. कपिल ने तेरहवें चक्रवर्ती बनने का क्या देखा?
- 35 जो अखण्ड नहीं उसे क्या कहते हैं?
36. महापुरूषों का आदर सूचक विशेषण क्या?
- 37 एक गुफा का नाम लिखे?
38. जैनागम का प्रसिद्ध स्तोक का नाम क्या?
- 39 भूगोल वत् एक अन्य विषय बताए?
- 40 एक परमाधमी देव का नाम बताए?
- 41 व्याकरण-दृष्टि से एक अन्यय लिखो?
42. रामायण में एक पात्र क्या रहा?
- 43 ग्रीष्म ऋतु में कौनसा फल आता है?
44. तपस्वी तप से कर्मों का क्या करते हैं?
- 45 स्पर्शनिद्रय का एक विषय कहा है क्या?
- 46 चक्रवर्ती 6 क्या माधते हैं?
47. जुगनू का दूसरा नाम क्या है?
48. कायोत्सर्ग पतिज्ञा में एक आगार क्या?
49. विक्रमादित्य के समय का प्रसिद्ध चोर कौन?
50. अनादि काल से जीव ओर कर्म का क्या है?
51. चार आहार में तीसरा आहार क्या है?

52. क्रोधी व्यक्ति के मन में क्या रहता है?
53. दुरात्मा क्या कहलाती है?
54. पृथ्वी का एक नाम लिखो?
55. गौतम स्वामी ने किस परिव्राजक का सम्मान किया?
56. समाधान पाकर साधु कौन बना?
57. काष्ठकार-सुथार को क्या कहते हैं?
58. लवण समुद्र का पानी कैसा है?
59. प्रतिक्रमण में क्षमापना का पाठ कौनसा है?
60. शैतान का घर क्या है?
61. आ श्री जवाहर किस वस्त्र के धारण पर जोर देते?
62. फसल उत्पादन बढ़ाने का साधन क्या है?
63. रोग का मूल क्या है?
64. क्रोध के प्रसंग पर कैसे रहना चाहिए?
65. पंजाब किस प्रान्त की स्वतंत्र मांग कर रहा है?
66. धुलिया ग्राम कौनसे देश में आता है?
67. क्या करते समय मौन रहना चाहिए?
68. धर्म रूचिने जीव रक्षा हित कड़वे तुम्बे का क्या किया?
69. सिंह मुर्दे को क्या नहीं करता?
70. दीपमालिका को व्यापारी किसे पूजते हैं?
71. आहार करते हुए भी कभी पेट की क्या नहीं भरती?
72. सयम की पालना किससे दुष्कर है?
73. लिफाफे का दूसरा नाम क्या है?
74. शरीर की सात धातुओं में एक का नाम बताओ?
75. मुस्लिम किसकी आराधना में नमाज पढ़ते हैं?
76. कूख्यात डाकू क्या कहलाते हैं?
77. साधु को कैसे नहीं बोलना चाहिए?
78. नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का क्या किया?
79. विद्याधर क्या कहलाते हैं?
80. आकाश गामी पक्षी क्या कहलाते हैं?
81. 12 लाख कुल क्रोडी किसकी है?

82. कायोत्सर्ग का एक आगार क्या आया है?
83. साधक को प्राप्त होने वाली एक लब्धि का नाम बताओ?
84. सदगुरु भव्यों के जीवन नौका के क्या हैं?
85. बच्चों को अधिक प्रिय क्या रहता है?
86. भ महावीर कैसे थे?
87. पाचवे अणुव्रत का प्रथम अतिचार क्या है?
88. एवता कुमार ने गौतम स्वामी की अंगुली क्या करते-2 पकड़ी?
89. मेघकुमार ने हाथी के भव में किसकी रक्षा की?
90. स्त्री को कार्यात्सर्ग कैसे करना नहीं कल्पता?
91. रसना इन्द्र का चौथा विषय क्या है?
92. दान के 14 प्रकार में तीसरा भेद कौनसा हैं?
93. सथारा लेते समय चारों तीर्थ से क्या करते है?
94. तीसरे अणुव्रत में चोरी का एक प्रकार कौनसा है?
95. आप क्षमायोग्य है यह किससे ध्वनित होता है?
96. मैं सबको क्षमा करता हूँ सब मुझे क्षमा करे के लिए क्या शब्द है?
97. वैर-विरोध नाशक मैत्री स्थापक सूत्र कौनसा है?
98. छठे व्रत का चौथा अतिचार कौनसा है?
99. बच्चों का एक प्रिय प्रमुख खेल का नाम?
100. वैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग किसमें करते हैं?
101. बच्चों को कौनसी वस्तु प्रिय लगती है?
102. यदि कुछ पाना है तो क्या करना पडेगा?
103. दो फसलों में एक फसल क्या कहलाती है?
104. शरीर का महत्व पूर्ण अंग क्या है?
105. शादी के बाद क्या पड जाती है?
106. अनाथी मुनि की सञ्ज्ञाय के रचयिता कौन?
107. गादी तकियों को सुरक्षा किससे होती है?
108. पुनः लौटकर क्या कभी नहीं आता?
109. बहुला दासी ने प्रभु को किसका दान दिया?

110 सुर्पणखा का अपहरण किसने किया?

111 आकाश का एक पर्यायवाची शब्द लिखो?

ग

1. भ. त्रिपदी का ज्ञान किसे देते हैं?
2. भूल का दूसरा नाम क्या है?
3. समता के अखण्ड आराधक कौन हुए?
4. वीर प्रभु के कानों में कीलें किसने ठोकी?
5. दीक्षा के दिन ही सिद्ध बुद्ध मुक्त कौन बने?
6. 24 तीर्थकरों के 1452 क्या थे?
7. तीर्थकरों के प्रभावी शिष्य कौन?
8. पराया धन हजम करना क्या कहलाता है?
9. रूप की शोभा किससे होती है?
10. गुरु साक्षी से पाप स्वीकारना क्या है?
11. सर्व प्रथम वैरिस्टर ऑफ लॉ कौन हुए?
12. ज्वाला से ज्योति किसने पायी?
13. शिष्यों का जंजाल किसने छोड़ा?
14. जड़-मूल से कौन खाता है?
15. आ.श्री नानेश के गुरु कौन?
16. आ.श्री गणेश का उपनाम क्या है?
17. श्वसुर ने किस जवाइ के पगड़ी बांधी?
18. श्रमण संध का पूर्ण उतरदायित्व किनको सौंपा गया?
19. कौन आहार करता है मगर निहार नहीं करता?
20. साधना काल में वीर प्रभु को प्रथम उपसर्ग दाता कौन?
21. भ.महावीर ने चार तीर्थ की स्थापना कब की?
22. ऋद्धि सिद्धि के दाता कौन कहलाते हैं?
23. कुम्भ का मेला कहां लगता है?
24. कौनसा जल दूषित नहीं होता है?

25. आश्रव में सवर किसने किया?
26. कौन गुरु गौत्र से जाने जाते हैं?
27. पैतृक इच्छा से एक दिन राज किसने भोगा?
28. मयूर कब भाव विभोर हो नृत्य करता है?
29. मगल कार्यों में प्रथम किसे याद करते हैं?
30. अहभाव से सामायिक करने से कौनसा दोष लगता है?
31. धृतराष्ट्र कि पत्नि का क्या नाम था?
32. ज्योतिष देव कहां दिखाई देते हैं?
33. कुरु देश की राजधानी किस नगर में थी?
34. भीष्म का दूसरा नाम क्या था?
35. शास्त्र में शालीवृक्ष से उपमित कौनसी आचार्य हुए?
36. भगवती सूत्र में किसका अधिकार आया है?
37. संयति राजा किससे प्रभावित हुआ?
38. श्री कृष्ण का अपर नाम क्या है?
39. वसुमति को खरीदने चौराहे पर कौन आयी?
40. गजराज के किस अंग स्थल से मोती मिलते हैं?
41. स्वाध्यायी दिनेश महेश किस बांध के निकट रहते हैं?
42. गण का नायक क्या कहलाता है?
43. शिव पार्वती के पुत्र का क्या नाम है?
44. 11 अंग, 12 उपांग को जैनागम में क्या माना है?
45. गमन करने को क्या कहते हैं?
46. तीर्थकरों की देशना को सूत्र बद्ध कौन करते हैं?
47. जैनागमों में किस पदवी का उल्लेख है?
48. चार अनुयोग में दूसरा अनुयोग कौनसा है?
49. जीव और पुदगल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं?
50. सोम श्री का विवाह किससे हाने का था?
51. अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है?
52. श्री कृष्ण का मित्र मुदामा कौन था?
53. मुनि आहार को क्या करते हैं?
54. 18 पुराणों में एक पुराण का नाम लिखो?

- 55 क्या आधी भरी छलकती है?
- 56 अनन्त परिधि वाला कौनसा द्रव्य है?
- 57 सतो के प्रवचन को किससे उपमित कर सकते हैं?
- 58 सतो के मुह से ज्ञान की क्या बहती है?
- 59 पचेन्द्रिय सात रत्नों में से एक का नाम लिखो?
- 60 सम्प्रदाय को और क्या कहते हैं?
61. मतवाली गति को किसकी गति से तुलना करते हैं?
62. काव्य सृष्टि में एक काव्य की संज्ञा है?
63. हाथियों को बाधने का स्थान क्या कहलाता है?
- 64 26 जनवरी को कौनसा दिवस मनाया जाता है?
65. कोर्ट में किसकी जरूरत पड़ती है
66. गंगा नदी में किस देवी का वास है?
67. पक्षियों का राजा कौन है?
68. अग्रवाल समाज का एक प्रसिद्ध गौत्र क्या है?
69. जयपुर में कौनसा त्यौहार धूम धाम से मनाते हैं?
70. पूर्वकाल में कौनसी विवाह प्रथा चालू थी?
71. 7 वें देवलोक से प्रभु दर्शनार्थ कौन आया?
72. हरिण गमेषी देव किसका हरण करता है?
73. भ.पार्श्वनाथ के कौनसे महामुनि नपुंसक थे?
74. वीर प्रभु से किस मुनि ने भोग सबधी पृच्छा की?
75. साधना में लीन होकर भी अर्जुन माली ने क्या खायी?
76. 2 अक्टूम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर कौनसी जयन्ती मनाते हैं?
77. नपुंसक लिंग सिद्ध कौन हुए?
- 78 चक्रवर्ती के भण्डार में धान्य सग्रह कौन करता है?
- 79 लतामगेश जगत में किस रूप में ख्याति प्राप्त है?
80. साधु साध्वी कहा विचरण करते हैं?
- 81 सनातन धर्मी किस मंत्र का उच्चारण करते हैं?
- 82 देने योग्य किसी को क्या नहीं है?
83. वीर प्रभु ने छद्मस्थ काल में पांचवे स्वप्न में क्या देखा?
84. सर्प किसको देखते ही भाग जाता है?

- 85 भ. अरिष्टनेमि कहा से मोक्ष गए?
- 86 हिन्दुओं का पवित्र ग्रन्थ कौनसा है?
- 87 खालसा पथ के संस्थापक कौन थे?
88. शिष्या से किस गुरुणी ने माफी मागी?
- 89 तिकखुतो के पाठ से क्या किया जाता है?
- 90 राजमती ने सयम की दृढता कहा दिखायी?
- 91 बृहस्पति वार का दूसरा नाम क्या है?
- 92 मनुष्य व तिर्यच का अवधिज्ञान कौनसा है?
- 93 श्रावक के बारह व्रत में 6-7-8 वा व्रत क्या कहलाते है?
94. किसे सदैव सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है?
- 95 वनवास में श्री राम के चरण किसने धोए?
- 96 पचास से मीटर के स्वस्थ बच्चे को जन्म किसने दिया?
97. 50 से मीटर बच्चे दात्री मा कौन व उसकी उचाई कितनी?
- 98 शरीर के किस भाग में रक्त फिल्टर होता है?
- 99 सोलह माह तक कौनसा तप चलता है?
100. श्रेणिक की नन्दादि तेरह रानियों ने कौनसा तप किया?
- 101 अनायास लक्ष्मी की प्राप्ति किससे होती है?
102. धर्म के लिए जान देकर जागृति कोन लाएं?
- 103 चाचा नेहरू का मन पसन्द फूल कौनसा था?
104. भारत का पथम सौर विजली घर कहां हे?
105. लग्न मण्डप में बुद्ध कोन हुए?
- 106 श्री कृष्ण जी जमनाजी में क्यालेने कूदे?
- 107 विनोबा भावे ने कौनसा आन्दोलन चलाया?
108. गुरू का पशस्त राग रहते केवल ज्ञान किसे नही हुआ?
109. अंधग विष्णु का प्रथम पुत्र कौन?
- 110 गाय आदि के विषय में झूठ बोलने से कौनसा दोष लगता हे?
- 111 20 वै तीर्थकर किम गात्र के थे?
- 112 वेमानिक देवों में तीन त्रिक किनको हे?
113. श्री कृष्ण ने वृदावन में राम लीला किमके संग की?
114. माता के आँसु देख कर योगी कौन बना?

- 115 तीर्थ सिद्ध कौन हुए?
- 116 आजीवक सध का सस्थापक कौन था?
117. पशुओं के चरने की भूमि को क्या कहते हैं?
- 118 जनक दुलारी की सूचना राम को किसने दी?
- 119 किस सास ने बहुओं के लिए रत्न कम्बले खरीदी?
120. भ. को कष्ट देकर भी देवलोक कौन गया?
121. भ. महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
- 122 विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है?
123. आ श्री नानेश का जन्म नाम क्या है?
124. आम राजा ने किस गिरि पर स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की?
125. इन्द्र भूति गौतम का गौत्र क्या था?
126. किसके अगुष्ठ से अमृत झरता था?
127. भ महावीर केवली किस आसन में हुए?
128. बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
129. विश्व का सब से बौना व्यक्ति कौन?
130. रामायण के रचयिता कौन हुए?
131. खंदक मुनि ने कौनसा तप किया?
132. नानेश शासन की किस साध्वी को 83 दिन का संथारा आया?
133. सुलसा को देव ने बत्तीस क्या दी थी?
134. जीवानन्द वैद्य ने कृष्ट रोग किसका मिटाया?
135. 25 बोल में पहला बोल क्या है?
- 136 सातवा कर्म कौनसा है?
137. 11 वें बोल में 14 क्या कहे हैं?
- 138 पांच पदों के 108 क्या होते हैं?
139. रत्न प्रभादि सात नरक के क्या है?

घ

1. ज्ञान का आठवां अतिचार क्या है?
2. पहली नारकी का नाम क्या है?
3. सूघने का कार्य कौनसी इन्द्रिय करती है?
4. किस इन्द्रिय के दो विषय हैं?
5. कौरव, कस, रावण का नाश किससे हुआ?
6. तेइन्द्रिय जीवों के कौनसी इन्द्रिय होती है?
7. व्यक्तित्व के विकास में बाधक कौन होता है?
8. शस्त्र का मिट जाता है पर वचन का क्या नहीं मिटता?
9. पाच विगय में एक विगय का नाम लिखो?
10. क्या पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं?
11. खदक मुनि के 500 शिष्य किसमें पीले गए?
12. आयुष्य प्रतिक्षण क्या हो रहा है?
13. समय दर्शक यत्र को क्या कहते हैं?
14. हमेशा जीवन में भजन कम से कम तो करना चाहिए?
15. खद्दर घारी पूगणेशी लाल जी म. कैसे थे?
16. सात नारक के नीचे किसका वलय है?
17. श्री कृष्ण को अन्य किस नाम से पुकारते हैं?
18. इतिहास में किसका सदा समावेश होता है?
19. श्री पति सेठ का सुख दत्त नौकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ?
20. कोरवों पाण्डवों के बीच क्या हुआ?
21. किसके द्वारा पकृति श्रृगारित होती है?
22. पान पराग का सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या है?
23. महावीर स्त्रोत्र के आगे क्या विशेषण है?
24. तुलसी दास जी ने रामयण चित्रकूट के किस स्थल पर बनायी?
25. नृत्य करने वाले अपने पैरों में क्या बाधते हैं?
26. वैदिक यज्ञ में किससे हवन करते हैं?
27. उल्लु का दूसरा नाम क्या है?

- 28 रात्रि का राजा कौन है?
- 29 सवारी के काम आने वाला पचेन्द्रिय पशु क्या?
- 30 तोरण द्वार पर जाते दुल्हा किस पर बैठता है?
- 31 मंदिर में प्रवेश करते ही क्या बजाते हैं?
- 32 पाठशाला में प्रत्येक पीरियड पर क्या बजाते हैं?
- 33 सातवीं नारकी में क्या है?
- 34 गर्मी में शीतल जल के लिए क्या रखा जाता है?
- 35 मीरां ने कृष्ण को क्या कह करके पुकारा?
- 36 बतीस ही आगमों पर सस्कृत टीका किसकी है?
37. शिव शब्द कोश के रचनाकार कौन?
- 38 घेवर के लिए मुनि बनने वाले का नाम क्या ?
39. घनोदधि किस आधार पर ठहरा है?
40. पृथ्वी किस आधार पर ठहरी हुई है?
41. केवल ज्ञान कब होता है?
42. पांच तारों वाला नक्षत्र कौनसा है?
43. साठ मिनट का एक क्या होता है?
44. कलई पर क्या बांधी जाती है?
45. सार्वजनिक समय सूचक यत्र वाली मीनार क्या कहलाती है?
46. मेघमाला का अपर नाम क्या है?
47. कम करना क्या कहलाता है?
48. 24 मिनट के समय को क्या कहते हैं?
49. ऋषभ देव ने 13 वें भव में किसका दान दे समकित पायी?

च

1. भ.ऋषभ देव की शासन रक्षिका देवी कौन है?
2. सोमवार का दूसरा नाम क्या है?
3. चार अनुयोग में से एक का नाम लिखो
4. भ. महावीर के समवशरण में मूल स्वरूप में कौन से देव आए?

- 5 वैभव कैसा है?
- 6 विवेक से काम कौन करता है?
- 7 राजा उदायन ने किसको बंदी बनाया?
- 8 मानव जीवन में क्या गया कि सब कुछ गया?
- 9 इस काल चक्र में 12 श्लाघ्य पुरुष कौन हुए?
- 10 जम्बू स्वामी भरत क्षेत्र के कौन से केवली थे?
11. संत महात्माओं की सगत कैसी होती है?
- 12 तीर्थंकर प्रभु कभी क्या नहीं बताते हैं?
13. उसी शरीर से मोक्ष गामी को क्या कहते हैं?
14. पाच सवत्सरों में से एक का नाम लिखो?
15. देवी देवता क्या धारण नहीं कर सकते?
16. जैन श्रमण कैसे होते हैं?
17. सामायिक में इधर उधर बार-2 बैठे तो कौनसा दोष लगता है?
18. चमरेन्द्र जी की राजधानी का नाम क्या है?
19. शीतलता कौन देता है?
20. वीर निर्वाण की सूचना गौतम स्वामी को कहां दी व किसने दी?
- 21 15 दिवस की शांत समाधि से सहस्रवार स्वर्ग में कौन गया?
22. भारत में सब से उँचा पुल कौनसा है?
- 23 मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे?
- 24 तेरह चार तेलों की तपस्या कौन करते हैं?
- 25 जीव समकित कहा आकर के पाता है?
26. खदक ऋषि के केवल ज्योत किस अवस्था में जगी?
27. महावीर स्वामी की देशना सुनने श्रेणिक किससे सज्जित होकर गया?
- 28 दो लाख योनि किसकी है?
29. चावीस परीपहों में नववा परीपह क्या है?
30. संयम लेने से पूर्व भ.शान्तिनाथ किस पद पर थे?
- 31 आवश्यक सूत्र का दूसरा आवश्यक कौन सा है?
32. छतीस हजार साध्वीयों की प्रमुखा कौन थी?
33. किम वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं?
34. आजीवन खड़े-2 पतिक्रमण किसने किया?

35. देश के लिए कौनसा झण्डा प्रगति का प्रतीक है?
36. सभ्य लोगों की भीख क्या है?
37. किसके रहते बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव नहीं होते?
38. घी में क्या होती है?
39. क्या आने पर ही मोक्ष मिलता है?
40. किसके बिना धर्म पंगु है?
41. हरिजन को क्या कहते हैं?
42. कैसे पानी में मुह नहीं दिखता?
43. सब वृक्षों का शिरमोर वृक्ष कौनसा है?
44. पश्चाताप करते-2 प्रज्ञा किसकी जगी?
45. मनुष्य भव में भटका और तिर्यच भव में कौन सभला?
46. तीर्थकरों की वाणी चारों ओर कहा तक जाती है?
47. छःखण्ड पर एक छत्र राज्य कौन करते हैं?
48. हरिकेशी श्रमण किस जाति के थे?
49. काल को किसकी उपमा दी है?
50. वीर प्रभु के अगूठे में डंक किसने मारा?
51. महाविदेह में एक समय में कौनसे पद होते हैं?
52. सोलह स्वप्न किस राजा ने देखे थे?
53. संसार किसको नमस्कार करता आया है?
54. मदन रेखा के पुत्र का क्या नाम है?
55. धर्मास्तिकाय का गुण क्या है?
56. देवकी महाराणी के सातों पुत्र कैसे थे?
57. 10 वें देवलोक से वीर का जीव क्या कर देवानन्दा के गर्भ में आया?
58. आठवें तीर्थेश प्रभु कहां जन्में?
59. देविया भ के दोनों ओर क्या ढुलाती है?
60. 12 उपांगों में छठा उपांग का नाम लिखो?
61. स्वर्णकार ने मैतार्य मुनि के शिर पर क्या बांधा?
62. आज का युग किसका है?
63. आ.श्री हुक्मीचन्द जी म किस गोत्र के थे?

64. भ महावीर ने दस चातुर्मास कहा किये?
65. पवन कुमार ने किसकी आवाज सुन अजना को अपनाया?
66. जनक की सभा को अप्टावक्र ऋषि ने किसकी सभा बतलायी?
67. जन्म मरण कहा होते हैं?
68. पाच इन्द्रियों में चौथी इन्द्रिय कौनसी है?
69. निशापति कौन है?
70. जीव रक्षा करने में किसका सहयोग आवश्यक है?
71. एक मदिरा का नाम लिखो?
72. उदायन ने किसके सिर पर मम दासी पति चिट चिपकायी?
73. फूल का नाम लिखो?
74. शकेन्द्र ने आक्रोश में किस पर वज्र फेंका?
75. पवन पुत्र विमान से गिरा तो किसका चूरा हुआ?
76. ताज महल पूर्णिमा को किसकी रोशनी से जगमगाता है?
77. महात्मा गाधी सूत किससे कातते थे?
78. वसुमति का दूसरा नाम क्या है?
79. भवनपति के किस इन्द्र की पाच अग्र महिषियां हैं?
80. 64 हजार सामानिक देव किस इन्द्र के हैं?
81. 2 लाख 56 हजार आत्म रक्षक देव किसके हैं?
82. ज्योतिष देवों में सर्वाधिक ऋद्धि किसकी है?
83. बाहुबली का पुत्र कौन था?
84. मुनि मुव्रत स्वामी किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान पाए?
85. एक दिन श्रावक का 12 वां व्रत पाल कर 12वें देवलोक कौन गया?
86. साधु जी का पच्चीसवा गुण कौनसा है?
87. ध्यान में मन वचन काया क्या होने से मिच्छामि दुक्कड?
88. चन्द्र पभु मा के गर्भ में आए तब क्या दोहद हुआ?
89. नव ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह कौनसा है?
90. सुभद्रा मती ने शील के प्रभाव में किस नगर के द्वार खोलें?
91. 12 वें तीर्थकर की जन्म स्थली कौनसी है?
92. महामती धारिणी कहां की निवासी थी?

- 93 हेमचन्द्राचार्य के बच्चपन का क्या नाम था?
- 94 दूसरा बल प्राण कौनसा है?
- 95 लोगस्स में तीर्थकर प्रभु को किससे निर्मल बताया?
- 96 जीवन का परखने-जीने का ज्ञान देने वाले क्या कहलाते हैं?
- 97 काया के 12 दोषों में दूसरा और तीसरा दोष कौनसा है?
- 98 12 वें, 13वें विहरमान का क्या नाम है?
- 99 भमलीए शब्द का क्या अर्थ है?
100. भ महावीरा के मामा कौन थे?
101. भ. शाति नाथ के पुत्र का नाम क्या था?
102. तीर्थकर गर्भ में आते हैं तब कौनसा कल्याणक होता है?
- 103 किस तप में एक द्रव्य से सोलह द्रव्य तक बढ़ा पुनः क्रमिक घटाते हैं?
- 104 महासती चन्दन बाला का जन्म कहां हुआ?
105. वीर प्रभु के 175 दिन की तपस्या का पारण किसके हाथों हुआ?
106. गणिका के हाथों जाकर भी शील रक्षा किसने की?
107. किस कारण से प्रभु ध्यान एवं स्मरण में स्थिरता नहीं रहती?
- 108 मूल सूत्र और छेद सूत्र कितने हैं?
- 109 स्वाती नक्षत्र का पानी कौन पीता है?
110. निक्षेप और प्रमाण कितने हैं?
111. नारक, देव, तिर्यच की जीवयोनि कितनी है?
112. धाती और अधाती कर्म कितने-2 हैं?
113. किस कारण से देव सामायिक नहीं कर सकते हैं?
- 114 25 वें बोल में पांच क्या है?
115. भ ऋषभ देव के साथ कितने पुरुषों ने दीक्षा ली?
- 116 सज्ञा, कषाय और कथा कितनी-2 है?
117. बध और मोक्ष के कितने भेद है?
118. 5 वें आवश्यक में सुबह शाम कितने लोगस्स का ध्यान होता है?
- 119 तीर्थेश प्रभु कितने तीर्थ की स्थापना करते है?

- 120 वलदेव की माता कितने स्वप्न देखती है?
121. 5 वें ब्रह्म देवलोक के कितने सिद्ध होत हैं?
122. पृथ्वी काय से निकले कितने सिद्ध होते हैं?
- 123 ससार में कितनी वाते मिलना दुर्लभ है?
124. आ श्री श्रीलाल जी म. के माता का क्या नाम था?
- 125 आत्मा के आठ भेदों में सातवा भेद कौनसा है?
126. किस की नीति प्रसिद्ध है?
127. मगल और शरण कितने हैं?
- 128 आयम्बिल ओली में पाच आयम्बिल किससे होते हैं?
129. जब तक जीओं सुख से जीओं, ऋणकर घी पीओं यह मान्यता किसकी है?
130. चर्चा कितने में होती है?
131. एकेन्द्रिय में जीव के भेद व प्राण कितने होते हैं?
132. पुरातन युग किसका था?
- 133 कौनसी नारी अच्छी नहीं रहती?
134. पच भूतों के मिलने से आत्म उत्पत्ति कौन मानता है?
- 135 देवताओं की मूल जातिया कितनी हैं?
- 136 पत्येक गति में जाने के कितने-2 कारण हैं?
137. ध्यान के कितने भेद हैं?
138. वेदिक धर्म में वेद कितने हैं?
- 139 श्रावक के शिक्षा व्रत कितने हैं?
- 140 पहले और छेले तीर्थ को छोड माधक कितने महाव्रत पालते थे?
- 141 शक्रेंद्र के लोक पाल कितने हैं?
- 142 लवण समुद्र में चन्द्र व सूर्य कितने-2 हैं?
- 143 धरती का पानी कौन नही पीता?
144. कभी पांच माह का क्या होता है?
- 145 स्वागत में सबसे आगे क्या रहती ह?
- 146 तीर्थकरों के जन्म अतिशय कितने होते हैं?
147. दिवम चरिभ प्रत्याख्यान में कितने अंगार हैं?

- 148 बीस पहर में सिद्धि किसने पायी?
- 149 प्रेय और श्रेय सवाद किसने किया?
- 150 जीवित को अदृश्य रहकर कौन जलाती है?
- 151 किसके बिना अध्ययन अधूरा रहता है?
- 152 नाम कर्म को किसकी उपमा दी गयी है?
- 153 मानव भव किस रत्न के सदृश है?
154. पापी से पावन कौन बना?
- 155 किसी एक सुखे मेवे का नाम लिखो?
- 156 विदेश के एक देश का नाम लिखो?
157. 11 गाथा की पार्श्वनाथ स्तुति किस नाम से प्रसिद्ध है?
- 158 धर्म रूची अणुगार ने किसकी दया की?
- 159 भ.अरिष्टनेमि ने कौनसे नक्षत्र में दीक्षा ली?
160. मखली पुत्र गौशालक अपनी जीविका कैसे चलाता था?
161. सत्यवती का पुत्र कौन था?
162. दस कल्पवृक्ष में से एक का नाम लिखो?
163. ज्ञान की दूरबीन क्या है?
164. भ. महावीर के मुख्य श्रावको में से थे?
- 165 भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला कौनसा पर्वत है?
166. गणेश जी का वाहन क्या है?
- 167 सिद्धि तप में कितने दिन लगते हैं?
- 168 बहिने शील की क्या ओढती हैं?
- 169 आजकल करोड़ों रूपये किसमें खर्च होते हैं?
- 170 जीव का मुख्य लक्षण क्या है?
171. श्रेणिक को महावीर का परम भक्त किसने बनाया?
- 172 भ.महावीर का जन्म कब हुआ?
173. मधुमास को कौनसा मास कहते हैं?
174. किस राजा ने अन्याय अनीति का प्रतिकार किया?
175. युवाचार्य श्री राम का जन्म कब हुआ?
176. ब्रह्मचारी का क्या चमकता है?
177. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कब हुआ?



- 178 आप ज्ञान रूप हो इसका सूचक गुरु वदन में कौनसा शब्द है?
- 179 कौनसा राजा तलवार को पूजकर युद्ध करता था?
- 180 श्रेणिक ने किस राणी के महल को आग लगवायी?
- 181 महाराणा प्रताप का आज्ञाकारी अश्व का क्या नाम था?
- 182 किस राजा की सातों पुत्रिया समकितवान थी?
- 183 अदत्तादान को जैन शास्त्र में क्या कहा है?
- 184 भारत का सबसे ऊचा मंदिर किसने बनवाया?
- 185 ज्ञाता धर्म कथांग में किस विजय का वर्णन है?
186. दस भक्त किस तप का प्रत्याख्यान है?
- 187 ब्रह्मचर्य कौनसा व्रत है?
- 188 अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में कितने-2 तीर्थकर होते हैं?
189. तीर्थकर भगवान के कितने अतिशय होते हैं?
190. गौतम स्वामी कितने पूर्वो के ज्ञाता थे?
191. किस गुणस्थान वाला शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है?
192. शुभाशुभ कर्मों क दण्ड भोगने जीव कहां भटकता है?
193. वनस्पति काय की जीव योनि कितने लाख की है?
194. हरिभद्र सूरि ने कितने ग्रन्थों की रचना की?
195. गौतम स्वामी का जन्म किस आरे में हुआ?
- 196 कुल जीव योनि और सातो नरको के नरकावास कितने हैं?
197. साधारण वनस्पति और मनुष्य की योनि कितनी हे?
198. पतिक्रमण कौनसा आवश्यक ह?
199. तीर्थकर व चक्रवर्ती की माता कितने स्वप्न देखती हे?
- 200 नारकी व देवता के कुल कितने दण्डक हैं?
- 201 पति से कितने दिन पहले राजमति मोक्ष गई?
- 202 तीमरे आरे के मनुष्य के कितनी पसलिया होती हे?
203. कुल इन्द्र व महिलाओं को कलाए कितनी हे?
- 204 लोगस्स में कितने तीर्थकरो की नाम स्तुति है?
- 205 प्रतिक्रमण सृ में टॉनिक का पाठ कौनसा हे?

148. बीस पहर में सिद्धि किसने पायी?
149. प्रेय और श्रेय सवाद किसने किया?
150. जीवित को अदृश्य रहकर कौन जलाती है?
151. किसके बिना अध्ययन अधूरा रहता है?
152. नाम कर्म को किसकी उपमा दी गयी है?
153. मानव भव किस रत्न के सदृश है?
154. पापी से पावन कौन बना?
155. किसी एक सुखे मेवे का नाम लिखो?
156. विदेश के एक देश का नाम लिखो?
157. 11 गाथा की पार्श्वनाथ स्तुति किस नाम से प्रसिद्ध है?
158. धर्म रूची अणगार ने किसकी दया की?
159. भ.अरिष्टनेमि ने कौनसे नक्षत्र में दीक्षा ली?
160. मंखली पुत्र गौशालक अपनी जीविका कैसे चलाता था?
161. सत्यवती का पुत्र कौन था?
162. दस कल्पवृक्ष में से एक का नाम लिखो?
163. ज्ञान की दूरबीन क्या है?
164. भ. महावीर के मुख्य श्रावको में से थे?
165. भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला कौनसा पर्वत है?
166. गणेश जी का वाहन क्या है?
167. सिद्धि तप में कितने दिन लगते हैं?
168. बहिने शील की क्या ओढती हैं?
169. आजकल करोड़ों रूपये किसमें खर्च होते हैं?
170. जीव का मुख्य लक्षण क्या है?
171. श्रेणिक को महावीर का परम भक्त किसने बनाया?
172. भ महावीर का जन्म कब हुआ?
173. मधुमास को कौनसा मास कहते हैं?
174. किस राजा ने अन्याय अनीति का प्रतिकार किया?
175. युवाचार्य श्री राम का जन्म कब हुआ?
176. ब्रह्मचारी का क्या चमकता है?
177. मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम का जन्म कब हुआ?

178. आप ज्ञान रूप हो इसका सूचक गुरु वदन में कौनसा शब्द है?
179. कौनसा राजा तलवार को पूजकर युद्ध करता था?
180. श्रेणिक ने किस राणी के महल को आग लगवायी?
181. महाराणा प्रताप का आज्ञाकारी अश्व का क्या नाम था?
182. किस राजा की सातों पुत्रिया समकितवान थी?
183. अदत्तादान को जैन शास्त्र में क्या कहा है?
184. भारत का सबसे ऊचा मंदिर किसने बनवाया?
185. ज्ञाता धर्म कथाग में किस विजय का वर्णन है?
186. दस भक्त किस तप का प्रत्याख्यान है?
187. ब्रह्मचर्य कौनसा व्रत है?
188. अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में कितने-2 तीर्थकर होते हैं?
189. तीर्थकर भगवान के कितने अतिशय होते हैं?
190. गौतम स्वामी कितने पूर्वो के ज्ञाता थे?
191. किस गुणस्थान वाला शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है?
192. शुभाशुभ कर्मों क दण्ड भोगने जीव कहां भटकता है?
193. वनस्पति काय की जीव योनि कितने लाख की है?
194. हरिभद्र सूरि ने कितने ग्रन्थों की रचना की?
195. गौतम स्वामी का जन्म किस आरे में हुआ?
196. कुल जीव योनि और सातो नरकों के नरकावास कितने हैं?
197. साधारण वनस्पति और मनुष्य की योनि कितनी है?
198. प्रतिक्रमण कौनसा आवश्यक है?
199. तीर्थकर व चक्रवर्ती की माता कितने स्वप्न देखती है?
200. नारकी व देवता के कुल कितने दण्डक हैं?
201. पति से कितने दिन पहले राजमति मोक्ष गई?
202. तीसरे आरे के मनुष्य के कितनी पसलियां होती है?
203. कुल इन्द्र व महिलाओं की कलाए कितनी है?
204. लोगस्स में कितने तीर्थकरों की नाम स्तुति है?
205. प्रतिक्रमण सू. में टॉनिक का पाठ कौनसा है?

206. चक्रवर्ती की कितनी रानिया होती है?
207. भ ऋषभ देव की आयु कितनी थी?
208. कर्मबद्ध आत्माएं कितनी योनियों में भटकती है?
209. लोक कितना बडा है?
210. तीर्थकरों की सेवा कितने इन्द्र करते हैं?
211. दीपावली के दिन सूर्यग्रहण कब हुआ?
212. भ.ऋषभ देव के कितने गणधर थे?
213. सिमन्धर स्वामी के कितने गणधर है?
214. विहरमानो का आयुष्य कितना है?
215. भ.महावीर स्वामी ने राजगृह में कितने चातुर्मास किये?
216. जीव के भेद व गुण स्थान कितने हैं?
217. चौबीस तीर्थकरों के कुल गणधर कितने हुए?
218. भ. ने सूर्यास्त के बाद क्या करने का कहा?

४

1. उत्तराध्ययन सूत्र में कितने अध्ययन है?
2. अन्तर द्वीप कितने हैं?
3. जैन साधु कितने काय के सरक्षक होते हैं?
4. उत्तराध्ययन में जीव विज्ञान का कौनसा अध्ययन है?
5. दिशाओं की मर्यादा किस अणुव्रत से की जाती है?
6. नाग गाथा पति ने देवकी के कितने पुत्रों की पालना की?
7. हमारे फेफड़ों की प्राण क्षमता कितनी है?
8. काव्य शास्त्रों का एक प्रकार कौनसा है?
9. ठग लोग किस वेश में घूमते हैं?
10. व्रत हमारे जीवन रूपी भवन की क्या है?
11. समवशरण में प्रभु के सिर पर क्या रहते हैं?
12. किससे अपने को सदा दूर रखना चाहिए?
13. भ. ने 10 वे अध्याय में 'समय गोयम मा पमायए' कितनी बार कहा है?

- 14 धर्मास्तिकाय आदि कितने द्रव्य हैं?
- 15 मनुष्य या देव उपाध्याय को क्या करने में समर्थ नहीं?
16. भ.महावीर के कानों में किले किस गाव में ठोकें?
17. पहले व्रत का दूसरा अतिचार कौनसा है?
- 18 पच्चक्खाण करना कौनसा आवश्यक है?
19. आचार्य के कितने गुण होते हैं?
20. बेले का दूसरा नाम क्या है?
21. पर्याप्तियां कितनी कही गयी है?
22. सातवें व्रत में कितने बोलो की मर्यादा का कथन है?
23. दसवें व्रत में कितनी दिशाओं की मर्यादा की जाती है?
24. तेतली पुत्र ने किसको अभय दान दिया?
25. तम प्रभा नामक कौनसी नरक है?
- 26 शिवाजी का विशेषण क्या है?
27. कौनसे जीव जन्म लेकर भी अनाज नहीं खायेंगे?
28. तीर्थकरों का जन्मोत्सव कितनी दिशाकुमारियां मनाती है?
29. प्रतिक्रमण सूत्र में कितने आवश्यक हैं?
30. कितनी साध्वियों की प्रमुख चन्दनबाला थी?
31. अग्रेजी के कितने अक्षर हैं?
32. अर्जुनमाली दुष्कर्मों को क्षय कर कितने समय में मौक्ष गया?
33. पद्म प्रभु कौनसे तीर्थकर है?
34. चक्रवर्ती का एक एकेन्द्रिय रत्न कौनसा है?
35. धूप व बरसा से बचने किसका उपयोग किया जाता है?
36. साधु के आहार करने व छोड़ने के कितने कारण कहे हैं?
37. रात्रि भोजन न करने रूप साधु का कौनसा व्रत है?
38. गर्भज मनुष्य व तिर्यच पंचेन्द्रिय में कितनी लेश्या होती है?
39. सिद्धों में उत्कृष्ट विरह कितने समय का होता है?
40. समकित के 67 बोल में दसवा बोल कौनसा है?
41. 10 वें गुण स्थान में कितने कर्मों का बध होता है?
42. समकित के 67 बोल में 11 वां बोल कौनसा है?
43. 25 बोल में तीसरा बोल कौनसा है?

44. अल्पज्ञ सकषायी जीव क्या कहलाते हैं?
45. चार गति में काया कितनी है?
46. 52 अनाचार में एक अनाचार का नाम लिखो?
47. गौतम स्वामी कौनसा तप करते थे?
48. साधु समाचारी के दस भेदों में पाचवां भेद कौनसा है?
49. साम्परायिक आश्रव किसके लगता है?
50. पंचम काल में चौविहार तप अधिक से अधिक कितना?
51. मधु मक्खियों का क्या होता है?
52. शीत और ताप से बचने त्रिदण्डी ने सिर पर क्या धारा?
53. गौशालक भ.महावीर से कितने समय तक अलग रहा?
54. उत्कृष्ट दिक्षा छेद कितने मास का आता है?
55. प्रमादी साधु का गुण स्थान कौनसा है?
56. उत्कृष्ट पाप करके भी स्त्री कौनसी नरक तक जाती है?
57. श्री कृष्ण देवकी के पास कितने समय में आते थे?
58. रावण ने हजार विद्याएं सिद्ध करने के बाद कितनी तपस्या की?
59. देवों को अपना च्यवन कितने समय पूर्व मालूम होता है?
60. भ.महावीर नन्दन मुनि के भव में कहा के निवासी थे?
61. गौतम का वीर चरणों में पहुंचने पर शय क्या हुआ?
62. जिस राज्य में सर्वत्र शांति हो वहां क्या नहीं होती?
63. बलदेव श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को उठाए-2 कब तक धूमे?
64. बड़ी दीक्षा का शास्त्रीय नाम क्या है?
65. पराये दोषों को कौन देखता रहता है?
66. कौनसी चीज देखी जाती है पर पकड़ी नहीं जाती?
67. विद्यार्थियों को क्या कहते हैं?
68. पौरसी के कितने आगार है?
69. गुरु पद की योग्यता किस गुण स्थान में होती है?

ज

1. राजस्थान की राजधानी किस नगर में है?
2. भ महावीर का जवाई व भणेज कौन था?
3. अपन कहाँ रहते हैं?
4. भरत क्षेत्र से किसके मोक्ष जाने के बाद कोई नहीं गया?
5. मछली तिर्यच गति का कौनसा प्राणी है?
6. लाल बहादूर शास्त्री का क्या नारा था?
7. दर्शन का दिवाला किसने निकाला?
8. भ महावीर से तत्व चर्चा किस श्राविका ने की?
9. हिन्दूओं के एक तीर्थ स्थल का नाम लिखो?
10. भारत एक रत्न है इसकी महिमा किसने जानी?
11. महाभारत का पुरातन नाम क्या है?
12. हवा महल कहाँ पर है?
13. मानव परमेश्वर कब बन सकता है?
14. भारत की सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है?
15. लोकतंत्र की सत्ता किसके हाथों में है?
16. उत्तर प्रदेश भारत का किस दृष्टि से बड़ा राज्य है?
17. उदायन राजा की भुआ कौन थी?
18. सक्रांति किस माह में आती है?
19. आयरन कॉस कहाँ का सैनिक सम्मान है?
20. इतिहास में दगा बाज कौन माना गया है?
21. किस देशभक्त की भूख हडताल चलते कारागृह में मौत हुई?
22. सीता को बचाने अपने प्राण किसने गवाए?
23. भारत की ज्वलंत समस्या क्या है?
24. कम को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं?
25. जुलूस में जोर-शोर से क्या लगाये जाते हैं?
26. कोर्ट में मुकदमें का निर्णय कौन करता है?
27. अम्बड ने दादा गुरू को भिक्षा में क्या बहराया?

28. पेशडशाह की पूजा ने किस राजा को आकर्षित किया?
29. सास और मां किसे देख कर खुश होती है?
30. आयुर्वेदिक औषध का निर्माण किससे होता है?
31. वृक्ष का आधार क्या होता है?
32. देव नारकों की दस हजार वर्ष की स्थिति क्या है?
33. प्रभव चोर किससे प्रति बोधित बना?
34. नाभिराजा ऋषभ देव के क्या है?
35. जबलपुर में दर्शनीय स्थल क्या है?
36. चित्रकूट में क्या है?
37. किसके कण-कण में मिठास भरा होता है?
38. शव यात्रा को उर्दू में क्या कहते हैं?
39. स्वतंत्रता की याद दिलाता रायपुर शहर का कौनसा चौक है?
40. साधक की माता कौन है?
41. अरिहंतो ने किसका स्वरूप बतलाया?
42. जैनों का अभिवादन क्या है?
43. स्वर्ग से अधिक गरिमा मय एवं प्रिया-प्रिय कौन है?
44. तिविहार उपवास में क्या ले सकते हैं?
45. आकर चली जाएं उसे क्या कहते हैं?
46. प्रयाग के निकट त्रिवेणी संगम में एक नदी कौनसी है?
47. मैना सुन्दरी श्रीपाल ने सिद्ध चक्र का ध्यान कैसे किया?
48. कंस के श्वसुर का क्या नाम था?
49. चेतना विहीन पदार्थ को क्या कहते हैं?
50. जूडों कहां का प्रसिद्ध खेल है?
51. विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ है?
52. मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम आकाशवाणी केन्द्र कहां बना?
53. भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन हुए?
54. कौनसा वृक्ष दूसरों को हरा भरा देख सूख जाता है?
55. चलने फिरने वालों का अध्यात्म नाम क्या है?
56. छब्बीस वाणव्यन्तर में दस भेद किन देवों के हैं?
57. सीता किसकी पुत्री थी?



58. एक ही देशना से जागृत कौन बना?
59. प्रातः अपराह्न-सध्या के समय कौनसे देव आते जाते हैं?
60. आराम हराम है यह किसने कहा?
61. विजय घोष के साथ धर्म चर्चा किसने की?
62. तीन पहर में प्रतिक्रमण कण्ठस्थ किसने किया?
63. दुनिया में झगडा मुख्यतः क्यों होता है?
64. ज्योतिष देवों का वर्णन किस सूत्र में है?
65. 11 वें चक्रवर्ती कौन हुए?
66. चैत सु 13 को वीर प्रभु का कौनसा कल्याणक हे?
67. कमल को क्या कहते हैं?
68. श्रावक के लिए कौनसा कर्मादान वर्जनीय है?
69. तीर्थेश प्रभु के दर्शन, देशना से कौन प्रभावी होते है?
70. आचार्य प्रभव स्वामी के गुरु कौन थे?
71. रात में विवाह किया प्रातः वैरागी कौन बने
72. द्वीपों मे सबसे छोटा द्वीप कौनसा है?
73. एक लाख योजन का मेरू पर्वत कहाँ है?
74. जन्म दात्री क्या कहलाती है?
75. अन्तिम प्रति बासु देव कौन हुए?
76. अन्त समय श्री कृष्ण को किसका योग मिला?
77. भगवान को क्या कहते हैं?
78. मेघ क्या करते हैं?
79. जल में रहने वाले कौन से जन्तु क्या कहलाते हैं?
80. सातवीं नरक में कौनसा तिर्यच प्राणी जाता है?
81. अग्नि का कार्य क्या है?
82. 22 परीषहों में 18 वा परीषह क्या है?
83. पामर प्राणी बार-बार धारण करते हैं?
84. समुद्र में चलने वाले वाहन क्या कहलाते हैं?
85. साध्य की प्राप्ति साधक को कब होती है?
86. मानव के किस अवयव में जहर रहता है?
87. पोष व. 10 को भ पार्श्वनाथ की क्या आती है?

88. देवी देवता को क्या कभी नहीं आता?
89. सम्यक्दृष्टि कर्मों का बन्ध कब नहीं करता?
90. दशानन ने आकाश में किससे युद्ध किया।
91. स्वाद की पहचान किससे होती है?
92. सिंघाडे किस वृक्ष के फल हैं?
93. मेंढक का जहर किस द्वीप तक फैलता है?
94. उदधि कुमार के उत्तर का इन्द्र कौन है?
95. श्री कृष्ण की पालक माता कौन थी?
96. अधेरी रात में उपकारी दीपक क्या करता है?
97. छःकाय की नियमा कहा पर है?
98. वाराणसी के ब्राह्मण श्रमण कौन थे?
99. भारत में विदेशियों को बुलाने वाला देश द्रोही कौन?
100. गुलाबी नगरी का दूसरा नाम क्या है?
101. आजीवन आयम्बिल तप करने वाले आचार्य कौन थे?
102. किस आचार्य के नाम से एक सम्प्रदाय चल रही है?
103. आ.भूधर जी से दीक्षित जैनाचार्य कौन?
104. शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं है?
105. पत्नी को लाने जाते प्रवचन सुन वैरागी कौन बने?
106. बड़ी साधु वन्दना की रचना किसने की?
107. जयपुर शहर किस राजा के नाम पर बसा हुआ है?
108. 52 वर्ष तक लम्बे पैर करके कौन नहीं सोए?
109. बीकानेर छतरियों में 8 दिन अन्न जल वगैर कौन रहे?
110. समुद्र विजय के किस पुत्र का जन्म राजगृह में हुआ?
111. राजा शतानिक की बहन मृगावती की ननद कौन थी?
112. इन्द्रध्वजा का निमित्त पा वैरागी कौन बना?
113. चण्ड प्रद्योत किसका दामाद था?
114. सामायिक में मन के दस दोषों में दूसरा दोष क्या है?
115. राष्ट्र धर्म का ध्वज किस आचार्य ने फहराया?
116. उदधि कुमार के दक्षिण का इन्द्र कौन है?
117. नारद जी का हरण किन देवों ने किया?

- 118 तीर्थकरों के जन्म के समय पर इन्द्र आकर क्या मनाते हैं?
- 119 हनुमान का जन्म कहा हुआ था?
120. धन का जन्म जात दुश्मन कौन है?
- 121 मोहनीय कर्म का प्राकृतिक नाम क्या है?
- 122 उडन कार का निर्माता कौनसा देश है?
123. विश्व की सबसे लम्बी समुद्री रेलवे सुरंग कहा है?
124. पूर्वभव का स्मरण दिलाने वाला कौनसा ज्ञान है?
125. किस देश में सूर्यास्त के समय एक पेड़ से धुआ निकलता है?
126. बड़ी साधु वन्दना की रचना कहां हुई?
127. 25 बोल में दूसरा बोल क्या है?
128. समवशरण में जीव अपना क्या भूल जाते हैं?
129. पाताल में श्री कृष्ण ने जामराजा की किस पुत्री से शादी की?
130. प्रगति शील देशों में कौनसा देश आता है?
131. किस वृक्ष से लेश्या का स्वरूप समझाया जाता है?
132. भ.महावीर ने आठवें स्वप्न में क्या देखा?
133. वैदिक ग्रन्थानुसार गंगा का दूसरा नाम क्या है?
- 134 आजीवन सामायिक लेने कौनसा शब्द बोला जाता है?
135. इत्वरिक सामायिक सूचक शब्द क्या है?
136. कौनसा जानवर कभी आवाज नहीं करता है?
137. विश्व बैंक का कार्यालय कहा है?
- 138 महासती सुभद्रा के पिता कौन थे?
- 139 शरीर में सबसे लचीला क्या है?
140. किस राजा का प्रधान सुबुद्धि था?
141. रागद्वेष के विजेता क्या कहलाते हैं?
- 142 आराधक कौन बनता है?
143. अमावस्या को पूनम किसने बनाया?
- 144 सुभद्रा सती ने किसकी आंख से कांटा निकाला?
145. कौनसा धर्म ग्रहण करना चाहिए?
146. कुशाग्र बिदु सम नाशवान् क्या है?
147. इन्द्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है?

148. सम्पूर्ण जगत किसमें समा जाता है?
149. कंश की पत्नी कौन थी?
150. भ महावीर का क्या संदेश है?
151. पांच अस्तिकाय में से एक का नाम लिखो?
152. उत्पत्ति स्थान को क्या कहते हैं?
153. छत्रपति शिवाजी की माता कौन थी?
154. जीवन दाता प्रभु के लिए कौनसा शब्द आया है?
155. संलेखना का तीसरा अतिचार कौनसा है?
156. 26 बोल की मर्यादा में 19 वां बोल कौनसा है?
157. तीसरा उपांग सूत्र कौनसा है?
158. छः द्रव्यों में पाचवां द्रव्य कौनसा है?
159. भारत में विशाल जैन ग्रंथ भण्डार कहां है?
160. टेलीवीजन के अविस्कारक कौन थे?
161. भ.ऋषभ देव का नववां भव किसका था?
162. सीता का हरण करने रावण ने किसका वेश धारा?
163. कौणिक ने अपने पिता श्रेणिक को कहां रखा?
164. जिनेश्वर देव के उपासक क्या कहलाते हैं?
165. आ. श्री उदयसागर जी म कहा के थे?
166. धनवान को कंगाल कौन बनाता है?
167. रात्रि के अधिकार में कौन चमकता है?
168. भावना भा करके संसार किसने घटाया?
169. बिना किराये का मकान कौनसा है?
170. श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ?


झ

1. सउदी अरब में शोक में भी क्या नहीं झुकता है?
2. 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाली कहा की महिला थी?



3. दो बिना उठता नहीं, भार कहां तो रत्ती नहीं, वह क्या है?
4. रोज सवेरे करे प्रणाम, मेरे बिना चले न काम, वह क्या है?
5. 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या फहराया जाता है?
6. वीर दर्शन से चन्दना की बेडिया क्या हो गई?
7. दुर्ग जिल्ले में लोह पत्थर कहां पाया जाता है?
8. ध्वज को क्या कहते हैं?
9. भारत का तिरंगा क्या है?
10. आवेश आने को क्या कहते हैं?
11. हिण्डने के लिए वृक्षों पर सावन मास में क्या बाधा जाता है?
12. मध्य लोग का आकार कैसा है?
13. वकील का कमाऊ पूत कौन है?
14. शरीर के सत्व को शोषना क्या कहलाता है?
15. जैन धर्म का पंचवर्णा क्या है?
16. आडा चालू टेड़ा चालू, चालू कमर कस वह कौन?
17. कौन पैर न होन पर भी चलता रहता है?
18. कौनसा तप ताप बढ़ाता है?
19. किस मन से की प्रार्थना आत्म वंचना है?
20. किसको बोलने योजना बनानी पडती है?
21. सत्य का मुखैटा पहन कर कौन प्रतिष्ठित होता है?
22. समस्त सद्गुण किससे ढक जाते हैं?
23. अपने को किससे दूर रखना चाहिए?
24. जिनमे प्रेम नहीं वह मात्र क्या है?
25. बुराई ही बुराई किसके शरण में रहती है?
26. प्रेम किसके आश्रय से नष्ट होता है?
27. गुदे की अपेक्षा आदमी छिलके पर अधिक क्या करते हैं?
28. हमेशा फूटा क्या होता है?
29. कौन हमेशा डरा-डरा सा रहता है?
30. माया किसकी मित्र है?
31. मायावी किसका सहारा लेता है?
32. माया का निकटतम संबधी कौन है?

33. दम्भ केवल किसकी पोशाक है?
34. लोभी पुरुष बात-2 में क्या बोलता है?
35. जग का प्यार कैसा है?
36. चित्ता आक्रमण से पूर्व क्या करता है?
37. बोली पर नियत्रण न होने से क्या होते हैं?
38. सज्जन समृद्धि वान हो क्या हो जाता है?
39. निदा करने से क्या होते हैं?



1. अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
2. कौनसा अखबार सर्वाधिक पुरातन है?
3. मैसूर शासक हैदरअली का पुत्र कौन था?
4. मराठी में पत्र को क्या कहते हैं?
5. एक दूसरे से दूर रहने पर भी अनुभूति कैसे की जाती है?
6. घर बैठे-बैठे दुनिया का दर्शन किससे कर सकते हैं?
7. वृक्ष के जिस अंग पर फल लगते हैं उसे क्या कहते हैं?
8. समय को क्या कहा गया है?
9. आ. श्री श्रीलाल जी म. सा का जन्म कहा हुआ?
10. आ. श्री शिवलाल जी म. के पिता कौन थे?
11. जंत्र-मंत्र को बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं?
12. सद्गुण संस्कारों को कोन नष्ट करता है?
13. सोना तोलने के काँटे का क्या कहते हैं?
14. चाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
15. आ. श्री हुक्मोचन्द जी म. का जन्म कहाँ हुआ?
16. जसमा ओडण का पति कौना था?
17. एक दृष्टि रख ताकने को क्या कहते हैं?
18. किसी के साथ वेग से भिड़ना क्या कहलाता है?
19. मुद्रा का निर्माण कहाँ पर होता है?



- 20 पाव का गट्टा किस नाम से जाना जाता है?
- 21 घटा बजते समय कैसा शब्द निकलता है?
- 22 बूद-बूद पानी निकलने को क्या कहते हैं?
23. अष्ट कर्म प्रकृति को क्या करना चाहिए?
24. साधु भिक्षा दोषों को क्या करके लेते हैं?
25. साधु बावन अनाचार के क्या होते हैं।
- 26 दो स्थानों के बीच के निर्जन मैदान को क्या कहते हैं?
27. वर्षा ऋतु में मेढ़क क्या अधिक करते हैं?
- 28 समयानुसार नियमित कार्य करना क्या है?
29. लगातार बोलने वाले को बीच-में व्यवधान करना क्या है?
- 30 किसी वस्तु को खुंटी पर लटकाना क्या कहलाता है?
31. घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है उसे क्या कहते हैं?
32. मोल लिया हुआ फांसी का फंदा कौनसा है?
33. कोई बहु बीजी वनस्पति का नाम लिखें?
34. आरोग्य के लिए सुबह-सुबह क्या करना चाहिए।



- 1 गर्मी के मौसम में किसकी चाह रहती है?
- 2 सर्दी में क्या महसूस होती है?
3. साधु के समुदाय को क्या कहते हैं?
4. श्री कृष्ण को क्या कहते हैं?
5. स्थान का पर्यायवाची क्या है?
6. चतुराई से दूसरों को झांसा कौन देता है?
7. खिल खिलाते दांत निकालना क्या है?
8. अति मात्रा में भोजन करना क्या है?
9. मेधकुमार ठोकर खाकर क्या बने थे?
- 10 गर्मी में तरावट के लिए क्या पिया जाता है?
11. धोखा या छल का पर्यायवाची क्या है?

12. चाल बाज मीठा-मीठा बोल क्या करता है?
13. बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है?
14. जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं?
15. कान की लौ कैसी होती है?
16. आठ स्पर्श में एक स्पर्श का नाम लिखो?
17. बड़प्पन का दूसरा नाम क्या है?
18. तीसरा अंग सूत्र कौनसा है?
19. ध्यान में स्थिरता सूचक शब्द कौनसा है?
20. चण्डरूद्राचार्य का शिष्य केवली कैसे बना?
21. पानी का एक प्रकार बताओ?
22. धनोदधि वायु कैसी है?
23. संत सती के लिए आहारादि रखने से कौनसा दोष लगता है?
24. विनय विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं?

ड

1. भोले शंकर के त्रिशूल में क्या रहता है?
2. प्रथम भारत रत्न से सम्मानित कौन हुए?
3. एकसरे के आविष्कारक कौन थे?
4. भारतीय गण राज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
5. 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की सज़ा किस ब्रिटीश राजनीतिज्ञ ने दी?
6. नगाड़े पर डंडा लगाने पर क्या आवाज होती है?
7. नगाड़े को किस से बजाते हैं?
8. डंड देने वाला क्या कहलाता है?
9. इधर-उधर बार बार चक्कर लगाना क्या है?
10. विंचलित होने को क्या कहते हैं?
11. 833 मोतियां बिद ऑपरेशन एक दिन में किसने किये?
12. गाँधीजी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह कहां चलाया?



- 13 भारतीय सविधान के निर्माता कौन थे?
- 14 टाइप राइटर का शुद्ध हिन्दी नाम क्या है?
- 15 मदारी क्या बजाकर खेल दिखाता है?
- 16 बिच्छू का जहरीला काटा क्या कहलाता है?
- 17 मच्छर शरीर पर क्या मारता है?
- 18 लूटने वाले को क्या कहते हैं?
- 19 मुह से निकलने वाली वायु को क्या कहते हैं?
- 20 सूखे वृक्ष का तना क्या कहलाता है?
- 21 बावीस परीषदों में पांचवा परीषद कौनसा है?
- 22 श्री कृष्ण ने द्वारका में रास लीला किससे की?
- 23 कागज कपडों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं?
- 24 एक्सीडेंट कहां पर ज्यादा होते हैं?
- 25 मध्यप्रदेश में बबलेश्वरी देवी का मंदिर कहां है?
- 26 शनि मूर्ति कलश में रख घर घर कौन घूमता है?
- 27 पत्र पहुँचाने का काम कौन करता है?
- 28 वृद्ध का साथी कौन है?
- 29 उदयपुर हवाई अड्डा कहा है?
- 30 नवरात्रि में गरबा खेलने वाली औरते डडा लेकर क्या करती है?
- 31 आजकल विवाह शादी कब अच्छी समझी जाती है?
- 32 सौ घर में एक घर कौन छोड़ती है?
- 33 आजकल पिता को क्या कहते हैं?
- 34 जाटों की एक जाती का नाम क्या है?
- 35 पुलिस का महत्व कब रहता है?
- 36 शीशी पर क्या लगा रहता है?
- 37 जैन साधु उस्तरे रैजर से क्या नहीं बनाते हैं?
- 38 सोतों में परस्पर क्या रहता है?
- 39 बहु बेटियों से विवाह में क्या करा कर लाज शर्म संस्कार नष्ट कराते हैं?

ढ

1. सुनकर भी टस से मस न होने वाला क्या कहलाता है?
2. राजा के आदेश से कोटवाल क्या करता है?
3. भ. नेमिनाथ से कठिन अभिग्रह किसने धारे?
4. आजकल रोड पर क्या अधिक खुले हैं?
5. खुले बर्तन पर क्या रखना चाहिए?
6. समय व अवस्था के साथ क्या हो जाता है?
7. अन्याय कब फैलता है?
8. कलयुग में किनका वर्चस्व बढ़ा-चढ़ा रहेगा?
9. भ.पार्श्वनाथ के शिष्यों को देख गौशालक ने क्या कहा?
10. माता मरूदेवी ने 13 वें स्वप्न में रत्नों का क्या देखा?
11. काम करने की रीति-नीति को क्या कहते हैं?
12. भेड़ प्रवाह सम चलना क्या है?
13. श्री कृष्ण के प्रभाव से किस मुनि को लड्डू मिले?
14. लड्डू चूरते-चूरते केवल ज्ञान किसे हुआ?
15. छः मास की तपस्या श्री कृष्ण के किस पुत्र ने की?
16. सैनिक युद्ध में रक्षा हेतु पीठ पर क्या बांधता है?
17. पोलपॉल जहाँ हो वहा के लिए क्या कहते हैं?

ण

1. शक्रस्तव के शास्त्री भाषा में क्या कहते हैं?
2. श्रमण सूत्र का पाचवां आवश्यक कहां से शुरू होता है?
3. नव पदों में ज्ञान का पद कौनसा है?
4. ज्ञान पंचमी को किस पद की माला फेरते हैं?
5. ध्यान को खोलने की चाबी क्या है?
6. छट्ठा अंग सूत्र का नाम क्या है?
7. असत्य का चौथा प्रकार कौनसा है?

- 8 नमस्कार मंत्र को आगम में क्या कहा है?
- 9 सामायिक सूत्र का सातवा पाठ कौनसा है?
- 10 किससे ससार के समस्त साधुओं को नमस्कार किया है?
- 11 बारहवा कर्मादान कौनसा है?
- 12 नवकारसी का शास्त्री पाठ क्या है?
13. नमस्कार करने का सूचक शब्द कौन सा है?

भाग-3

1. बंध कितने प्रकार का है?
2. प्रकृति बध का अर्थ क्या है?
3. जीव किससे बंधा हुआ है?
4. कर्म फल का निर्धारण कौनसा बंध करता है?
- 5 सुख दुःख की तीव्रता या मंदता किस पर निर्भर है?
6. कषाय की तीव्रता से कैसे कर्म बंधते हैं?
- 7 मद परिणाम व लेश्या से कैसे कर्म बधते हैं?
8. बन्धन और मुक्ति का मुख्य कारण क्या है?
9. अशुभ क्रियाओं से रचा मन किसका बंध करता है?
- 10 धर्मारोधना से जीव किसके निकट पहुचता है?
- 11 श्रेणिक ने बाण से बिंध हिरणी को पराक्रम का क्या किया?
12. श्रेणिक ने गर्व करके कैसे कर्म बाधे?
- 13 भेद डालने, वियोग कर बातें वाला कैसे कर्म बाधता है?
14. तीव्र कषाय, परिग्रह की आसक्ति से कौन सी आयु बांधती है?
- 15 महामायावी, दभी किस गति का बंध करता है?
- 16 मद कषायी उदार हृदयवान् दायी कौनसा आयु बांधता है?
- 17 जिन वचनों में आस्थावान् किस गति का आयु बांधता है?
18. सरल प्रकृति, नम्र वृत्ति वाला किस नाम कर्म को बाधता है?
19. क्रूर, कपटी, अहकारी किस कर्म का बध करता है?
- 20 सुख की परम और चरम सीमा क्या है?

- 21 आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है?
- 22 अजीवाश्रव, पुण्य पाप और बध ये किसमे बाधक है?
- 23 शिवपद, परम पद अक्षय पद, अजरामर पद किसके पर्याय वाची हैं।
24. जीव और पुद्गल के संयोग से विभिन्न रूप किससे है?
- 25 किन कर्मों का भोग करना ही पडता है?
- 26 कर्मों का कर्ता और भोक्ता कौन है?
- 27 कर्मों का बध कौन करता है?
28. कौनसा स्थान दुःख द्वन्द्वों से रहित हैं?
29. जिसका क्षय न हो उसे क्या कहते हैं?
30. सर्वोपद्रवों से रहित स्थान को क्या कहते हैं?
31. किसके स्वभाव में परिवर्तन नही आता?
- 32 क्या भवी जीव कभी अभवी बन सकता है?
33. अभवी क्या कभी भी नही बन सकता है?
34. सिद्ध, बुद्ध, निरजन, परब्रह्म, परमात्मा किनके नाम हैं?
35. कर्मों का बधन रहते क्या सभव नही?
- 36 कर्म आत्मा मुक्ति से क्या है?
37. मूल तत्व कौनसा है?
- 38 जीव और मौक्ष का वर्णन कौनसे तत्व करते हैं?
- 39 आश्रव आत्मा की कौनसी अवस्था है?
40. सवर और निर्जरा आत्मा की क्या है?
- 41 कर्मों की आशिक मुक्ति क्या है?
- 42 कर्मों से रहित अवस्था क्या है?
- 43 सूर्य के न होने पर भी सदा ज्योति कहां?
- 44 ससार कूप समान किन्हे दिखता है?
- 45 अनत सुखों का भाजन कौन है?
- 46 ज्ञान दृष्टि से कौनसा जीव सिद्ध होता है?
- 47 एक समय में सर्वाधिक कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं?
- 48 क्षेत्र दृष्टि से कौन से जीव सिद्ध हो सकते हैं?
- 49 आत्मा का सम्पूर्ण विशुद्ध विकास कहां?



- 50 इस अवसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थ सिद्ध कौन?
51. इस अवसर्पिणी के अन्तिम सिद्ध कौन?
- 52 जिनका जैसा स्वरूप है वैसा जानना क्या है?
53. तत्त्वों पर सम्यग्श्रद्धान होना क्या है?
- 54 तीर्थ स्थापना कर कौन सिद्ध हुए?
55. अन्य साधु लिंग में कौन सिद्ध बने?
- 56 कभी सभी भव्य मोक्ष जायेगें?
- 57 आत्मा ज्ञान स्वरूपी होने से एक स्थान पर कितनी रह सकती है?
- 58 सुख-दुखानुभव की ज्ञान शक्ति किसमें है?
- 59 कर्म सत्ता आत्मा के साथ कबसे है?
60. सिद्ध क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है?
61. कर्म बद्ध कितनी योनियों में भटकती है?
- 62 आत्मध्वनि को कौन सुनता एव उसे जानता है?
- 63 ससारी अवस्था में आत्मा क्या कहलाता है?
64. पर्याय की अपेक्षा परिणामी कौन?
- 65 अदृष्ट रहकर भी आत्मा स्वयं क्या है?
66. स्व-पर उद्धारक, अविनाशी कौन?
67. चेतनावान् को क्या कहते हैं?
68. उपयोग लक्षण वाला कौन है?
69. सुःख दुखानुभव की क्षमता किसमें है?
- 70 हिताहित का बोध कौन करता रखता है?
71. दृष्टि पथ पर आने वाले जीव कौनसे है?
- 72 आखों से कौनसे जीव दृष्टि गोचर नहीं होते?
73. सूक्ष्म जीव कहा कहां रहते हैं?
- 74 चारो गति वाले जीव क्या कहलाते हैं?
75. ससारी जीव किससे मुक्त है?
- 76 कौन संसार में रहते हुए ससारी नहीं?
77. मन वाले जीव क्या कहलाते हैं?
78. मन किन जीवों में होता है?
79. क्या पचेन्द्रिय जीव बिना मन वाले भी होते हैं?

80. बिना मन वाले पंचेन्द्रिय जीवों को क्या कहते हैं?
81. पंचेन्द्रिय के अतिरिक्त सब जीव क्या है?
82. सर्दी गर्मी दुःखादि से बचना कौन चाहते हैं?
83. कौन से जीव चलते फिरते नहीं है?
84. मरते समय जैसी मति वैसी क्या होती है?
85. आत्मा में किसका निवास है?
86. आत्मा है या नहीं यह किसके अस्तित्व का प्रमाण है?
87. जड पदार्थों में क्या नहीं होती?
88. कौन जानने समझने ग्रहण करने की क्षमता वाला है?
89. किस गति से जीव मरने के बाद कहीं उत्पन्न हो सकते हैं?
90. जैन शास्त्रानुसार सूर्य क्या है?
91. देवों का अधिपति क्या कहलाता है?
92. कुल कितने इन्द्र होते हैं?
93. विशाल रूप धारण करे जीव तो कितना बड़ा हो सकता है?
94. जानने की शक्ति से आत्मा की क्या होती है?
95. आत्मा को कौन जला नहीं सक्रती?
96. आत्मा का छेदन-भेदन किससे हो नहीं सकता?
97. आत्मा को कौन गला नहीं सकता?
98. व्यक्ति को किसका दमन करना चाहिए?
99. किसका दमन करना अतिदुष्कर है?
100. कौन इस लोक और परलोक में सुखी रहता है?
101. एक जीवात्मा के कितने आत्म प्रदेश होते हैं?
102. तिल में तेल फूल में सुगंध सम सारे शरीर में कौन?
103. कर्म किन जीवों में लगते हैं?
104. शुद्धात्म स्वरूप ध्याये बिन ध्यान क्या है?
105. इन्द्रभूति गौतम की किस शंका का निवारण वीर ने किया?
106. अखण्ड और शाश्वत तत्त्व क्या है?
107. जीवोत्पत्ति स्थान को क्या कहते हैं?
108. किनके सयोग से जीव जीवित रहता है?
109. जीव अजर अमर अविनाशी किस अपेक्षा से है?

110. जीव दुःखी किस कारण से होता है?
111. जड पदार्थों को क्या कहते हैं?
112. कौन सोचने समझने, अनुभव शक्ति से विहीन है?
113. सांख्य दर्शन अजीव को क्या कहता है?
114. बौद्ध दर्शन अजीव को क्या कहता है?
115. अजीव के पांच भेदों में रूपा कौन?
116. धर्म अधर्म आकाश और काल किसके भेद हैं?
117. वस्तु के स्वरूप को क्या कहते हैं?
118. तत्त्व को और क्या कहते हैं?
119. अरबी भाषा में तत्त्व को क्या कहते हैं?
120. जीव की गति, स्थिति, अवगाहना, वर्तना में कौन सहायक है?
121. धर्मास्ति अधर्मास्ति द्रव्य किसकी सीमा निर्धारित करते हैं?
122. अलोक में मात्र कौनसा द्रव्य है?
123. गति स्थिति में सहायक द्रव्य का अभाव कहां है?
124. धर्मास्ति, अधर्मास्ति द्रव्य कहां तक है?
125. अधोलोक में मुख्यतः कौन रहते हैं?
126. उर्ध्वलोक में मुख्यतः कौन रहते हैं?
127. सिद्ध परमात्मा उर्ध्वलोक में कहा विराजते है?
128. सिद्ध शिला के चार कोश ऊपर क्या है?
129. अन्तिम कोश के छठे भाग पर कौन है?
130. ससार, ब्रह्माण्ड, विश्व, जगत् किसके नाम है?
131. मुक्तात्मा किस द्रव्य में आता है?
132. लोकाकाश के अग्रभाग पर कितने द्रव्य हैं?
133. स्वरूप को जाने बिना किसे जान नहीं सकता
134. यह ससार कब से है?
135. इस लोक का आकार कैसा है?
136. चेतन के लिए चौदह राजू लोक क्या है?
137. कमर के नीचे का भाग किस लोक में लिया?
138. कमर से कण्ठ तक का भाग किस लोक में है?
139. कण्ठ से ऊपर का भाग किस लोकान्तर्गत है?

- 140 अधर्मास्ति काय किसमें सहायक बनता है?
- 141 धर्मास्तिकाय किसमें सहायक बनता है?
- 142 कौन-2 सा द्रव्य समान गुण वाला है?
143. धर्मास्ति काय को विज्ञान क्या कहता है?
- 144 आकाशास्ति काय का गुण क्या है?
145. सडन, गलन, विध्वसन किसका स्वभाव है?
146. शब्द, अन्धकार, छाया, धूपादि किस द्रव्य के गुण है?
147. पर्यार्य परिवर्तन किसके प्रभाव से होती है?
148. भूतकाल बड़ा है या भविष्यत काल बड़ा है?
149. वस्तुओं में ह्यस किस काल में होता है?
150. वस्तुओं में सरसता किस काल में बंटती है?
151. काल के अत्यन्त सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं?
152. आत्मा और जगत में क्या समानता है?
153. योग और कषाय से आत्मा क्या ग्रहण करती है?
154. चेतन किसमें मोहित होकर स्वःमान भूला?
155. किस रंग मंच पर जीव ने अनेक रूप धारे?
156. अहो रात्रि किस द्रव्य की अपेक्षा रखती है?
- 157 अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल के कितने-2 आरे होते हैं?
158. पुदगलों के सूक्ष्मतम विभाग को क्या कहते हैं?
159. अरूपी के सूक्ष्म विभाग को क्या कहते हैं?
- 160 स्कंध से अलग हुआ प्रदेश कहलाता है?
161. जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं?
162. आत्मा किससे पवित्र बनती है?
163. शुद्ध भावना से किसका बंध होता है?
164. किसका विपाक सुखकर रहता है?
165. नव तत्त्वों में पुण्य तत्त्व कौनसा है?
166. पुण्य किस कर्म की पर्याय है?
167. पुण्य बंध के कितने प्रकार कहे गये हैं?
- 168 प्रवल पुण्योदय से जीवन में क्या लगता है?
169. शय्यापाटादि देने से कौनसा पुण्यबंधता है?



- 170 किसी की सेवा-रक्षा-विनयादि कौनसा पुण्य बंधता है?
- 171 पुण्य फल भोगते बन्धने वाला पुण्य क्या कहलाता है?
- 172 पुण्य फल भोगते पाप बधाने वाला पुण्य क्या कहलाता है?
- 173 मार्ग दर्शक के सदृश कौनसा पुण्य है?
- 174 लुटेर के समान कौनसा पुण्य है?
- 175 कौनसा पुण्य मोक्ष का साक्षात् कारण है?
- 176 ज्ञेय उपादेय-हेय कौनसा तत्त्व है?
- 177 कब तक भूल-अपराध होने पर भी बाल बाका नहीं होता?
- 178 पुण्यक्षीण होते ही विपदाएँ किसे घेर लेती है?
179. किसको कोई कुछ भी नहीं देता?
180. किस क्षेत्र में उधार नहीं चलती है?
181. पुण्य सचय से क्या मिलती है?
- 182 पुण्य कर्म की प्रथम प्रकृति कौन सी है?
183. पुण्य कर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है?
- 184 किस कर्मोद्दय से जीव अन्य बलवानों में अजेय रहता है?
- 185 किस पुण्य प्रकृति के उदय से आदरणीय बनता है?
186. शरीर से शुभगन्ध किस प्रकृति के कारण फूटती है?
187. मनुष्य मरकर मनुष्य किस आनुपूर्वी से होता है?
188. तिर्यचायु किस विपेक्षा से श्रेष्ठ माना गया है?
- 189 किसके योग से धन धान्यादि आते हैं?
- 190 18 ही पुराणों का सार किन दो वचनों में छिपा है?
191. परोपकार के समान क्या नहीं है?
192. पुण्य-पाप का आधार क्या है?
- 193 आरोग्य सुख सौभाग्यादि किसका फल है?
- 194 धार्मिक सयोग बलादि किससे प्राप्त होते हैं?
- 195 कौनसा सुख कभी नष्ट नहीं होता?
- 196 पुण्योदय के फल स्वरूप कौनसा सुख मिलता है?
- 197 क्षणभंगुर अनित्य सुख कौन सा है?
- 198 पापों में सलग्न होने पर कई सुखी क्यों?
- 199 किसे तोड़े बिन मुक्ति संभव नहीं?

200. पुण्य और पाप दोनों तत्त्व क्या हैं?
201. जितना पुण्य या पाप है उतना क्या करना पड़ेगा?
202. पुण्य किसके समान है?
203. पाप को भी नष्ट करने की शक्ति किसमें है?
204. पुण्य अग्नि है तो पाप किसके तुल्य है?
205. अन्धकार की अपेक्षा शक्तिशाली कौन?
206. सूर्य के आगमन से पूर्व ही घोर अन्धकार क्या हो जाता है?
207. पुण्य हीन जीव ससार में कौन से है?
208. 18 वार जन्म 17 वार मरण श्वासोच्छ्वास में कौन करते हैं?
209. अच्छे कार्यों की अनुमोदन से किसका विकास होता है?
210. सुख साधनों का संयोजन कौन करता है?
211. एकान्त रूप से हेय तत्त्व कौन सा है?
212. पर को पीड़ा पहुचाने के समान क्या नहीं?
213. अन्धकार के समान कौन है?
214. आत्म पतन किससे होता है?
215. पुण्य रूपी सदुधान को कौन सुखा देता है?
216. मानसतत्र और हृदय यंत्र को मलीन कौन बनाता है?
217. जीव को दुःखी कौन बनाता है?
218. पाप का कारण क्या है?
219. पाप फल भोगते पाप बंधाने वाला क्या कहलाता है?
220. पाप परिणाम भोगते हुए पुण्यार्जन कराने वाला कौन?
221. पाप किसे कहा जाता है?
222. पाप जीव है या अजीव है?
223. पाप रूपी है या अरूपी है?
224. दान का निषेध करने न देने से व्यक्ति क्या होता है?
225. मनुष्य निर्धन क्यों होता है?
226. देव गुरु धर्म की निन्दा करने से व्यक्ति क्या होता है?
227. निदा चुगली सुनने का रसिक क्या बनता है?
228. रखी अमानत हडपने विश्वास घाती का युवा पुत्र क्या जो जाता है?

229. इस जीवन में यह काया किस तुल्य है?
230. इस जीवन में कृषक कौन है?
231. बपित होने वाले बीज-कौन-2 से है?
232. जैसा बीज होगा वैसा क्या मिलेगा?
233. कौनसा फल कोई भोगना नहीं चाहता?
234. कपटी के साथ क्या नहीं रखना?
235. कौन हस मुख दयालुता का स्वांग विशेष रचता है?
236. हृदय किसका कलुषित रहता है?
237. आव्सक्ति के परिणाम क्या कहलाते हैं?
238. अप्रीति जन्य परिणाम कौनसे हैं?
239. तन लाल मन श्वेत किसका होता है?
240. छल प्रपच युक्त झूठ बोलना क्या है?
241. इन्द्रिय सुखों में मग्न होना क्या है?
242. समय तपादि साधना में रूचि न होना क्या है?
243. खड़े-2 या बैठे-2 नींद आना क्या कहलाता है?
244. चलते-2 नींद आना क्या कहलाता है?
245. किस कर्मोदय से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है?
246. सत्य कहने पर भी विश्वास क्यों नहीं होता?
247. कौन पाप कर्मों का बंध नहीं करता है?
248. कृत पाप किसके कारण बनते हैं?
249. पाप कर्मों से डरना कौनसी वृत्ति है?
250. पाप करके कौन डरता है?
251. न्यायोपार्जित धन की आसक्ति से भी क्या लगता है?
252. कौन अपना काम चातुर्यता से करता है?
253. कोमलता मधुरता मोहकता किसकी वाणी में रहती है?
254. पापी की दशा कैसी बनती है?
255. पापी जीवित रहते अन्यो के साथ क्या बढ़ाता है?
256. पका हुआ अवश्यमेव क्या होता है?
257. फूटा हुआ क्या होता है?
258. जन्मा है वह अवश्य क्या होता है?

259. कौन हमेशा डरता रहता है?
260. कर्मकर्ता को क्या करना पड़ेगा?
261. पुण्य व पाप का निवास कहां है?
262. रोककरके भी किससे बच नहीं सकते?
263. घृणा पापी से नहीं किससे करनी चाहिए?
264. पाप का शुद्धिकरण किससे होता है?
265. पाप का बाप कौन है?
266. पाप कर्मों के प्रति मन में क्या रहनी चाहिए?
267. कौन पाप कर्मों का बंध हसते-हंसते करता है?
268. अशुभ बंधोदय क्या कहलाता है?
269. अन्तःकरण के पश्चाताप से पाप क्या हो जाता है?
270. ज्ञानी पाप करते क्या करता है?
271. किस अग्नि में आत्मा स्वर्ग सम दमकने लगती है?
272. कर्मों के आने का मार्ग क्या कहलाता है?
273. आश्रव का मुख्य द्वार कौन सा है?
274. सावध क्रियाओं का त्याग न करना क्या है?
275. स्वरूप जागृति की क्रियाओं में उपेक्षा करना क्या है?
276. पुनर्भव की जड़ों का सिचन किससे होता है?
277. आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को क्या कहते हैं?
278. जीव की मनन कारी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
279. वचन प्रयोग संबंधी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
280. आचरण जन्म कायिक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं?
281. पूर्वकृत पापों से छूटने क्या करना चाहिए?
282. नवीन कर्म बंध से बचने क्या रखना चाहिए?
283. तालाब में चहूं और से क्या आता है?
284. आत्म प्रदेशों में आश्रव द्वार से क्या आते हैं?
285. कषाय भाव से बंधने वाला कर्माश्रव कौन सा है?
286. वीतराग भाव में बंधने वाला कर्म कौना सा है?
287. गीले चमड़े के समान कौन सा कर्माश्रव है?
288. कौन से कर्म स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं?

- 289 इर्यापथिक आश्रव किसके समान है?
- 290 प्रथम समय में बध दूसरे समय में कौन छूटता है?
- 291 शुभयोगाश्रव से कौनसा बध होता है?
- 292 अशुभ योग से कौनसा आश्रव आता है?
- 293 अध्यात्म दृष्टि से पुण्य पाप दोनों क्या हैं?
- 294 आत्मा को शुभाशुभ से हटा शुद्ध में जाना किसका लक्ष्य है?
295. आत्मा को बन्धन मुक्त कौन बनाता है?
296. निर्विकल्प और निष्काम भाव क्या है?
- 297 भण्डोपकरण उपयोग न रखने से क्या लगता है?
298. आर्त, रौद्र ध्यान से किसमें प्रवेश होता है?
299. जीव का परिणाम क्या कहलाता है?
- 300 जीव के परिणाम किससे भिन्न नहीं होते?
301. पहले से चौथे गुणस्थान तक क्या है?
- 302 दशवें गुण० तक क्या रहता है?
303. छठे गुण० स्थान तक क्या रहता है?
304. किस गुण स्थान में प्रमाद का पाप नहीं लगता?
305. कर्म बंध के स्थान किसके हो सकते हैं?
306. आश्रव संवर का, संवर किसका स्थान बन सकती है?
307. आश्रव के निरोध को क्या कहते हैं?
308. कर्म बंध से आत्मा को बचाना क्या है।
309. संवर के मुख्य भेद कितने हैं?
310. तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान करना क्या कहलाता है?
- 311 हिसादि दोषों से स्वात्मा को बचाना क्या है?
312. आत्मा के स्वरूप के प्रति जागृत रहा क्या है?
313. कषाय भाव का त्याग करना है?
314. मन, वचन, काय योग से निवृत्त होना क्या है?
315. संवर तत्त्व के कितने भेद हैं?
316. योगों को सम्यक्तया रोकना क्या है?
317. उपयोग से चलना कौन सी समिति है
318. निर्वाह योग्य निर्दोष साधन तलाशना क्या है?

- 319 समभाव से उदित कर्मों को सहने से क्या होती है?
- 320 साक्षी भाव से किन्हें खदेड सकते हैं?
- 321 अन्तर्मुखी बनने से कौनसा स्त्रोत मिलेगा?
322. वैर विरोध को कौन बढ़ाता है?
- 323 रम्य वस्तु पर राग करने से कौनसी क्रिया लगती है?
324. किस क्रिया में आठों ही कर्मों का एक साथ बन्ध होता है।
325. तत्वों का गहन चिन्तन क्या कहलाता है?
326. अनुप्रेक्षा का दूसरा नाम क्या है?
327. भावना के कितने भेद हैं?
328. लोभ का सूक्ष्म अंश किस चारित्र में रहता है?
329. विशिष्ट तपयुक्त कौनसा आचार पाला जाता है
330. जिनेश्वरों को कौनसी क्रिया लगती है।
331. अध्यात्म क्रियाएँ किसमें आती हैं
332. संवर और निर्जरा के साधन किसमें आते हैं?
333. तप का फल क्या है?
334. नवीन कर्मों के संचय को कौन रोकता है?
335. पूर्व संचित कर्मों को क्षीण करना क्या है?
336. निर्जरा और मोक्ष का आपस में क्या संबंध है?
- 337 मोक्ष का कारण क्या है?
- 338 निर्जरा का कार्य क्या है?
339. आत्मा का क्रमिक विकास निर्जरा है तो सम्पूर्ण विकास क्या है?
- 340 निर्जरा एक यात्रा है तो मोक्ष क्या है?
341. आत्म ज्ञानाभाव में कौन सा तप होता है?
342. बाल तप का दूसरा नाम क्या है?
- 343 किसमें काय क्लेश अधिक निर्जरा कम होती है?
- 344 बाह्य तप में मुख्य संबंध किसका?
345. मन और आत्म वृत्तियों का संबंध किस तप में है।
- 346 परिणाम उज्ज्वल और सरल किससे बनते हैं?
347. पेट की अपेक्षा इच्छा निरोध तप किसमें हैं?

- 348 जिन शासन का मूल क्या है?
349. उदित कर्मों की निर्जरा क्या कहलाती है?
- 350 कर्मों की उदीरणा कर निर्जरा करना क्या है?
- 351 स्वकाल प्राप्त, अबद्धिपूर्वा और अकाम निर्जरा में किसके नाम है?
352. पराधीनता से कष्ट सहने से कौनसी निर्जरा होती है?
- 353 अज्ञानावस्था कौनसी निर्जरा होती है?
354. सचित कर्मों का क्षय कौन करता है?
355. सही मायने में पुरुषार्थी कौन?
356. धाय बच्चे का लालन पालन करते क्या समझती है?
- 357 कुटुम्ब पालना करते सम्यग्दृष्टि कैसे रहता है
358. स्वकृत कर्म सबको क्या करने पड़ते हैं?
359. धर्मशुक्ल ध्यान से जीव क्या करता है
360. अन्तरंग तप के बिना बहिरंग तप क्या है?
- 361 इच्छा की अपेक्षा पेट का निरोध किसमें होता है?
362. अनशन की अपेक्षा कौन सा तप-महत्त्व पूर्ण है
363. प्रायश्चित्त से सज्जनों का हृदय कैसा हो जाता है?
364. चारित्र्य में निर्मलता किससे आती है?
365. भूख से कम खाना कौनसा तप है?
- 366 भूत काल और वर्तमान काल के दोष किससे शुद्ध बनते हैं?
367. वैयावृत्य रसायन से किस कर्म का उपार्जन होता है
368. किनकी स्तुति से भव बन्धन कटते हैं?
369. कर्ममल किस अग्नि से दूर होता है?
- 370 कौन तप से सम्पूर्ण कर्मों को क्षय कर सकता है?
- 371 नरक, तिर्यच देव योनि में कौनसा तप नहीं होता?
372. सम्पूर्ण दुःखों का नाशक कौन है?
- 373 जीवन का दीपक क्या है?
- 374 कौनसी निर्जरा सर्वश्रेष्ठ है?
375. तप संयम ध्यानादि कृत अविपाक निर्जरा क्या है
376. अविपाक निर्जरा किसका कारण है?

377. असद्वृत्तियों में योगों को प्रवृत्त करना क्या है?
378. आत्मा की अद्भुत शक्ति किससे प्रकट होती है?
379. कायोत्सर्ग से योग क्रिया किस रूप में परिणत होती है?
380. व्युत्सर्ग का दूसरा नाम क्या है?
381. अज्ञान अन्धकार किससे हटता है?
382. स्वाध्याय से जीवन का क्या दूर होता है?
383. स्वाध्याय किन चरणों में पहुंचने का साधन है?
384. मन विवेक-शून्य किसके बिना रहता है?
385. मन के संस्कार किससे परिमार्जित होते हैं?
386. तप इच्छाओं को दमन नहीं तो विषय-कषाय का क्या?
387. जीवन की ऊर्जा क्या है?
388. बिना जल का अन्तरंग स्नान क्या है?
389. जीवन के अभ्युत्थान का मार्ग क्या है?
390. दीक्षा लेकर चार विगय किसने आजीवन त्यागे?
391. छः वर्ष में 975 दिन आहार किसने लिया?
392. आजीवन 5 पंचोले-पंचोले तप किसने किया?
393. 20 वर्ष में 10 माह 20 दिन आहार किसने लिया?
394. चक्रवर्ती के तेरह तेलों का तप किसके अन्तर्गत?
395. उत्तराध्ययन सूत्र का 30 वां अध्ययन का नाम क्या?
396. आर्त्तध्यान से किसकी वृद्धि होती है?

भाग-4

1. आचार मर्यादा, व्यवहारनीति संविधान क्या कहलाते हैं?
2. दोषों की निवृत्ति चारित्र्य वृद्धि किससे होती है?
3. संयम शैथिल्य के नुकसान को बता संयम में स्थिर करना क्या?
4. श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी किस सूत्र के रचनाकार है?
5. कल्य सूत्र किस शास्त्र से लिया गया है?

- 6 पहले-छेले तीर्थकरों के शासन में उभयकाल क्या होता है?
- 7 पहले और छेले के अलावा तीर्थकरों का प्रतिक्रमण कल्प क्या?
- 8 सुखे समाधे एक स्थान पर साधु कितना ठहरे?
- 9 साध्विया चातुर्मास के अलावा एक स्थान पर कितनी ठहर सकती?
- 10 1 माह रूकने के बाद पुनः वहा कितना समय बीता रूक सकता है?
11. प्रथम तीर्थकर के साधु कैसे थे?
12. अंतिम तीर्थकर के साधु कैसे थे?
13. बावीस तीर्थकरों के साधु कैसे?
14. जिन चरित्र स्थविरावली साधु समाचारी मुख्यतः किनमें वर्णित है?
- 15 साधु कितने हाथ कपड़ा रख सकते हैं?
- 16 साध्वियां कितने हाथ वस्त्र रख सकती है?
17. चातुर्मास में गोचरी कहां तक जा सकते हैं?
18. चातुर्मास में लोच करना कब तक जरूरी हैं?
19. आज्ञा लेकर गोचरी जाना क्यों जरूरी है?
- 20 वीर निर्वाण के बाद कौन-2 से गणधर मोक्ष गये?
21. अभी किस गणधर की परम्परा चल रही है?
- 22 वर्धमान, श्रमण महावीर ये नाम किसमे आए हैं?
23. तीर्थकर स्वयं बुद्ध है फिर देव बोध देने क्यों आते हैं?
24. सेवा में रहने की भावना इन्द्र प्रभु के सामने क्यों रखी?
25. कौशलिक अरिहंत कौन हुए?
- 26 मरूदेवी के मोक्ष और ऋषभदेव के केवली होने में कितना फर्क?
- 27 कल्पसूत्र में पुरुषादानीय विशेषण किसके आया है?
- 28 भ महावीर की विपाक-सूत्र अन्तिम क्या है?
29. परिपूर्ण उत्तराध्ययन एवं मरूदेवी का कथन करते वीर क्या पाये?

- 30 नीच गति न पाकर भरपूर ऋद्धि कौन पाता है?
- 31 कितने दोष टालकर साधु भिक्षा लेते हैं?
- 32 52 अनाचार का साधु क्या नहीं करते हैं?
- 33 चंचल चित्त को स्थिर कौन करते हैं?
34. ज्ञानादि मे प्रवृत्ति कौन कराते हैं?
35. सूत्रार्थ का अभ्यास साधु किसके पास करते हैं?
36. कल्पसूत्र वीर निर्वाण के बाद कब लिपिबद्ध हुआ?
37. श्वेत कमल को क्या कहते हैं?
- 38 धूँए रहित अग्नि को क्या कहते हैं?
39. ऐरावत किसका नाम है?
40. आठवें अंगसूत्र का नाम क्या है?
41. उपांग, मूल और छेद सूत्रों की अपेक्षा प्रधान कौन है?
42. सुधर्मास्वामी ने किस सूत्र की वाचना प्रस्तुत की?
43. मुक्ति पथ फूलों का नहीं तो किसका पथ है?
44. अन्तगड् सूत्र का वाचन कब किया जाता है?
45. अन्तगड् की वाचना कितने दिन चलती है?
46. आत्म साधना की प्रेरणा किसमे पर्याप्त है?
47. क्या आठ क्षय कर आठ पाये जाते हैं गुण?
48. अन्तगड् के आठ वर्गों में कितने अध्ययन है?
- 49 उपासक दशांग सूत्र में किन श्रावको का वर्णन है?
50. अन्तगड् सूत्र में किन आत्माओं का वर्णन है?
- 51 बुराई हर जगह क्यारहती है?
52. जरासंध के कारण सुदूर सौराष्ट्र में किसकी रचना हुई?
53. देवकी के भविष्यवादी अतिमुक्त किसके शासन वर्ती थे?
- 54 अतिमुक्त कुमार किसके लघुभ्राता थे?
55. अतिमुक्त कुमार के भविष्य कथन का प्रसंग कैसे बना?
56. हे देवकी! तुम्हारा सातवां पुत्र कंस का क्या करेगा?
57. दूसरे वर्ग के समुद्र, सागर और तीसरे अचल जी की क्या है?
- 58 कौन माता और पुत्र उत्सर्पिणी में तीर्थकर होंगे?

- 59 देवकी कौन से व किस नाम से तीर्थकर होंगे?
- 60 श्रीकृष्ण कौनसे व किस नाम से तीर्थकर होंगे?
- 61 रूक्मणि, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का परस्पर क्या संबंध था?
- 62 प्रेम की जबान क्या है?
- 63 कौन बोलता नहीं पर चमकता है?
- 64 किसके योग से द्वारका नष्ट हुई?
- 65 जरद कुमार के हाथों कोशाम्बी वन में कौन मरे?
- 66 नगर रक्षा का उपाय श्री कृष्ण को भ नेमिनाथ ने क्या बताया?
- 67 परिणाम स्निग्धता व योग चंचलता से क्या चिपकते हैं?
- 68 अत्यन्त सूक्ष्म रज क्या है?
69. मोहोदय के कारण किसकी आसक्ति रहती है?
- 70 चित्रकार सदृश कौन अंगोपाग का निर्माण करता है?
- 71 अन्तराय कर्म के रहते क्या नहीं मिलती?
- 72 अन्तराय कर्म किसके समान है?
73. जीव कर्माधीन बना किसमें रमण करता है?
- 74 कषाय और योग से क्या उत्पन्न होती है?
- 75 लेश्या और कर्म का कारण कार्य क्या रहा हुआ?
- 76 परिणामों के आधार पर क्या बंधते हैं?
77. आदमी गुदे की अपेक्षा छिलके पर क्या करते हैं?
- 78 आत्म शक्ति किससे आवृत बनती है?
79. अभव्यात्मा का कर्मों के साथ कैसा संबंध है?
- 80 आत्मज्योति जगने पर नर क्या बन जाता है?
- 81 आत्मा विषय को विष रूप कब मानता है?
- 82 रागद्वेष के बन्धनों में कौन जकड़ी हुई है?
- 83 जीव कर्मों से कब बंधा?
- 84 किसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता?
- 85 दर्शन मोह का तीव्रोदय रहते क्या रहता है?
- 86 भव्य जीवों का कर्मों के साथ कैसा संबंध है?
87. आदि और अन्त वाले क्या कहलाते हैं?
- 88 प्रत्येक आत्मा स्वरूप दृष्टि से कैसी है?

- 89 कौन सी आत्मा कर्मों से सर्वथा मुक्त है?
- 90 कौन छिपाने पर भी नहीं छिपता?
- 91 कर्म हमेशा किसके पीछे-पीछे चलता है?
92. 8 हजार वर्ष अबाधा काल किसका ?
- 93 बन्ध से उदय उदीरणा न हो वहा तक क्या?
- 94 कौनसा कर्म स्थिति-अनुभागाधार पर भाग्य है?
- 95 उदित कर्मों के साथ उदय आने वाले कर्म भोगना क्या है?
96. किससे कर्म स्थिति को कम किया जा सकता है?
97. कर्म रूपी आइने में हमारा क्या दिखता है?
98. गुह्य पाप कब तक चुभता रहता है?
- 99 जीवन व्यवहार में समभाव रखना किसका आदर्श है?
100. धर्म दलाली से जीव किसको प्राप्त होता है?
- 101 मुक्ति नगर का प्रथम सौपान क्या?
102. किसके बिना ज्ञान अज्ञान रहता है?
- 103 अन्तगढ़ 5 अध्ययन में कितने पुरुष व महिला ने समकित धारण कल्याण?
104. देवकी पुत्र गजतालु सम होने से क्या नाम रखा?
105. महाप्रतिमा हेतु भ.अरिष्टनेमि की आज्ञा से गज-सुकुमाल कहा गये?
- 106 राज्यभिषेक होते ही गजसुकुमाल ने क्या कहा?
107. दुर्गधमय कुतिया की भी श्री कृष्ण ने कैसे प्रशंसा की?
- 108 गुण रत्न संवत्सर तप में कितने माह लगते हैं?
- 109 480 दिनों में कितने दिन उपवास के हाते हैं?
110. 1 उपवास से 16 उपवास तक बढ़ाकर घटाया किसमें जाता है?
- 111 अनशन, काय क्लेश, ध्यान ये भेद किसमें आते हैं?
112. गुणरत्न तप में किस आसन से सूर्यातापना ली जाती है?
- 113 वस्त्र रहित देह किस आसन में ध्यान किया जाता है?
114. वासुदेव निदान कृत बनने से क्या नहीं ले सकते?
115. अति कठोर दृढ़ अध्वसाय की साधना क्या है?

- 116 भिक्षु प्रतिमा कौन साध सकता है?
- 117 महाधैर्यवान् सत्त्वशाली कौन होता है?
- 118 त्रिपदी से गणधरों द्वारा अर्थ गुम्फित सूत्र क्या है?
- 119 कोई भी किसी को किससे नहीं बचा सकता?
- 120 विवेक जागृत करना किसका लक्ष्य है?
- 121 कौन बलात् आचरण हेतु बाध्य नहीं करता?
122. स्वैच्छिक धर्माचरण से कौनसा बल प्रकटता है?
- 123 बलात्, भय, प्रलोभन के आचरण से कौनसी शक्ति प्रकटती है?
- 124 श्रुत, वय और दीक्षा ज्येष्ठ क्या कहलाते हैं?
- 125 जिससे तिरा जाता है उसे क्या कहते हैं?
- 126 किससे भव्य सागर तैरता है?
127. गजसुकुमाल कहा से मोक्ष गए?
- 128 ससार में सारभूत तत्त्व क्या है?
129. आत्मा के अनंत सुखों को कौन रोकता है?
130. आत्मा के सम्यग्दर्शन गुण का घातक कौन?
131. आत्मा के अगुरूलधुत्व गुण को रोकता कौन है?
- 132 आत्म ग्रहित शुभाशुभ फल जन्य क्या होते हैं?
133. नारक मरना और देव जीना चाहते हुए भी वैसा क्यों नहीं कर सकते?
- 134 सत्तर क्रोडाक्रोडी सागरोपम की स्थिति किसकी?
- 135 ज्ञानावरण, दर्शनावरणमोह, अन्तराय, और आयु की जघन्य स्थिति कितनी?
136. कर्म करते जाओ मगर उनमें आसक्त मत बनो किसने कहा?
137. फलेच्छा कृत कर्म हमको किसमें डालते हैं?
- 138 कौनसा कर्म बन्धन में नहीं बांधता?
- 139 किसे भोगना जरूरी है बदलना संभव नहीं?
140. वर्तमान का पुरुषार्थ किसका भाग्य निर्माता है?
141. पुरुषार्थ की सन्तान कौन है?
142. नूतन जीवन का सूत्रपात किससे होता है?

- 143 किस पुरुषार्थ से आत्मा स्वकर्म बन्धनों को तोड़ सकती है?
- 144 स्व पर के लिए कष्टदायी कौन?
- 145 आठ कर्मों में किस कर्म को जीतना कठिन है?
- 146 कर्मों की मुख्य कितनी अवस्थाएँ हैं?
- 147 कर्मों के शुभाशुभ फलोपभोग को क्या कहते हैं?
- 148 बीज बोते ही क्या नहीं मिलता?
- 149 कृत कर्म परिपाक हुए वगर क्या नहीं मिलता?
- 150 आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं?
151. सरलता का पर्याय वाची शब्द क्या है?
152. निर्दोषता, पारदर्शिता किसके सहवासी है?
153. सदाचार की आधार भूमि क्या है?
154. भीतर और बाहर एक रूपता किसकी निशानी है?
155. किसका अन्तःकरण पावन एव शुद्ध रहता है?
156. कुटिलता किससे दूर रहती है?
157. सहज स्पष्ट कथन किसका रहता है?
158. किसके मन वचन और आचरण में भिन्नता रहती है?
159. दम्भ मात्र किसकी पोशाक है?
- 160 निर्ग्रन्थ की दृष्टि कैसी रहती है?
161. कुटिलों के साथ सरलता का व्यवहार क्या नहीं?
- 162 किसके बिना एकाग्रता का मूल्य नहीं है?
163. सत्संगति का प्रतिफल कब तक नहीं मिलता?
164. तिर्यच योनि का मुख्य कारण क्या है?
165. कौन अपने उद्गम स्थान पर पवित्र रहती है?
166. बिना सरलता के क्या नहीं टिकता?
- 167 सत्य के अभाव में क्या नहीं रहता?
- 168 बिना श्रद्धा के क्या नहीं होती?
169. मर मर कर हारा, मैं, पर कौन नहीं मरा?
170. अहंकार दूर हटते ही जीवन में क्या आती है?
171. सरलता नहीं वहाँ क्या नहीं रहती?
172. लज्जापन विशेष कौन दिखाता है?

- 73 मायावी दूसरों को क्या देता है?
- 74 धर्म का निवास किसमें है?
- 75 ऊपर से मधुर और अन्दर से वक्र कौन?
76. कौन शुद्ध रह सकता है?
- 77 छल प्रपच पाखण्ड किसकी सन्तान है?
- 78 अविस्वादी आत्मा किसका सच्चा आराधक है?
- 179 कौन गुणों का मूल्यांकन नहीं कर सकता?
- 180 गुणवान पुरुष ही गुणवानों से क्या कर सकता है?
- 181 समकित किसकी चली जाती है? मिथ्यात्व कौन पाता है?
182. भ. मल्लिनाथ को स्त्री पर्याय क्यों मिली?
- 183 कौन सबको अपने समान देखता एवं समझता है?
- 184 शास्त्रों को विधियुक्त पढ़ना क्या कहलाता है?
- 185 स्व-जीवन का अध्ययन क्या है?
- 186 जिज्ञासु भाव से ज्ञान उपासना करना क्या है?
- 187 स्वाध्याय कौन से तप का भेद है?
- 188 स्वाध्याय के कितने भेद हैं?
- 189 दुःख और क्लेश को व्यक्ति कहा भूल जाता है?
- 190 स्वाध्याय रामी कौनसा आनंद पाता है?
- 191 स्वाध्याय का प्रबल शत्रु कौन?
- 192 ज्ञान वृद्धि के लिए किसकी स्वाध्याय करना?
- 193 दर्शन एवं चरित्र शुद्धि के लिए क्या जरूरी हैं?
- 194 विग्रह शांति हेतु क्या आवश्यक है?
- 195 दुःख विमोचक कौन है?
196. ज्ञान के बाद क्या होना चाहिए?
- 197 किसके समान कोई तप नहीं है?
- 198 स्वाध्याय से क्या होता है?
199. रात्रि के प्रथम पहर में क्या करना चाहिए?
- 200 पर पदार्थों का ज्ञान क्या कहलाता है?
- 201 अज्ञान रोग नाशक जड़ी संजीवनी क्या है?
- 202 स्व-पर प्रकाशक कौन है?

- 203 पांच ज्ञान में कौनसा ज्ञान श्रेष्ठ है?
204. चिन्तन मनन कौन करता है?
- 205 आंख मूद कर बिना विचारे कौन चलता है?
- 206 ज्ञानाभाव में जीवन किससे घिरा रहता है?
207. जीवन परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है?
208. श्रुत ज्ञान का अपूर्व लाभ कब होता है?
209. चित्त की चंचलता किससे मिटती है?
210. कौन स्थिर रह कर पर को स्थिर कर सकता है?
- 211 किसके होने से ध्यान साधना सहज होती है?
- 212 सत्सगति से बढ़कर क्या है?
213. हरक्षण क्या संभव नहीं है?
214. किसका पठन-पाठन हर क्षण संभव है?
215. जीवन का अभिन्न मित्र कौन रह सकते हैं?
216. सत्साहित्य ज्ञानियों की जीवित क्या है?
217. सत्साहित्य को खोलते है तो वे क्या करते हैं?
218. स्वाध्याय करते ही अगले क्षण क्या होता है?
219. धर्म कथा से अनन्त कर्मों की क्या होती है?
220. स्वाध्याय करने से क्या सुलझते हैं?
221. स्वाध्याय के पहले चार भेद से किसे लाभ होता है?
222. अस्वाध्याय के कितने कारण हैं?
223. जीवन जीने की कला का विकास किससे होता है?
- 224 स्वाध्याय किससे संभवित है?
225. किसके बिना रागद्वेष की गांठे नहीं खुलती?
- 226 तत्त्व ज्ञान किसलिए जरूरी है?
227. सद्ज्ञान के बिना मन क्या है?
228. कौन भव भ्रमण नही करता है?
229. स्वाध्याय तरंगे गहरी उतर किसे जन्म देती हैं?
230. श्रेष्ठ ग्रन्थ है वहां स्वतः क्या उतरता है?
231. ईमानदारी की आय में संतुष्ट रहना क्या है?
232. संतोष जीवन में कैसे ठहरता है?

33. जीवन का सर्वोत्कृष्ट धन क्या है?
34. त्रयलोक सपदा से भी कौनसी खोपडी नहीं मरती?
35. कौन पाप कार्यो में लिप्त नहीं होता है?
36. लोभ विजय से जीवन में क्या मिलता है?
37. संतोष का उद्गम स्थान क्या है?
38. सतोष किसके विपरीत है?
39. प्राकृतिक दौलत क्या है?
40. सुख का मूल क्या है?
41. हर परिस्थिति में प्रसन्न कौन रहता है?
42. किसके बन्धन में बंधा व्यक्ति दुःख उठाता है?
43. सतोष किसके समान है?
44. सतोष रूपी कड़वे वृक्ष पर फल कैसे आते हैं?
45. शाहशाह की भी परवाह कौन नहीं करता?
46. दुनियां दौलत में मैं तुझ में क्या हूँ?
47. मोह माया में लिप्त न होना क्या है?
48. खरीदने की वस्तु क्या नहीं है?
49. आत्मा की प्रशान्त निर्मल वृत्ति को क्या कहते है?
50. मोह और क्षोभ रहित आत्म परिणाम क्या कहलाते है?
51. आत्म प्रभुत्व बढ़ाने का प्रथम सौपान कौनसा है?
52. समत्व प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है?
53. समभाव में रमण करना क्या है?
54. समत्व को क्या कहा गया है?
55. श्रमण किससे होता है?
56. पर गुणों स्वदोषों को न देखना किसकी बुनियाद है?
57. समता का आधार सूत्र क्या है?
58. समता का मूल कारण क्या है?
59. सामायिक की क्रिया किसका फिल्ड है?
60. जीओं और जीने दो का सिद्धान्त क्या सिखाता है?
61. किसी से न मित्रता न शत्रुता कब होती है?
62. स्व दोष दर्शन से कौनसी आदत छूटती है?

263. समता किसका स्वभाव है?
264. विषमता किसका स्वभाव है?
265. जीवन का सर्जन कौन करती है?
266. विनाश के कगार पर कौन खडा कर देती है?
267. ससार में किन भावों से रहना चाहिए?
268. ससार में कौन विरला ही मिलता है?
269. निदा प्रशसा में हर्ष शोक न करने वाला कौन?
270. इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग में क्या रखनी चाहिए?
271. आध्यात्मिक समता किन भावों से युक्त होती है?
272. समता जीवन में कब विकसित होती है?
273. निष्काम भाव से सहयोग देना क्या है?
274. सेवा का उद्गम स्थल कौन-सा है?
275. प्रभु मिलन का प्रथम सौपान क्या है?
276. सेवा में अपने आप पर क्या रखना पड़ता है?
277. स्वार्थ कामना और दुर्भावनाओं से किसमें हटा जाता है?
278. किसकी सेवा से प्रभुवर रीझते हैं?
279. सेवा करने वाला जीवन में क्या पाता है?
280. कोई मानव सेवा कब कर सकता है?
281. रूग्ण दीन हीन की सेवा किसकी सेवा है?
282. किस वेश में कौन मिले अतः आगन्तुक से कैसे मिलो?
283. परोपकार में क्या छिपा हुआ है?
284. सेवा की उत्कृष्ट भावना से क्या बंध सकता है?
285. दुःख दर्द का जाल किससे कटता है?
286. सेवा का संबध किससे रहा है?
287. भावना होने से बिना पद के भी क्या हो जाती है?
288. अपना कर्तव्य समझ निष्काम भाव से क्या करनी चाहिए?
289. आत्मीयता का क्रियात्मक रूप क्या है?
290. आत्मीयता के भावों में कमी किससे आती है?
291. राग भाव का दूसरा रूप क्या है?
292. भोग जन्म सुखों में क्या रही है?

- 293 सेवा से प्राप्त सुख सदा कैसा रहता है?
- 294 मात्र वाचालता से क्या नहीं होती है?
- 295 इस ससार में दुर्लभ क्या है?
- 296 सत्य की संगत क्या है?
- 297 परम और चरम सत्य में स्वचेतना को लीन करना क्या?
- 298 काल शोकरिक पुत्र सुलस किसके सग से दयालु बना?
- 299 कदली पत्र पर गिरि स्वाति बूद क्या बन जाती है?
300. सीप मुंह में गिरि स्वाति बूंद क्या बन जाती है?
301. सर्पमुंह में गिरि स्वाति बूद क्या बन जाती है?
302. सत्सग स्वर्ग समान क्या है?
303. सुआचार विचार वालों की क्या करनी चाहिए?
304. ससार सागर से तिराने नौका सदृश कौन है?
305. कभी भी खाली नहीं जाती है?
306. बौद्धिक जड़ता को नष्ट कौन करती है?
307. सम्मान बढ़ाती, पाप को कौन मिटाती है?
308. सत्संग से आत्म कल्याण का मार्ग क्या होता है?
309. सत्संगति के बिना क्या नहीं रहता?
310. आसक्ति न होने से सत्संग तत्काल क्या होता है?
311. भव व्याधि को कौन हरती है?
312. किसकी संगत से आठों पहर उपाधि रहती है?
313. बद अच्छा मगर बुरा क्या है?
314. सत्संग के आगे कौनसा सुख फीका है?
315. क्रोधावेश को निगल जाना क्या है?
316. क्षमा सिद्धान्त को श्रेष्ठ मानता है पर अपनाता कौन नहीं?
- 317 क्षमा को जीवन में अपनाने वाला क्या है?
- 318 किसका जीवन क्षमा से ओत प्रोत रहता है?
- 319 क्षमा किसका आभूषण है?
- 320 समभाव और क्षमा एक दूसरे के क्या है?
- 321 अन्तर का पश्चाताप मन का क्लेश किससे मिटता है?
322. क्षमावान् व्यक्ति कैसा होता है?

323. क्रोध विहीन व्यक्ति कब होता है?
324. क्षमा किसका भव्य द्वार है?
325. भूल इन्सान करता है क्षमा कौन करता है?
326. किस वृक्ष पर ज्ञान के फल लगते हैं?
327. क्षमा किसके शोभती है?
328. अन्तर्हृदय की दिव्य ज्योति क्या है?
329. क्षमा सृष्टि का क्या है?
330. पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है?
331. अपराध को भूल अपराधी के प्रति मंगल कामना क्या?
332. नम्रता, सरलता, विनय शीलता किससे बढ़ते हैं?
333. क्षमा से मान गलता है क्या पान होता है?
334. किससे बढ़कर कोई साधना नहीं?
335. शस्त्र एक से एक बढ़कर है पर अशस्त्र किससे बढ़कर नहीं?
336. पर भूलों को भूलना क्षमा जितना ही क्या है?
337. अपराधी को दण्डित करने से क्या नहीं मिटती?
338. प्रतिकूलता में स्वस्थ संतुलित रहना क्या है?
339. क्षमा रहित जीवन कैसा रहता है?
340. कुटिल वचनों को कौन सहते हैं?
341. मैत्री रखने वाला किसी के प्रति क्या नहीं रखता?
342. जहां क्षमा है वहां कौन विद्यमान है?
343. क्षमा से दूर रहा अहं व्यक्ति को क्या बना देता है?
344. उच्चात्मा क्षमा से किसे जीतता है?
345. दुश्मन को 17 बार बदी बना किस राजा ने छोड़ दिया?
346. सज्जन पुरुष किसका आचरण करते हैं?
347. क्षमा का द्वार कब खुलता है?
348. संकल्प विकल्प किसमें उत्पन्न होते हैं?
349. मन को चंचल कौन बनाता है?
350. विषय में भटकने वाला मन कैसा है?
351. इधर-उधर आने-जाने वाला मन कैसा है?
352. अन्दर में ठहरने वाला मन कैसा है?



353. कर्म योगाभ्यास से मन का कौनसा दोष दूर होता है?
354. उपासना से मन का कौनसा दोष दूर होता है?
355. ज्ञानयोग से मन का कौनसा दोष हटता है?
356. शुभचिन्तन से मन का क्या बनता है?
357. मन को जीतने वाला किसको जीत लेता है?
358. अभ्यास और वैराग्य से कौन वश में होता है?
359. मन की सम्यक्तया जानने वाला कौन?
360. मूढ नर को कौन खींचता रहता है?
361. मन ज्ञान सागर तो वाणी ज्ञान की क्या है?
362. मन का ज्ञाता मन का क्या है?
363. किस तुरंग पर विरला ही सवार हो पाता है?
364. विश्व कर्मा का पुत्र कौन?
365. विचार के अनुसार क्या बनता है?
366. मानसिक प्रसन्नता सर्व सिद्धियों का क्या है?
367. मन को अस्वस्थ कौन बनाये रखती है?
368. मन के बिगड़ते ही क्या बिगड़ जाता है?
369. मन के विचारों को सुनने में बाधक कौन?
370. कौन जीवन का कल्याण करते हैं?
371. हरि रूठे ठोर कहां हैं?
372. गुरु को अपना नहीं पराया कौन समझते हैं?
373. गुरु के उपकार को कौन नहीं मानता?
374. गुरु की तुलना किससे की है?
375. गुरु के समक्ष कैसे रहना चाहिए?
376. गुरु आज्ञाओं को क्या करना चाहिए?
377. पुष्प गंध सम किसमें घुलना चाहिए?
378. पुण्यशाली पुरुषों के कितने उत्तम लक्षण होते हैं?
379. बलदेव वासुदेव के शुभ लक्षण कितने होते हैं?
380. तीर्थंकर देवों के उत्तम लक्षण कितने होते हैं?
381. सत्संग का सुख कहाँ नहीं है?
382. किसकी संगत से सज्जन का भी महत्त्व घटता है?

383. महा पुरूषों को पहचानना क्या है?
384. गंगा किसको दूर करती है?
385. शशी किसका हरण करती है?
386. कल्प वृक्ष किसको चूर करता है?
387. पाप ताप दीनता को दूर कौन करता है?
388. कौन अकेला होने पर भी सुमार्ग खोज लेता है?
389. सत्संगति सम दूसरा क्या नहीं है?
390. किसकी करूणा भी अन्ततः बुरी है?
391. किसकी क्षणिक संगति भव भवान्तरों की नाशक है?
392. किसकी संगति में कुशलता नहीं रहती?
393. योग संवरण इन्द्रिय नियंत्रण से क्या होता है?
394. संयम का दूसरा नाम क्या है?
395. जो आत्म संयमी नहीं वह क्या नहीं?
396. संयम से जीवन में क्या संचित होती है?
397. जीवन किससे महान् बनता है?
398. सीढियों से उतरने का मार्ग क्या है?
399. मनःसंयम से किनका निरोध होता है?
400. मिथ्या भाषण का दोष किसे नहीं लगता है?
401. कुमार्ग में कौन प्रवृत्ति नहीं करता?
402. मन की स्वीकृति से क्या होता है?
403. विवशता अथवा लाचारी में क्या होता है?
404. दमन किसका कारण है?
405. संस्कृति - किसका फल है?
406. संयम को और क्या कहते हैं?
407. संयम से जीव किसका निरोध करता है?
408. जो स्वशासी नहीं उसे पर की क्या करनी पड़ती है?
409. यौवनोन्माद में व्यक्ति क्या नहीं रख पाता?
410. मन हस्ती को किसके अंकुश में रखो?
411. चरित्र धर्म का प्रवेश द्वार क्या है?
412. मन को संयम में रखने वाला वस्तुतः क्या है?

413. कर्म व्याधि से स्वस्थ बनने की परम औषध क्या?
414. संयम के कितने भेद कहे हैं?
415. अनुपम सुख का अजस्त्र स्रोत क्या?
416. जीवन का आन्तरिक सौंदर्य क्या?
417. तीर्थकरों का दान किस नाम से प्रसिद्ध है?
418. दीन हीन पर दया करना कौनसा दान है?
419. किसके देने से धन नही घटता है?
420. वैभव पाने का सार क्या है?
421. विसर्जन का अर्थ क्या है?
422. कौन न स्वयं भयभीत होते हैं न पर को करते हैं?
423. वैराविरोध वैमनस्य भूल जीव कहां निर्भय रहते हैं?
424. ब्याज मे दो गुनी व्यापार में संपत्ति कितनी होती है?
425. जीवन मे किसकी सीमा नहीं है?
426. दान से कितना गुणाधिक लाभ होता है?
427. कैसे दिया दान सीमातीत रहता है?
428. दान और सेवा में धनाक्षेपा किसकी विशेष जरूरत है?
429. सुपात्र दान कितने प्रकार का है?
430. दान दाता व पात्र दोनों कैसे होने चाहिए?
431. अर्पण कौन करता है?
432. न्यायोपार्जित किंचित दान भी क्या है?
433. दान भावना से जीर्ण सेठ किस भूमिका पर पहुंचा?
434. ब्रह्मा के द ध्वनि का आशय देवों ने क्या लिया?
435. असुरों ने द का अर्थ क्या लगाया?
436. मनुष्यों ने द का अर्थ क्या लगाया?
437. किस श्राविका ने सुपात्र दान से तीर्थकर गोत्र बांधा?
438. मिसरी के हीरे की उपमा किसे दी गयी है?
439. सुख में श्री कौन?
440. दुःख में श्री कौन?
441. सर्वदानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौनसा है?
442. सुख सुविधाओं का उपयोग कब नही होता?

443. देवलोक में कौन सी प्रवृत्ति नहीं होती?
444. दान दाता को भाग्यशाली मान देव करते हैं?
445. दान देकर के क्या नहीं करना चाहिए?
446. धन होने पर दरिद्री कौन?
447. धन न हो उसे क्या कहते हैं?
448. किसी बात का मनन कौन करता है।
449. स्वर्ग-अपवर्ग सब कुछ कौन पा सकता है?
450. चारित्र्यार्थन किस भव में हो सकता है?
451. मानव जीवन की सफलता किसमें है?
452. मानव के हृदय सरवर में खिलने वाला सुन्दरतम पुष्प क्या?
453. नर जन्म सफल न करना वेद दृष्टि से क्या?
454. नर भव, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल को कौन तरसते हैं?
455. नरजन्म में किसकी प्राप्ति कठिन है?
456. जीवन के सुसंस्कार, सदगुण, सदा चरण क्या है?
457. प्रत्येक मनुष्य स्वयं में एक क्या है?
458. पर दर्द को स्व दर्द मान कौन मिटा सकता है?
459. मनुष्य का मानव बनना क्या है?
460. मानव से महामानव बनना उसका क्या है?
461. मानव से दानव बनना उसकी क्या है?
462. चिंतामणि पाकर दरिद्री रहना क्या है?
463. मनुष्यों में आज क्या नहीं मिलती?
464. मिट्टी के समान जीवन कब है?
465. मनुष्य कितने गुणस्थान का स्पर्श कर सकता है?
466. नर में क्या बनने की शक्ति विद्यमान है?
467. महान् पुण्य से क्या मिलता है?
468. देवता भी किस मानव को नमन करते हैं?
469. फरिश्ता होना सहज है मगर क्या बनना कठिन है?
470. इस संसार में सार वस्तु क्या है?
471. इस जीवन रथ का सारथी कौन है?
472. अनुग्रह हेतु स्व वस्तु को दे देना क्या?

- 473 देश काल पात्र देखकर उदारता से देना कैसा दान है?
- 474 फलाकांक्षा से दान करना कौनसा दान है?
- 475 अपमान सहित या कुपात्र दान कैसा दान है?
- 476 अन्न दान का दूसरा नाम क्या है?
- 477 ज्ञान दान का दूसरा नाम क्या है?
- 478 अभय दान का दूसरा नाम क्या है?
479. औषध दान का दूसरा नाम क्या है?
480. दान कितने प्रकार का कहा गया है?
481. तीर्थंकरों का प्रथम उपदेश क्या?
482. प्राणियों के लिए अमृत समान क्या है?
483. भागवत पुराण में किसे परम पद कहा है?
484. यतना से क्रिया करने से कौनसा पाप नहीं लगता?
485. किसके बिना अन्य व्रत नहीं ठहरते?
486. किसका क्षेत्र व्यापक है?
487. शांति का साम्राज्य किससे स्थापित हो सकता है?
488. अहिंसा का विचार पक्ष कौन सा है?
489. अहिंसा का व्यवहार पक्ष क्या है?
490. किसी को आघात न पहुंचाना अहिंसा का कौनसा पक्ष है?
491. आत्मवत् सर्व भूतेषु की भावना अहिंसा का कौनसा पक्ष है?
- 492 मन को किन भावों से बचाना जरूरी है?
493. हिंसात्मक भावनाएं कहां पनपती हैं?
494. किसी का न बुरा सोचना न करना क्या है?
495. प्रमाद और कषाय वश किसी के प्राण लूटना क्या है?
496. अन्य प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना क्या है?
- 497 आत्मा के शुभ परिणामों की घात न करना क्या है?
498. श्रेष्ठ मंगल मय धर्म क्या है?
499. मैत्री और करुणा भाव से किसका विकास होता है?
- 500 प्रमाद, त्याग और संयम से कौन शुरू होती है?
- 501 अहिंसा की सच्ची कसौटी क्या है?
502. अहिंसा की पालना में बाधक कौन?

- 503 सभी प्राणी क्या चाहते हैं?
- 504 जीना किसका जन्म सिद्ध अधिकार हैं?
- 505 जीवों पर दया न करने वाला क्या पाता हैं?
- 506 दया किसका मूल हैं?
507. अहिंसा को भगवती किस शास्त्र मे कहा हैं?
508. अभय मैत्री आश्वासन क्षमादि किसके विकसित रूप हैं?
509. किसी को मारने का इरादा करना कौनसी हिंसा है?
- 510 चूल्हे चौके आदि कार्यों में हुई हिंसा क्या कहलाती है?
511. श्वेत उद्योगादि में कार्यों में हुई हिंसा क्या कहलाती है?
512. अन्याय का प्रतिकार एवं सुरक्षा में होने वाली हिंसा क्या?
513. संकल्प कर निरपराध को न मारने का त्यागी कौन हैं?
514. राग द्वेष से सर्वथा विलग कौन रहते हैं?
515. अपने मन में दुर्भाव कौन नहीं रखते?
516. हिंसा के परिपूर्ण त्यागी कौन होते हैं?
517. श्रावक का पहला अणुव्रत क्या हैं?
518. अहिंसा किस का प्राण है?
- 519 सत्य दर्शन का सुगम एवं लघु मार्ग क्या?
520. भयभीतों के लिए शरण सदृश कौन?
521. सर्व प्राणियों का कल्याण करने वाली कौन?
- 522 न्याय-नीति रक्षार्थ चेटक ने कौणिक से क्या किया?
523. आज दुःखियों को क्या किया जाता हैं? .
524. कटुवचन के विष बुझे तीर कौन बरसाता हैं?
525. मानवता को तिलाञ्जलि कौन दे देता हैं?
526. कुक्कुट रक्षा मे स्व प्राण किसने त्यागे?
527. किसमे अपवाद हो सकता है?
528. किसका अस्तित्व त्रिकाल निरपेक्ष है?
529. मनसा वाचा कर्मणा एक रूप होना क्या हैं?
530. कौन अवश्यमेव भगवान हैं?
531. सत्य का निवास कहां हैं?
532. सत्य का मूल्य क्या हैं?



- 533 असत्य एव मिश्र भाषा किसको नहीं बोलनी चाहिए?
534. प्राणियों के हितकर क्या हैं?
- 535 चारित्र गुण किसकी पर्याय हैं?
536. तथ्य में किसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता?
- 537 हितकर विचार प्राणियों के लिए क्या हैं?
538. सत्यमय होकर सबके साथ क्या रखो?
539. आघात जन्य भाषा क्यों नहीं बोलनी चाहिए?
- 540 पाप वर्धक प्रेरणा दायी वचन क्या कहलाते हैं?
541. वैमनस्यकारी भेदोत्पादक वचन कैसे लगते हैं?
542. संसार में सत्य सम क्या नहीं है?
543. जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में कौन बसते हैं?
544. दानव को मानव, मानव को भगवान कौन बनाता हैं?
545. बुराई ही बुराई किसकी शरण में रहते हैं?
546. प्रेम किसके आश्रय से नष्ट हो जाता है?
547. किसी के प्रति कुत्सित भाव न रखना क्या है?
548. यथार्थ कहना समझना क्या है?
549. कथनानुसार हित प्रद आचरण क्या है?
550. समय से भी मूल्यवान कौन?
551. हित-मित प्रिय बोलो मगर कैसा?
552. किसको जाने वगर सत्य बोलना संभव नहीं?
553. सत्य किसका आभूषण है?
554. सत्याचरण से जीवन की क्या बनती है?
555. सत्य न बोल सके तो क्या अच्छा?
556. सुख और आनंद का स्रोत क्या?
557. आत्म सौंदर्य किससे प्रकट होता है?
558. सत्य धारण कर आत्मा क्या बन जाती है?
559. कौन पूर्ण है और पूर्ण ही पालना पडता है?
560. किसके बिना जीवन चल सकता है?
561. दृष्टि विशुद्ध पर किसका दर्शन होता है?
562. कौनसा सत्य सदा सत्य नहीं होता?

- 563 भाव सत्य ही वास्तव में क्या है?
- 564 किसे जाने माने तदनुरूप बने बिन मुक्ति नहीं होती ?
- 565 राष्ट्रीय मुद्रा में किसका महत्व अंकित है?
- 566 किसकी सदा ही विजय होती है?
- 567 वगर दी वस्तु लेना क्या है?
- 568 अदत्तादान का अर्थ क्या है?
569. अपयश बढ़ाने वाला अनार्य कर्म कौनसा है?
- 570 किससे विद्या निकम्मी हो जाती है?
- 571 प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोरी के कितने नाम गिनाए हैं?
- 572 लोभ में फंसा व्यक्ति क्या करता है?
573. कुलीनता, शालीनता, धर्म सस्कृति को ताक में कौन रख देता है?
- 574 क्या करने से सद्गुण छिपते हैं?
- 575 झूठ और चोरी दोनों युगल क्या है?
- 576 चोर चोर की क्या करता है?
577. परलोक के प्रति निरपेक्ष कौन रहता है?
578. परधन हर्ता क्या कहलाता है?
579. चोर को प्रोत्साहन देने वाला चोर से अधिक क्या?
- 580 पकड़े जाने का खतरा किसे बना रहता है?
- 581 सर्वोत्तम तीर्थ कौनसा है?
- 582 स्वदार-संतोष व्रत का नाम क्या है?
583. कामा चार का त्याग करना क्या कहलाता है?
584. आत्म स्वरूप में रमण करना क्या है?
585. रसनेन्द्रिय वश से किस व्रत की पालना सुगम होती है?
- 586 ब्रह्मचर्याश्रम का स्थान कौनसा है?
- 587 कौन आजीवन शक्तिशाली एवं प्रतापी रहता है?
- 588 सब तपों में सर्वश्रेष्ठ तप क्या?
- 589 कुल की शोभा किससे बढ़ती है?
- 590 पर नारी से सदैव किसका भय रहता है?
591. किसके अमर्यादित सेवन से स्वास्थ्य नष्ट होता है?




- 592 काम की दवा क्या है?
- 593 आत्म शक्तियों के केन्द्रित होने से क्या बढ़ती है?
- 594 ब्रह्मचर्य और तप से देवों ने किसका नाश किया?
- 595 कामी पुरुष कैसा होता है?
- 596 बिना जल का स्नान क्या है?
- 597 नवबाड किसकी सुरक्षा के लिए कही?
598. दो घड़ी ब्रह्मचारी किसके बैठे स्थान पर न बैठे?
599. ब्रह्मचारी स्वभाविक रूप से क्या है?
600. कौन लाखों करोड़ों में कोईक होता है?
601. आलिगन कर्म किसके बिना नहीं होता है?
602. ब्रह्मचारी को कैसा आहार लेना चाहिए?
603. शील रक्षाकर सुर पद किसने पाया?
604. पहले दूसरे देवलोक में मानववत् क्या होता है?
605. तीसरे चौथे देवलोक में भोग लालसा कैसे पूर्ण होती है?
- 606 पांचवे छठे देवलोक में काम पूर्ति कैसे होती है?
607. सातवें आठवें देवलोक में काम पूर्ति कैसे करते है?
608. यह संसार किससे बंधा हुआ है?
609. किस धन से ईमानदार की गरीबी अच्छी?
- 610 वस्तुओं पर स्वामीत्व-ममत्व रखना क्या है?
611. परिग्रह वस्तुतः क्या है?
- 612 काया के प्रति क्या रहती है?
- 613 माया के प्रति क्या रहता है?
- 614 स्वरूप प्रति जागृत ससार के प्रति कैसा रहता है?
615. कौन नये कर्मों का संचय नहीं करता?
- 616 चौदह प्रकार का क्या है?
- 617 मूर्च्छा परिग्रह है तो जागृति क्या है?
618. माया जाल को कौन काटती है?
- 619 नव प्रकार का कौन सा परिग्रह है?
620. अभाव की तरह प्रचुरता भी मानव का क्या करती है?
621. परिग्रह रूप वृक्ष की जड़ क्या है?

622. बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों आवश्यक है?
623. विपत्ति से बचने क्या बचाना चाहिए?
624. धन से किसको बचाना चाहिए?
625. स्त्री और धन से किसको बचाना चाहिए?
626. एक बार उपयोग आने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं?
627. बार-बार उपयोग में आने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं?
628. कौन सी वृत्ति सुखकर नहीं रहती?
629. धनवान होने पर क्या नहीं करना चाहिए?
630. कोशिश के बावजूद इच्छित वस्तु न मिले तो क्या नहीं करना?
631. धतूरे से सौ गुणा अधिक मादक कौन?
632. किसको पाकर व्यक्ति फूला नहीं समाता?
633. किसे खाने पर नशा आता है?
634. आत्मा को सर्व और से जकड़कर कौन बांधता है?
635. कौन उन्नतिशील दिखने पर भी डूबता जाता है?
636. पाप संताप का बाप संघर्ष का मूल क्या?
637. किसके अभाव और विपुलता में व्यक्ति दुःखी रहता है?
638. माया के चक्कर में व्यक्ति क्या भूल जाता है?
639. कौन जीवन में निर्भय नहीं रहता?
640. परिग्रह सज्ञा सबसे कम किनमें पाती है?
641. परिग्रह सज्ञा सर्वाधिक किनमें है?
642. परिग्रह के सर्वथा सम्पूर्णतः त्यागी कौन?
643. एक करण तीन योग से परिग्रह की मर्यादा किसके?
644. तीव्र धनाकाक्षी का जीवन क्या नहीं रहता?
645. अन्याय अनीति को कौन नहीं देखता?
646. इच्छा का संबध किससे है?
647. आवश्यकता किससे सबध रखती है?
648. वस्तु के न होने पर भी क्या रहती है?
649. मां को बच्चे के प्रति क्या रहता है?
650. वस्तु का उपयोग न कर कष्ट उठाना क्या है?

- 651 उपभोग परिणाम व्रत किसका क्रियात्मक पक्ष है?
- 652 आय और साधनों के उपयोग पर नियंत्रक कौनसा व्रत है?
- 653 स्वेच्छा से सीमा बाधने से क्या नही होता?
- 654 विग्रह किससे शनै-2 पनपते हैं?
- 655 पैसे के व्यापारी किसकी सौगंध खा सकता है?
656. पेटी भरने की लालसा क्या है?
- 657 वैभव की प्रचुरता सत्ता व तरूणाई में स्वपर क्या नहीं रहता?
- 658 ससार के दुःखों, द्वन्द्वों, फदों से कौन बचा सकता है?
659. संग्रह वृत्ति से क्या होता है?
660. किसकी सुरक्षा के लिए रात्रि भोजन त्याग जरूरी है?
- 661 एक माह में 15 दिन का सहज तप किससे?
662. बौद्ध मत के किस ग्रन्थ में रात्रि खान-पान निषेध है?
- 663 निशीध में निशा भोजी श्रमण का क्या प्रायश्चित बताया?
664. रात्रि भोजन छोड़ना क्या है?
665. रात्रि भाजन से पाचन तंत्र क्या हो जाता है?
666. श्रावक की छट्टी प्रतिमा का नाम समन्त भद्र ने क्या रखा?
667. रात्रि भोजन किसका कारण है?
- 668 रात्रि को किसकी उपमा दी गयी है?
- 669 शयन से तीन घंटे पूर्व भोजन करना कैसा है?
670. आत्मा और कर्म की सयोजक प्रवृत्ति क्या?
671. लेश्या का अर्थ क्या है?
672. कृष्ण नील कापोत लेश्या कैसी है?
- 673 मनोभाव, चित्तवृत्ति, अध्वसाय ये किसके नाम है?
- 674 तेजो लेश्या का दूसरा नाम क्या है?
- 675 किस लेश्या में सदाचार का तेज दमकता है?
- 676 दुषित कलुषित अभद्र वृत्ति किस लेश्या में रहती है?
- 677 उत्थान और पतन का मूलाधार क्या है?
678. भावों की निर्मलता और मलीनता का आधार क्या है?
679. अपने विचारों को सदैव कैसा रखना चाहिए?
680. कपाय की मदता से परिणाम कैसे रहते है?

भाग-5-6

1. विवेक शून्य आवेश क्या कहलाता है?
2. स्वभाव को विभाव में कौन बदलता है?
3. अर्हतर्षि तारायण ने चौदह उपमाएं किसे दी?
4. क्रोध कहां रहता है?
5. क्रोध की जड़ क्या है?
6. क्रोध का परिणाम क्या है?
7. अहं को चोट पहुंचते ही क्या भड़कता है?
8. क्रोध पर अंकुश कब लगता है?
9. क्रोध के आते ही तन मन में क्या छा जाता है?
10. विवेक दीप को कौन बुझा देता है?
11. क्रोध को किसकी संज्ञा दी गयी है?
12. अपना आपा कौन खो बैठता है?
13. क्रोध से क्या नष्ट होती है?
14. क्रोधी से क्या नहीं हो सकती?
15. किसके प्रवेश करते ही आखे बंद मुंह खुलता है?
16. क्रोध में व्यक्ति कैसा रहता है?
17. अकरणीय कार्य व्यक्ति कर गुजरता है?
18. क्रोधी का तन कैसा रहता है?
19. गुस्सा अधिक किसे आता है?
20. आवेश में रक्त कैसा बन जाता है?
21. क्रोध का आक्रमण प्रथम किस पर होता है?
22. किस समय ज्ञानी अज्ञानी में अन्तर नहीं रहता?
23. सत्य शीलाचार कब नष्ट हो जाते हैं?
24. पत्थर की दरार सम कौनसा क्रोध है?
25. सूखे तलाब की दरार समान कौनसा क्रोध है?
26. अनंतानुबधी क्रोध कब तक रहता है?
27. अप्रत्याख्यानी क्रोध कब तक रहता है?

- 
- 28 किस क्रोध में कर्मों का बन्ध न्यून होता है?
 - 29 न बोलने से आया गुस्सा क्या हो जाता है?
 - 30 अग्नि ज्वाला सम कौन हैं?
 - 31 स्व-पर दाहक कौनसी अग्नि हैं?
 - 32 कौन कभी भी सुखी नहीं रहता?
 - 33 क्रोध किस ध्यान का उत्पादक है?
 - 34 अपने को बड़ा दूसरों को छोटा कौन समझता है?
 - 35 अधिकार विद्या धनादि से क्या उत्पन्न होता है?
 - 36 अहंकार को उर्दु में क्या कहते हैं?
 - 37 क्रोध की उत्पत्ति किससे होती है?
 38. क्रोध का अन्त कहां पर होता है?
 - 39 कौनसी बुराई भी अच्छाई लगती है?
 40. प्रशंसा से किसकी पुष्टि होती है?
 41. मान का निवास स्थान क्या है?
 42. अहंकार से व्यक्ति स्व में फूल सकता पर क्या नहीं हो सकता?
 43. अहंकारी किसके अयोग्य है?
 44. अहंकार से रूकती क्या है?
 - 45 अहंकार से कौन सा गुण नष्ट होता है?
 - 46 अहंकार से क्या जलदी रहती है?
 47. सूर्योदय होते ही क्या चला जाता है?
 - 48 गुरु के ज्ञान देते ही क्या चली जाती है?
 - 49 अतिलोभ की जागृति से क्या चली जाती है?
 50. अभिमान के आते ही क्या चली जाती है?
 51. कुबुद्धि और ज्ञान में परस्पर क्या है?
 - 52 विनम्रता विकास की क्या है?
 - 53 कौन सबको खा जाता है?
 54. स्वार्थी और सकीर्ण कौन बनाता है?
 - 55 अभिमान करना किसका लक्षण है?
 56. स्वगुण और योग्यता को न परखने से क्या होता है?

- 57 पाप का मूल क्या है?
- 58 शरीर से कई गुणाधिक अहं कहां रहता है?
- 59 अहंकारी पुरुष का स्वभाव कैसा रहता है?
60. अहंकारी व्यक्ति किसी की क्या नहीं सुन सकता?
61. पद, वैभव और प्रभुता पाकर व्यक्ति किसमें झूम उठता है?
62. किस कार्य का कभी विज्ञापन नहीं करना चाहिए?
- 63 सत्कृत्यों का विज्ञापन करने से क्या नष्ट होता है?
64. कृत कार्यों के विज्ञापन में किसकी भूख है?
65. रूप किसकी सध्या में ढल जाता है?
66. कौन सा साधक जन साधारण में घुलता मिलता नहीं है?
67. अहंकारी के सब क्या बनते हैं?
68. कौन सोचता है मेरा जैसा कोई नहीं है?
69. एकान्त प्रिय फक्कड़ साधक को अभिमानी कहना क्या है?
70. मान त्यागते ही अप्रतिपाती ज्ञान के धारक कौन हुए?
71. संसार में वैभव को क्या कहते हैं?
72. छल प्रपंच को क्या कहते हैं?
73. जीवन व्यवहार की द्विरूपता क्या कहलाती है?
74. माया कौ किससे जीत सकते हैं?
75. मायावी व प्रमादी बार-बार क्या धारण करते हैं?
76. कौन नाना रूपों का प्रदर्शन करता है?
77. इच्छाओं के बढ़ने से क्या बढ़ती हैं?
78. इच्छापूर्ति हेतु व्यक्ति किस को छोड़ देता है?
79. 18 पाप स्थानों में माया कौनसा पाप है?
80. कौन छिपे रूप में अपना कार्य करती है?
81. माया किसकी मित्र है?
82. माया किसकी दुश्मन है?
83. अचानक आक्रमण कौन करती है?
84. माया करने वाला कौन सी गति पाता है?
85. आत्म पतन के साथ दुर्गति कौन करती है?
86. किस स्थान एवं व्यक्ति से दूर रहना चाहिए?

- 87 किसका व्यवहार मधुर एव सौहार्दपूर्ण रहता है?
- 88 आज कल माया से क्या मिलती है?
- 89 घन चुम्बकवत् माया को कौन खींचती है?
- 90 कौन बाह में बांह डाल मिलते हैं?
91. माया किसकी जननी है?
92. कौन अपने बुने जाल में मकड़ीवत् फंस जाता है?
93. मायावी को किसका सहारा लेना पड़ता है?
94. माया के निकटतम सबधी कौन?
- 95 दम्भ तो मात्र किसकी पौषाक है?
96. मुख कमल सा खिला वचन चन्दन सा पर हृदय में कैची किसके?
97. माया मे किसका वास है?
98. सुकृत्य पर पानी कौन फेरती है?
- 99 सारे जग को किसने लूटा?
100. जगत को किसने जीता?
101. मायावी का रिश्ता किससे नही रहता?
- 102 धर्म में आगे दुकान में ठगे कौन?
- 103 मीठा बोल-2 औरों को कौन फसाता है?
- 104 आलोचना की पावन क्रिया भी किससे दूषित बनती है?
- 105 स्वालोचना निंदा गहा भी शुद्ध नहीं होती है कब?
106. हीरे जवाहरात तिजोरी में रख माया को कैद किया या कैदी हुए?
107. आज सब किसके दास बने हुए हैं?
- 108 अनीति, अत्याचार खून करने में किसे संकोच नही रहता?
- 109 लोभ किसका बाप है?
- 110 स्वार्थ वश सब कुछ कोन कर सकता है?
111. सतोष से किसे जीत सकते हैं?
- 112 श्रद्धा, भक्ति, कर्त्तव्य सबको कौन भूल जाता है?
113. अशात हृदय किसका रहता है?
114. लोभी लालची बात-2 में क्या बोलता है?

115. लोभ वृत्ति के कारण किसे चैन नहीं था?
116. लोभ पर विजय किसने पायी?
117. आवश्यकता आगे बढ़ने पर क्या करती है?
118. जरूरत की पूर्ति हो सकती, किसकी नहीं हो सकती?
119. पतन की ओर मानव को कौन ले जाती है?
120. कौन भोग वासना और वैभव में लिप्त नहीं होता?
121. वेदनीय कर्मों को न बांध बंधे कर्म की निर्जरा करता है?
122. लोभ में शाप ताप के साथ-2 क्या छिपा है?
123. शान, आन, भगवान किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं?
124. लोभी का परमेश्वर कौन?
125. दान कौन दे नहीं सकता, देते को मूर्ख समझता है?
126. तृष्णा के मृगजाल में व्यक्ति कब फंसता है?
127. दमन सदैव क्या बनता है?
128. किसके सर्व सद्गुण नष्ट होते जाते हैं?
129. मानव को दानव कौन बना देती है?
130. नगण्य वस्तु के लिए कौन अनर्थ करता है?
131. दुःखों का द्वार क्या हैं?
132. अपने चहु ओर वैर वृद्धि कौन करता है?
133. अनंत ससार का अनुबंध कौनसा लोभ कराता है?
134. इसलोक और परलोक किसका बिगड़ता है?
135. इच्छापूर्ति होने पर शान्त न हो क्या हो जाती है?
136. विपत्ति न देख धन को कौन देखता है?
137. तृष्णा के कारण कौन दुःखी रहता है?
138. दाम के बिना कौन दुःखी है?
139. किसका अन्त सहज नहीं होता?
140. बिना पाल-बांध का सरोवर कौनसा है?
141. धन-संग्रह की तड़फ-रट किसकी रहती है?
142. धन-वैभव यश प्रतिष्ठा के लिए बावला कौन?
143. किसीकी आसक्ति में मानव स्व जीवन बिगाड़ लेता है?
144. तृष्णा किस नदी के समान कहलाती है?

- 145 कौन कभी भी वृद्ध नहीं बनती है?
- 146 किसका प्रवेश स्वर्ग में कठिन है?
- 147 मोक्ष मार्ग में बाधक कौन?
- 148 संसारी पदार्थ रमणीय कब लगते हैं?
- 149 सुख लालसा का बना रहना क्या है?
- 150 राग-द्वेष किससे उत्पन्न होते हैं?
- 151 राग अगर मुधर है वो देश कैसा है?
- 152 काम वासना के साधनों के प्रति राग क्या है?
- 153 कुटुम्ब मित्रादि से स्नेह रखना क्या है?
154. मनोज्ञरूपादि को देखने की आसक्ति क्या है?
155. कर्ण प्रिय राग रागणियां सुनना क्या है?
156. प्रशस्त राग किस गुणस्थान तक रहता है?
157. आत्मा को चोर पतन कौनसा राग करता है?
158. प्रेम राग के समान दूसरा क्या नहीं है?
159. भौरा कमल में बंद होने पर उसे काटता क्यों नहीं?
160. किस घाट पर संभलना मुश्किल है?
161. तन की नश्वरता के बावजूद मन का क्या नहीं जाता?
162. मनोज्ञ पदार्थ किन भावों के जनक है?
163. कामना की प्रबलता से क्या प्रगाढ़ बनता है?
164. राग की प्रगाढ़ता से क्या उद्दीप्त बनती है?
165. पूर्वकृत कर्मोदय से क्या जागृत बनता है?
166. धर्मात्मा भेद विज्ञान मुक्त होने से किससे बद्धता नहीं है?
167. बन्ध का कारण क्या है?
168. किसे छोड़े बगैर केवल ज्ञान नहीं होता?
169. कौन सा पाश भयंकर है?
170. ज्ञानी कभी किस पाश में जकड़ जाते हैं?
171. जरथुस्त्र ने शिष्यों को किससे सावधान रहने का कहा?
172. क्या न रखना सावधनी का मतलब है?
173. राग के समान क्या नहीं है?
174. राग बन्धन से क्या रूक जाती है?

- 175 कौन मरने के बाद विविध रूप धारण करता है?
- 176 गौतम स्वामी का प्रभु के प्रति कौनसा राग था?
177. त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में गौतम स्वामी वासुदेव क्या था?
- 178 मिली वस्तु के प्रति लगाव रखना क्या है?
179. राग-द्वेष के विजेता क्या कहलाते हैं?
180. किनसे व्यक्ति बन्धन में बंधता है?
181. किस भावों में रहकर बन्धन मुक्त बन सकते हैं?
182. स्वस्थता, स्थिरता, आत्म रमणता किसका परिणाम है?
183. दुःख, शोक, चिंता वेदना किसका परिणाम है?
184. कौन प्रत्येक क्षण अधोगामी बनता है?
185. मोही व्यक्ति किसके समान नाचता है?
186. जग प्यार कैसा है?
187. कोई दुःख की चक्की में कब तक पिसता है?
188. भोग किसका भोग करते हैं?
189. राग रूपी मांस का टुकड़ा रहते कौनसे कौएं पिण्ड नहीं छोड़ते?
190. गुणों में भी दोष कौन दूढ़ता है?
191. दूसरों के सुखों से ईर्ष्या किसे होती है?
192. द्वेष क्यों उत्पन्न होता है?
193. रागी को दोष भी गुरु रूप क्यों दिखते हैं?
194. गुण भी दोष रूप किसे दिखते हैं?
195. मात्सर्य, असूया, डाह, ईर्ष्या किसके पर्यायवाची है?
196. कौन विद्या का पात्र नहीं है?
197. ईर्ष्यालु को दुश्मन छोड़ दे मगर कौन खा जाती हैं?
198. दानी से ईर्ष्या रखने वाले के यहां सदा क्या रहती है?
199. दुर्गुण पर का नाश करे या न करे मगर दुर्गुणी का क्या करता है?
200. कौन अपने आप दुःख पाती है?
201. द्वेष को परास्त कौन करता है?
202. ईर्ष्या की जनक कौन है?
203. दूसरे की सफलता से उसके प्रति क्या होती है?

- 204 वस्तु सत्य का यथार्थ मूल्यांकन किसके रहते नहीं होता?
- 205 द्वेष का चिर साथी कौन है?
- 206 मोह और द्वेष सदैव क्या होते हैं?
- 207 माया और लोभ किसमें समाविष्ट होते हैं?
- 208 क्रोध और मान किसके अन्तर्गत आते हैं?
- 209 धन, विद्या, यश दूसरो का देख ईर्ष्या क्यों होती है?
- 210 अपने लाभ हानि का विचार किसमें नहीं रहता?
- 211 घोर द्वेष से उत्तेजना, असुरक्षा कहां बनती है?
212. कौनसी आग सर्वत्र अहित करती है?
213. आर्थिक विषमता किसका मूल कारण है?
- 214 हलाहल जहर क्या?
- 215 ईष्या क्षणभर भी कहा नहीं ठहरती है?
216. स्व में दुर्गुण रहते परालोचना करना क्या है?
217. नव तत्त्वों पर यथार्थ श्रद्धान रखना क्या है?
218. अन्तरंग करण लब्धि का कारण क्या है?
219. धर्म रूपी महल का पाया क्या है?
- 220 आप्त आगम वचनों पर श्रद्धा क्या कहलाती है?
221. सुदेव, गुरु, धर्म पर श्रद्धान रखना क्या कहलाती है?
- 222 सम्यग्दर्शन पाने का बहिरंग कारण क्या है?
223. दर्शन मोह का विलय किसमें अनिवार्य है?
224. सत्य के प्रति होने / रहने वाला संदेह कब दूर होता है?
225. आत्म साक्षात्कार का ध्येय कब बनता है?
226. मृत्युजयी कौन बन जाता है?
227. साधना की आस्था छोड़ पूजा प्रतिष्ठा कौन चाहता है?
- 228 धर्म नगर का प्रवेश द्वार क्या है?
- 229 मूल और उत्तर गुण रूप रत्नों का निधान क्या है?
- 230 किसके बिना सम्यग्चारित्र नहीं होता?
- 231 जीवादि तत्त्वों को किससे जाना जाता है?
232. धर्म का मूल क्या है?
233. कृत संकल्प को पूर्ण कौन करता है?

234. क्षायिक सम्यक्त्व से क्या मिलता है?
235. सर्वथा परिष्कृत सम्यक्त्व कौनसा है?
236. श्रुत और शील रस का भाजन क्या है?
237. सम्यक्त्वी ससार की क्रियाएं करता क्या नहीं करता?
238. किसके बदलते ही जीवन बदल जाता है?
239. किसके आते ही मिथ्यात्व किनारा कर जाता है?
240. पत्थर पूजने से क्या नहीं मिलते?
241. मात्र सिर मुण्डन से कौन नहीं मिलते हैं?
242. जीवन जीने की कला क्या है?
243. कषाय की तीव्रता रहते आत्मा किससे विमुख रहती है?
244. कषायिक मंदता में आत्मा किसके उन्मुख होती है?
245. सदासद के विवेक शून्य श्रद्धा कैसी है?
246. सम्यग्दर्शन रूपी सीप में धर्म रूपी क्या पनपते हैं?
247. दर्शन चार के आचार कितने हैं?
248. सम्यक्त्व के कितने भेद हैं?
249. शंका कंक्षादि दोष किसे मलीन करते हैं?
250. समकित के पिछले तीन दोष किसकी गति में बाधक हैं?
251. किसके अभाव में ज्ञान अज्ञान रहता है?
252. धार्मिक सब क्रियाएं किसके बिना व्यर्थ है?
253. परम पाप किसे कहा गया है?
254. संवर और निर्जरा से सम्यग्दर्शन कैसा रहता है?
255. मान सरोवर पर हंस मोती मगर बगुला क्या दूढता है?
256. आत्मा और पदार्थों का बोध किससे होता है?
257. सम्यक् ज्ञान का दूसरा नाम क्या है?
258. तीसरा नेत्र कौनसा है?
259. दर्शन शास्त्र में प्रमाण किसे माना गया है?
260. इन्द्रिय और मन से कौनसा ज्ञान होता है?
261. अन्तिम तीन ज्ञान किससे उत्पन्न होते हैं?
262. अन्त के दो ज्ञान कमी क्या नहीं होते हैं?
263. इन्द्रिय और मन जन्य ज्ञान क्या कहलाता है?

- 264 सूर्य से भी बढ़कर और कौन सा प्रकाश है?
265. जन्म-जरा-मरण की व्याधि हरने परमामृत क्या है?
- 266 पर्वत, तालाब झलकने पर भी किस पर भार नहीं आता?
267. दुःख सुख में ज्ञानी कैसे रहता है?
- 268 कर्म और जीव उभय मिल कितने रूप बनते हैं?
269. जीव स्वयं क्या है?
- 270 पुद्गल रूप कौन है?
271. कर्म और जीव का सर्वथा अलग-2 होना क्या है?
272. आत्मा और ज्ञान का कैसा संबंध है?
- 273 ज्ञान पाने का सरल साधन क्या है?
- 274 रूपी पदार्थों को कौन जानता है?
- 275 अवधि ज्ञान किस गति वालों को हो सकता है?
- 276 ज्ञानवान पुरुषों की संगत से क्या बढ़ता है?
277. शोकातुर कौन नहीं बनता?
278. ज्ञान न पाने के कितने कारण हैं?
279. मनः पर्याय ज्ञान किसे हो सकता है?
280. केवल ज्ञान को आगम में क्या कहा है?
281. अन्न दान से भी कौन सा दान श्रेष्ठ है?
- 282 धर्म के पारगामी कौन होते हैं?
- 283 बौद्ध धर्मी सम्यग्ज्ञान को क्या कहते हैं?
- 284 चिन्तित मनोरथ को पूर्ण कौन करता है?
285. हिता हित और लक्ष्य का बोध किससे होता है?
286. सम्यग्ज्ञान के प्रकाश में कौन आलोकित होता है?
- 287 सर्व सावध वृत्तियों का त्याग करना क्या है?
288. योग और इन्द्रिय निग्रह करना क्या है?
- 289 स्व-स्वरूप में रमण करना क्या है?
290. जीवन रूपी वृक्ष का सुन्दर पुष्प क्या है?
- 291 सर्व विरति चारित्र्य किसके होता है?
- 292 पाच महाव्रत, अष्ट प्रवचन माता ये किसमें आते हैं?
293. कौन धारण करने पर सुख देता है?

294. भव भवान्त किसके बिगड़ते हैं?
295. चारित्र धर्म पोषक व्रत क्या कहलाते हैं?
296. शिक्षा प्रधान व्रत क्या कहलाते हैं?
297. व्यर्थ की हिंसा से बचाने वाला व्रत कौन सा है?
298. ज्ञान का सार क्या है?
299. किसे तुरन्त मूर्त रूप देना चाहिए?
300. पहले और छेले तीर्थंकर के शासन में कौनसा चरित्र होता है?
301. बड़ी दीक्षा किस चरित्र का नाम है?
302. 11वें गुणस्थान से कौनसा चरित्र होता है?
303. संज्वलन लोभ किन साधको में होता है?
304. चरित्र किसके समान है?
305. चरित्र किसे कहते हैं?
306. वेद भी किसे पावन बना नहीं सकते?
307. चरित्र जीवन में रहता है बाहर कौन रहता है?
308. चरित्र वृक्ष की छाया क्या है?
309. शिव सुख पाने के लिए क्या जरूरी है?
310. पाप मार्ग किससे रूकता है?
311. किसके चरण धरते ही विघ्न टलते हैं?
312. चरित्र भ्रष्ट का क्या पाना अति कठिन है?
313. संस्कृति का निर्माण कौन करता है?
314. विकार ग्रस्त कौन नहीं बनता है?
315. पथ दीपक कतलाता है पर चलता कौन है?
316. 18 पापों में से कितने पाप चरित्र से रूकते हैं?
317. कर्मों को क्षय करे वह कौन?
318. विषय कषाय जन्य भावों को रोकना क्या है?
319. स्वाधीन वस्तु को स्वेच्छा से त्यागना क्या है?
320. तप रूप में स्व-पर को क्लेशित करना क्या है?
321. स्वार्थ और मोह वश अपमानदि सहना क्या है?
322. विषय-कषाय और आहार का विवेक से निग्रह क्या है?

323. किस तपाराधन से मुक्ति नही मिलती?
324. जीव के सकाम निर्जरा कब प्रारंभ होती है?
325. भिक्षाचरी का दूसरा नाम क्या है?
326. भ. महावीर ने नन्दन भव में कितने मासखमण किए?
327. भिक्षाचारी का दूसरा नाम क्या है?
328. आत्म शुद्धि प्रधान तप कौनसा है?
329. पूर्वकृत पाप किससे नष्ट होता है?
330. उपवास आदि तप कौन से गुण में है?
331. श्रद्धा अगर बीज है तो तप क्या है?
332. अपराध शुद्धि करण की क्रिया को क्या कहते हैं?
333. इन्द्रिय गोपन की क्रिया किस तप मे आती है?
334. तप से कहाँ का साम्राज्य मिलता है?
335. सम्मान की कामना से क्या क्षय होता है?
336. किसकी ऋद्धि, तेज, प्रभाव स्वतः बोलता है?
337. कौन सबको अच्छा लगता है?
338. धैर्य रखना किसका मूल है?
339. बाह्य तप क्या कहलाता है?
340. आभ्यान्तर तप क्या है?
341. आत्मा का सेवक कौन है?
342. किस क्रिया में कषाय उपशम होते हैं?
343. किसकी संगति से सज्जन का महत्त्व घटता है?
344. सामायिक में भगवान का सूचक शब्द कौन सा है?
345. नव तत्त्वों में सामायिक कौन सा तत्त्व है?
346. आगार और अणगार सामायिक किस सूत्र में है?
347. कर्म व्याधि नाशक रामबाण औषध क्या है?
348. करेमि भंते का पाठ कहा से लिया गया है?
349. आलोचना सूत्र का दूसरा नाम क्या है?
350. आत्मा ही सामायिक है वही उसका प्रयोजन किसमें कहां?
351. अणगार सामायिक किस नाम से जानी जाती है?
352. इत्वरिक सामायिक किसके होती है?

353. सर्व विरति सामायिक किसके होती है?
354. तीन करण तीन योग से सामायिक किसके होती है?
355. दो करण तीन योग से सामायिक कौन करते हैं?
356. देश विरति सामायिक किसके होती है?
357. जीवन विकास का साधन क्या है?
358. आकुलता से रक्षण कौन करता है?
359. आत्म रमण की भव्य भावना किसमें है?
360. अविनाशी स्वरूप पाने का सच्चा साधन क्या है?
361. सर्वजीवों को आत्मवत् देखना क्या है?
362. अहं छोड़ नम्र सामायिक के किस पाठ से बना जाता है?
363. भक्ति प्रधान सामायिक में कौनसे पाठ है?
364. इच्छा कारेणं, तस्सउत्तरी करेमिभंते किसकी भव्य प्रेरणा करते हैं?
365. जीने के प्रशिक्षण के साथ आदर्श मैत्री प्रस्तुत कौन करता है?
366. आत्म शुद्धि करण का संकेत किस पाठ में है?
367. सामायिक के किस शब्द में पापों कर्मों का समावेश होता है?
368. एकान्त में आत्मसाक्षाती से निंदा करना क्या?
369. गुरु के सामने अपने दुष्कर्मों को रखना क्या है?
370. सामायिक किसका क्षीर सागर है?
371. शुद्ध सामायिक की साधना कौन कर सकता है?
372. लोक कल्याण कारी स्तुति किस पाठ में है?
373. देव सामायिक व्रत क्यों नहीं ले सकते?
374. तीर्थंकरों की स्तुति णमोत्थुणं से कौन करते हैं?
375. मुक्ति की साधना कौनसी है?
376. लोगस्स मे किस तीर्थंकर के नाम दो आए है?
377. सामायिक का मूल्य क्या है?
378. किससे सामायिक का मूल्य आंका नहीं जा सकता?
379. कौन हर समय स्वरूप सामायिक साधना में रहे हुए हैं?

380. सामायिक करने की किसे आवश्यकता है?
381. विषय कषाय युक्त आत्माओं को क्या करना चाहिए?
382. सामायिक काल किसकी साधना करनी चाहिए?
383. आत्म शुद्धि के लिए क्या किया जाता है?
384. सामायिक को प्रथम आवश्यक क्यों बताया?
385. विषम भाव जीवन से कब मिटता है?
386. मन को राग द्वेष से दूर रखना क्या है?
387. सूर्यो से भी अधिक प्रकाश मान कौन है?
388. व्रत भंग का विचार आना क्या है?
389. व्रत भंग योग्य साधन एकत्र करना क्या है?
390. व्रत भंग करने तत्पर हो जाना क्या है?
391. व्रत खण्डित कर देना क्या है?
392. विषय, कषाय, विवाद जन्म चर्चा किसमें नहीं करना?
393. भूत कालिन पाप की आलोचना पुनः न करने की प्रतिज्ञा क्या है?
394. प्रतिक्रमण का पाठ कौनसा है?
395. प्रतिक्रमण के पाठ को प्रतिक्रमण में कितनी बार बोलते हैं?
396. पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत का समावेश किसमें हैं?
397. प्रतिक्रमण से व्रतों के छिद्र क्या होते हैं?
398. प्रतिक्रमण के किस आवश्यक से शरीर की शुद्धि होती है?
399. कायोत्सर्ग से किसमें परिवर्तन आता है?
400. सम्यक्त्व के कितने अतिचार हैं?
401. जिन वचनों के प्रति क्या नहीं रखना?
402. पर दर्शन की क्या नहीं करनी चाहिए?
403. किसके फल में संदेह नहीं रखना चाहिए?
404. किसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए?
405. किसका परिचय नहीं रखना चाहिए?
406. अकाल के समय क्या नही करना चाहिए?
407. काल मे क्या न करने से ज्ञान का दोष लगता है?

408. अस्वाध्याय काल में क्या नहीं करना चाहिए?
409. स्वाध्याय काल में क्या न करना ज्ञान का दोष है?
410. प्रत्याख्यान करने से क्या रूक जाते हैं?
411. यौवन बसन्त से पहले जीवन कली किसकी मूर्झाती है?
412. किसमें कान्ति न हो तो मूल्य दो कोडी का है?
413. चापलूसी चमचागिरी से कौनसा व्रत दूषित बनता है?
414. दुर्व्यवहार करने, फूट डालने से कौन सा व्रत दूषित होता है?
415. आत्मा सावधान किससे बनती है?
416. जिस प्रवृत्ति से कर्म विशेष आए उसे क्या कहते हैं?
417. इच्छामि खमा-समणो में किसका कर्त्तव्य बताया है?
418. प्रतिक्रमण करते छः बार कौनसा पाठ बोला जाता है?
419. एक साथ खमा समणो कितने दिये जाते हैं?
420. प्रत्येक खमासमणो में छः बार क्या किये जाते हैं?
421. आवस्सियाए पडिक्कमामि इत्यादि दस शब्द दूसरे खमासमणो में?
422. वन्दन करने का मुख्य प्रयोजन क्या है?
423. गुरु को वन्दन कैसे करना चाहिए?
424. गुरु को सुख शांता कैसे पूछना चाहिए?
425. आसातना की क्षमा याचना कैसे मांगना?
426. निरर्थक वचन बोलने से कौनसा अतिचार लगता है?
427. मौख्य कौन से व्रत का अतिचार है?
428. प्रतिक्रमण करने से पुण्य विशेष निर्जरा नहीं किसके?
429. किसके प्रतिक्रमण करने से निर्जरा विशेष होती है?
430. प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों की क्या है?
431. प्रत्याख्यान भविष्यत् काल के लिए क्या है?
432. वस्त्र पर लगे दाग को धोने जैसा क्या है?
433. वस्त्र मलीन न हो इसकी सतर्कता रखना क्या है?
434. दान, दाता और पात्र शुद्ध हो तीव्रतम भावों से दान दे तो क्या बंधता है?
435. किसका मनन करने से रक्षा होती है?

436. किसमें अक्षर कम भाव अधिक होते हैं?
437. कौन दिव्य शक्तियों से अधिष्ठित है?
438. नवकार महामंत्र में पूजार्थक शब्द कौनसा है?
439. नवकार मंत्र में किसके प्रति श्रद्धा भक्ति निहित है?
440. पाप नाशक मंगल मंत्र कौनसा है?
441. शुभ भावों का संचार किससे होता है?
442. मान कषाय का नाशक कौन?
443. नमस्कार करने वाले की वृत्ति कैसी बनती है?
444. केवल गुणों की पूजा किस मंत्र में हैं?
445. व्यक्ति जाति सम्प्रदाय से दूर कौन सा मंत्र रखता है?
446. चौदह पूर्व का सार किस मंत्र में हैं?
447. आत्मा का हित एवं मंगल कौन करता है?
448. अध्यात्म मंगल कभी क्या नहीं होता?
449. जहां नवकार है वहां क्या नहीं उठरता?
450. नवकार में पूर्ण समभाव शूचक शब्द क्या?
451. साधुत्व के गुणों को धारण करने वाला क्या होता है?
452. उपास्य और उपासक का भेद किस नमस्कार में हैं?
453. किस नमस्कार में उपासक ही उपास्य हो जाता है?
454. अट्टारह दोष रहित, बारह गुण सहित कौन होते हैं?
455. अष्ट महाप्रति हार्य किनके होते हैं?
456. हमारे उपास्य कौन हैं?
457. आपत्तियों, उपद्रवों का नाशक कौनसा अतिशय है?
458. दर्पण बिम्ब वत् लोकालोक किस अतिशय से प्रति भाषित होते हैं?
459. नरेन्द्र, देवेन्द्र, दानवेन्द्रादि से पूजित किस अतिशय से होते हैं?
460. श्रोता हर्षित होकर कल्याण किस अतिशय के प्रभाव से करते हैं?
461. किसके जाप से मंगल ही मंगल होता है?
462. आठ कर्मों को नष्ट कर आठ गुणों के स्वामी कौन हुए?

463. अरिहंत किन शत्रुओं के विजेता है
464. त्रिजग से पूजित कौन?
465. तीर्थ की स्थापना कौन करते हैं?
466. राग-द्वेष विजेता क्या कहलाते हैं?
467. नवकार मंत्र का पहला-दूसरा पद किसका है?
468. नवकार मंत्र का तीसरा चौथा पांचवा पद किसका है?
469. पांच पदों में संख्यता के कितने हैं?
470. अनंता का पद कौनसा है?
471. निद्रादि दोष की सर्वथा निवृत्ति कब होती है?
472. अज्ञान दशा का सम्पूर्ण नाश कब होता है?
473. तीर्थेश प्रभु के कितने कल्याणक होते हैं?
474. किनकी माता चौदह अपूर्व स्वप्न देखती है?
475. गर्भ में आते हैं वह तीर्थकर देव का कौनसा कल्याणक है?
476. तीर्थेश प्रभु का दूसरा कल्याणक कब होता है?
477. तीर्थेश प्रभु का तीसरा कल्याणक कौनसा है?
478. चौथा कल्याणक तीर्थकरों का कौनसा है?
479. पांचवा कल्याणक तीर्थकरों का कौनसा है?
480. तीर्थेश प्रभु का कल्याणक महोत्सव कौन मनाते हैं?
481. शाश्वत अंधकार में भी दो घड़ी प्रकाश कब होता है?
482. कल्याणक के समय नरक जीव किससे मुक्त बनते हैं?
483. कर्म अंजन से मुक्त जीव क्या कहलाते हैं?
484. आकार रहित जीव क्या कहलाते हैं?
485. जिसकी स्थिति तक न पहुंचे उसे क्या कहते हैं?
486. तीर्थेश प्रभु के जन्मातिशय कितने होते हैं?
487. देवकृत अतिशय कितने होते हैं?
488. केवल ज्ञान के बद्ध कितने अतिशय प्रकट होते हैं?
489. पैतीस गुणों से युक्त किनकी वाणी होती है?
490. सदैव आचरण योग्य गुण क्या कहलाते हैं?
491. हमेशा आचरण योग्य गुण कितने हैं?
492. प्रयोजन वश आचरण योग्य करण गुण कितने हैं?

493. सुकार्यों में नियोजित करने की शिक्षा क्या है?
494. दुष्कर्मों से रोकने की शिक्षा क्या कहलाती है?
495. स्वधर्म सिद्धान्त में स्थिर करने की शिक्षा क्या है?
496. तीर्थंकर कितने अतिशय से युक्त होते हैं?
497. नवकार मंत्र के पांच पदों के कितने अक्षर हैं?
498. नवकार मंत्र कौन सा मंत्र है?
499. पूरे नवकार मंत्र में कितने अक्षर हैं?
500. अक्षरों की अपेक्षा सबसे छोटा पद कौनसा है?
501. कर्मों का बंध कितने प्रकार से होता है?
502. पांच पदों में मूल पद कौनसा है?
503. नवकार मंत्र में साधक के पद कितने हैं?
504. नवकार मंत्र में सिद्ध पद कितना है?
505. भेद-विज्ञान को पुष्ट करनेका करना जरूरी है?
506. श्रद्धाबाती बहुमान तेल युक्त तमहारी नवकार कहां शोभता है?
507. नमस्कार करना कौन सा पुण्य है?
508. नमस्कार पुण्य सर्व पुण्यों में क्या है?
509. नमस्कार पुण्य कैसा है?
510. सर्व कालिक हित कौन करता है?
511. नमो णाणस्सरि चार पद किसके हैं?
512. अर्जुन का मुद्गल किस स्मरण से नाकाम बना?
513. नवकार के अन्तिम चार पद क्या कहलाते हैं?
514. महामंत्र नवकार के आराधन का फल कब मिलता है?
515. मंत्राराधन का फल किस रूप में मिलता है?
516. किस पद वाले उसी भव में मोक्ष जाते हैं?
517. महामंत्र का स्मरण किन भावों से करना चाहिए?
518. पांच पदों में कितने गुण हैं?
519. महामंत्र में किसकी प्रधानता है?

भाग-7-8-9

1. व्यस्त रहने वाला किससे मुक्त रहता है?
2. जीवन के सौंदर्य, शक्ति प्रसन्नता का नाशक कौन?
3. पर भाव में ममात्व रखने से क्या बढ़ती है?
4. भय लगते ही जीवन में क्या कुष्ठित होती है?
5. मानस किससे विकृत बनता है?
6. प्रसन्न होने पर कौन कल्पलता सदृश है?
7. जीवन के लिए कारा और दारा दोनो क्या हैं?
8. कारागृह के बन्धन से दारा का बन्धन कैसा?
9. जीवन में अपने आप क्या होता है?
10. नारी का वास्तविक बल क्या?
11. वासना की पूर्ति नहीं नारी किसकी पूरक है?
12. त्याग नारी जीवन का क्या है?
13. अधिकार में नहीं समर्पण में विश्वास किसका है?
14. वासना तृप्ति उद्देश्य नहीं तो लक्ष्य क्या है?
15. किसके सुधरने पर संसार सुधरता है?
16. अति भावुक एवं संवेदनशील कौन है?
17. म्यान नहीं, तलवार की क्या देखी जाती है?
18. सेवक का नाम नहीं, उसका क्या देखा जाता है?
19. वजन नहीं, हीरे का क्या देखते हैं?
20. रूप यौवन नहीं नारी का क्या देखना चाहिए?
21. काली होकर भी कौन मूल्यवान् है?
22. कौन बुराईयों से बच सकता है?
23. पथ प्रदर्शन होने पर भी अनुगामिनी कौन है?
24. किसके अत्याचार से संरक्षण कभी संभव नहीं?
25. मन की चंचलता किससे रूक जाती है?
26. निर्विकारी जनसमूह में रहता हुआ भी कैसा है?
27. प्राण बल का असाधारण विकास किससे सघता है?

- 28 अध्यात्मिक सिद्धियों का स्रोत क्या है?
- 29 सफलताओं के द्वार साहस से कौन खोलता है?
- 30 शारीरिक यत्र के संचालन का आधार क्या है?
- 31 योग साधना की अपेक्षा से शसक्त ऊर्चा केन्द्र क्या?
- 32 विश्व विजेता भी किससे हार जाता है?
- 33 प्रतीक्षा के बावजूद किसका विश्वास नहीं टूटता है?
- 34 प्राण विद्युत के अत्युपयोग, अपव्यय रोकने से क्या लाभ?
- 35 किसकी बुद्धि कल्प वृक्ष तुल्य है?
- 36 बुद्धिमत्ता से असाध्य कार्य भी क्या बन जाते हैं?
- 37 मानवता का प्रतीक कौन सा बल है?
- 38 समझ के फेर से क्या घटित हो जाता है?
- 39 कार्य को पूर्ण सूझ-बूझ से करना बुद्धिका क्या है?
- 40 आखो मे किसका निवास हैं?
- 41 जल और दूध सम क्या होनी चाहिए?
- 42 तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा क्या है?
43. किसका चिन्तन पथ प्रदर्शक बनता है?
- 44 बुद्धिमान हर समय अपने को क्या समझता है?
- 45 सर्वतोमुखी पतन किसके विनाश से होता है?
- 46 किस शक्ति का रूपान्तरण ब्रह्मचर्य है?
- 47 वासना एव वासना उद्दीपक साधनों को कौन त्यागता है?
- 48 ब्रह्म का अपूर्व तेज किसमें धूमिल होता है?
- 49 आत्मा किस अग्नि में तप कुन्दन सम दमकती है?
- 50 परमात्मा को अपने से दूर कौन नहीं समझता?
51. याचना करने वाला क्या कहलाता है?
- 52 भक्ति का अर्थ क्या करना है?
- 53 भक्ति दासता नहीं स्वरूप की क्या हैं?
54. भक्ति कौन कर सकता है?
- 55 साधना के सत्व का नाशक कौन?
- 56 कपटी के अधरों पर अमृत मगर हृदय में क्या?
57. योगी और भोगी दोनो किससे परेशान हैं?

- 58 मन को सदैव किससे दूर रखना चाहिए?
- 59 श्वास की निष्क्रियता मन की क्या है?
60. मन दैत्य के अधीन हुए वगैर अन्तर देव के क्या नहीं होता?
- 61 दुनियां की अच्छाईयां व बुराईयां मन की क्या है?
- 62 अपमान को याद रखने से हृदय में क्या बढ़ता है?
- 63 दिल का आईना क्या है?
- 64 किसकी पवित्रता से आँखे पावन रहती है?
65. दिल को कौन पहचानता है?
- 66 मन की भाषा को कौन समझ लेता है?
67. मनोनिग्रह का प्रभावशाली साधन क्या है?
- 68 अवचेतन मन घर में किस घर जैसा है?
69. यह जीवन किसका प्रतिफल है?
70. इन्द्रियों का नाथ मन, मन का नाथ कौन?
71. वायु का नाथ कौन है?
72. मनोलय किसक आश्रित है?
73. मन के स्थिर होने पर क्या स्थिर होता है?
- 74 प्राणवायु की स्थिरता से क्या स्थिर होता है?
75. वीर्य की स्थिरता से शरीर सदन में क्या रहता है?
76. प्राण वायु की विजय से किस पे विजय होती है?
77. श्वास सवर का सबल साधन क्या है?
78. सुज्ञ अवमानना के बावजूद कर्त्तव्य परायण का क्या करते हैं?
79. जहर के बजाय महान् पुरुष क्या बरसाते हैं?
80. कोलाहल और प्रदर्शन कौन करता है?
- 81 क्षुद्र सदैव क्या बनना चाहता है?
82. विरोधियों को अपना बनाकर चलना क्या?
83. किसके मार्ग दर्शन में जीवन सार्थक बनता है?
84. स्वाचरण से मानवता का इतिहास कौन पढते हैं?
85. स्नेह, सद्भाव करुणा का अमृत कौन बांटते हैं?
86. संसार कारागृह से मुक्त कराने कौन आते हैं?
87. सामान्य कृत्यों को रूचि व जागरूकता से कौन करते हैं?

- 88 शूलों के पथ को पुष्प शय्या समझ कौन बढ़ता है?
- 89 विषम-विकट परिस्थिति में भी सतुलन कौन नहीं खोते?
- 90 राष्ट्रपति उपाधि से विभूषित कर सकता है पर क्या बना सकता?
- 91 शक्तिशाली बनने में नहीं शक्ति के सदुपयोग में क्या है?
- 92 बाहर से कठोर भीतर से कोमल कौन होते हैं?
93. बडप्पन व अधिकार का अहं किनमें नहीं रहता?
- 94 महान् होकर के जो धैर्यवान न हो उसका सर्वत्र क्या होता है?
- 95 उपाधियों को व्याधि मानने वाले कितने हैं?
- 96 सम्मान पद में नहीं तो किसमें है?
- 97 कौनसा जीवन कभी उर्वर हो नहीं सकता?
- 98 किसका जीवन सदगुणों का अक्षय कोष है?
- 99 कौन प्रसिद्ध के लिए नहीं सिद्धि हेतु यत्न करता है?
100. शान्ति एकान्त वन में नहीं तो फिर कहाँ है?
- 101 किसके कोलाहल से दूर रहने पर शांति मिलती है?
- 102 सज्जनता की सुवास गुलाब वत् कौन फैलाता है?
- 103 भावना किसके सदृश है?
- 104 बहिर भाव से अन्तर्भाव में जाना क्या है?
105. किसमें अखण्ड प्रवाह होता है?
- 106 भाव पूर्व रूप है तो उतर रूप क्या है?
- 107 कौन भव नाशिनी है?
- 108 मध्यस्थ वृत्ति किस गुण को अभिवृद्धित करती है?
109. प्रत्येक क्रिया का संचालन किस यत्र से होता है?
110. किसका मानस असतुलित रहता है?
- 111 आवेश की तुलना किससे कर सकते हैं?
112. अवसाद की तुलना किससे कर सकते हैं?
113. कौन पक्ष विपक्ष के विषय में विचार करता है?
114. बुद्धि क्या करने वाली वृत्ति है?
- 115 पूर्वानुभूत विषय-वस्तु का स्मरण कौन करता है?

- 116 मन को एकाग्र करने का प्रयोजन?
- 117 स्मरण चिन्तन मनन का न होना क्या है?
118. स्थूल मन की निष्क्रियता के बावजूद सूक्ष्म मन क्या रहता है?
- 119 मन को उत्तेजना प्रदान कौन करती है?
- 120 मन नहीं वृत्तियों की क्या होती है?
121. मन को जागृत कौन करता है?
122. मन को दुषित कौन बनाती है?
- 123 बधकारिणी प्रवृत्तिएं किससे मन में सक्रान्त होती है?
124. बुराईयो से स्वेच्छा से स्व को बचाना क्या है?
125. आत्म साधना के लिए कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है?
- 126 इच्छाओं को दबाकर साधना करना कौनसा मार्ग है?
127. प्रबल इच्छा शक्ति बिन सकल्प क्या हो जाता है?
128. कामेच्छा और भोगेच्छा मन सवर मे क्या है?
- 129 आत्म विश्वास की कमी से क्या दृढ नहीं रहता?
130. विषयानन्द, भजनानन्द, ब्रह्मानन्द ये किसने कहा?
131. प्रत्याहार की अभ्यास से किसका विकास होता है?
- 132 मन को अशुभ से बचाने हेतु क्या जरूरी है?
133. संकट का साथी कौन है?
134. सयमी साधक में जोश के साथ क्या होना चाहिए?
- 135 क्रिया की प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है?
- 136 विवेक जीवन में कौन सी दृष्टि देता है?
137. अधीरता से दुर्बल कौन बन जाता है?
138. विवेक विहीन साधना शिव की न हो किसकी है?
139. शास्त्र भी शस्त्र किसके हाथो मे बन जाता है?
140. विवेक युक्त प्रवृति क्या कहलाती है?
141. धर्म में श्रद्धा प्रधान है तो दर्शन में क्या है?
- 142 विज्ञान में किसकी मुख्यता है?
- 143 धर्म हृदय की प्यास है तो बुद्धि की प्यास क्या है?
144. तर्क की प्यास क्या है?

- 145 भौतिक विज्ञान अध्यात्म उन्नति के लिए क्या है?
- 146 विज्ञान मस्तिष्क है गर तो हृदय क्या है?
- 147 अनुपयोगी उपयोगी का अध्यात्म क्या करता है?
- 148 बाह्य दूरी विज्ञान ने घटायी मगर कौनसी दूरी बढ़ायी?
- 149 सत्य है पर शिव सुन्दर का वास किसमें नहीं?
- 150 विज्ञान ने बाह्य शक्ति दी पर जीवन से छीन क्या ली?
- 151 जीवन में शक्ति और शांति दोनों किसने दी?
- 152 सेवन में मधुर परिणाम में कटु क्या?
153. व्यसन मुक्त जीवन कैसा रहता है?
154. मृत्यु और व्यसन दोनो में विशेष हानिप्रद कौन?
- 155 कौन अपने आश्रयदाता को नष्ट करता है?
- 156 किसका पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहता है?
- 157 व्यसनी का जीवन कैसा बन जाता है?
- 158 समाज में प्रतिष्ठा किसकी धूमिल बनती है?
- 159 व्यसन प्रारंभ में कैसे होते हैं?
- 160 जीवन को बर्बाद करने वाला व्यसन क्या?
- 161 हारा जुआंरी दुगुना क्या करता है?
- 162 जुआ लोभ का क्या है?
- 163 जुए में लगा व्यक्ति धन का क्या करता है?
164. हारने पर भी जीतने का पाखण्ड कौन करता है?
- 165 झूठी कसमे कौन खाता है?
- 166 तीर्थंकर किन पुरुषो की श्रेणी में आते हैं?
- 167 चक्रवर्ती किन पुरुषो की कोटि में आते हैं?
- 168 वासुदेव किन पुरुषो के रूप में गिने गये हैं?
- 169 कष्ट सहे बिन हीरेवत् जीवन में क्या नहीं आती?
- 170 स्वर्ण सम तपे बिन जीवन में क्या नहीं आता?
171. अगरबत्ती सम जले बिन जीवन की क्या नहीं फैलती?
- 172 निज पुरुषार्थ पर भरोसा कौन रखता है?
- 173 मनुष्य को जान प्यारी है मगर क्या प्यारा नहीं?
- 174 जीवन से प्यार करने वाले किससे डरते नहीं?

175. मौत को पुकारना आसान है पर क्या करना कठिन?
176. जीवन की आराधना मृत्यु को महोत्सव कौन मनाता है?
177. मृत्यु भय किसे सताता रहता है?
178. जीवन का अन्तिम सत्य क्या है?
179. मृत्यु की याद किससे बचाती है?
180. विचारों की महक किसके समान है?
181. जगत का निर्माता एवं नियता कौन है?
182. विचारों की बीती हुई सृष्टि क्या है?
183. विचारों को अनुकूल बनाने का क्षण कौनसा?
184. विचारों के गर्भ से जमने वाला समय कौन सा?
185. मन में रहने वाले विचार किस तुल्य है?
186. कर्म रूप में साकार हाने वाले विचार क्या है?
187. विचार का दीप बुझने पर आचार क्या हो जाता है?
188. आचार शून्य वैचारिक क्रांति से क्या बढ़ता है?
189. संयोग खोजते रहने वाले के विचार कैसे रहते हैं?
190. शाप भी वरदान कब बन जाता है?
191. जीवन और आचरण को कौन सजाता संवारता है?
192. सीमा का उल्लंघन कौन करता है?
193. चापलूसी दोष है तो फिर क्या है विनय?
194. हृदय परिवर्तन की अद्भुत क्षमता किसमें है?
195. विनय किसको आकर्षित करता है?
196. जिस वन्दन में भक्ति नहीं वह वदन कैसा है?
197. सद्गुण एवं विद्याओं का स्वामी कौन?
198. अक्ल पढ़ने से नहीं तो किससे आती है?
199. झूठे वायदे कर के परवचना कौन करता है?
200. मानव प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध कौनसा आहार है?
201. घोर तामसिक आहार क्या है?
202. विवेकशील बुद्धि का नाशक क्या है?
203. प्रथम में मूर्ख दूसरे में पागल तीसरे में दानव चौथे घूट में कौन लुढ़काता?

- 204 दिवालिए बैक के समान कौन है?
- 205 सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त कौन बनाती है?
- 206 कौन सा रस जीवन रस को निचोड़ लेता है?
207. अलकापुरी सदृश द्वारिका किससे नष्ट हुई?
- 208 जीवन को कुपथगामी कौन बनाती है?
- 209 समाज का कोढ़ मानवता का अभिशाप कौन?
- 210 नारी जाति को लाछित कौन करती है?
211. गुप्त व्याधियों की जड़ कहा?
- 212 वैश्या का प्यार किससे होता है?
213. स्वास्थ्य नष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, जीवन में कष्ट कौन देती है?
- 214 रूप इन्धन से सदैव सज्जित कौन रहती है?
- 215 कामाग्नि की ज्वाला किसके धधकती रहती है?
- 216 धन, यौवन, प्रतिष्ठा कामाग्नि में क्या होते हैं?
- 217 दया किसके हृदय में नहीं रहती है?
- 218 चोरी का धन क्या खाने जैसा है?
219. किसका मन हर समय भयाक्रान्त रहता है?
- 220 पर स्त्री लंपट का मन सदा कैसा रहता है?
- 221 मन के पाप को धोने में कौन सक्षम है?
- 222 विशुद्ध जीवन जीने की प्रथम मंजिल क्या?
- 223 जाति संप्रदायदि का सत्संग में क्या नहीं रहता?
- 224 समर्पण व्यक्ति के निष्ठा की क्या है?
- 225 अध्यात्म यात्रा में पथ प्रदर्शक कौन?
- 226 जीवन में भेद विज्ञान साकार रूप कब नहीं लेता?
- 227 आत्मभाव की साधना क्या है?
228. साधना का प्राणतत्त्व क्या है?
- 229 किसकी सुदृढ़ नींव पर आचार का भव्य प्रसाद टिका हुआ है?
230. समता का लहराता निर्मल सागर क्या है?
- 231 आत्म परिणति सामायिक का क्या है?
232. हर कदम पर सावधान किसे रहना चाहिए?

- 233 आत्म हितैषी साधक को किसका अवलंबन लेना चाहिए?
- 234 साहचर्य बिन व्यक्ति को कैसी अनुभूति होती है?
- 235 सिद्धियों के प्रदर्शन से जीवन कैसा बन जाता है?
- 236 आत्मैच्छुक साधक किसके मोहजाल में न फसें?
237. सर्वमंगल की मूलभूत साधना केन्द्र क्या है?
238. परमात्मा के स्मरण से क्या प्राप्त होती है?
- 239 मुक्ति पथ का राही किसका विजेता होता है?
240. बांझ गायवत् हेय कौन है?
241. दुधारू गाय सदृश कौनसा साधक सेव्य है?
- 242 साधक के लिए गरिष्ठ खुराक क्या है?
243. योगसाधक के गरिष्ठ खुराक क्या है?
244. बुभुक्षु नहीं साधन पथ में मुमुक्षु ही चल सकता है?
245. धार्मिक साधना किसके लिए की जाती है?
246. स्वदर्शन न कर प्रदर्शन साधक के लिए क्या है?
247. मिथ्यात्वी की साधना किसके सदृश है?
- 248 अनाग्रही जीवन में किस शक्ति का संचार होता है?
249. साधना को विकृत करने वाला जीवन का शल्य क्या?
250. समाज का मुखभी और मस्तक भी कौन है?
251. जीवन का अभिनव आलोक क्या है?
252. भूले भटके पथिकों का सच्चा पथ प्रदर्शक कौन?
- 253 सुसंस्कार मन में अकित कौन करने वाला है?
- 254 संस्कृति का अक्षय वसन्त, दर्शन का मूल क्या?
- 255 समाज का अलंकार, सभ्यता का पाँवर हाउस क्या?
256. मनन का मेरू दण्ड क्या है?
257. खिले हुए पुष्प सदृश कौन है?
258. किसकी मधुर सौरभ, सौंदर्य से मुरझा दिल खिल उठता है?
259. कौन चेतना में आशा विश्वास साहस शौर्य जगा देता है?
260. युवकों का पोषक, वृद्धों का मनोरंजक, बच्चों का निर्माता कौन?
261. कल्पवृक्ष, और कामधेनु सम क्या है?
262. संस्कृति का निर्माता होने से साहित्यकार क्या कहलाता है?

263. सस्कृति का सरक्षणकर्ता होने से साहित्यकार क्या कहलाता है?
264. सस्कृति गत विकृतियों को नष्ट करने से साहित्य कार क्या?
- 265 जिनाज्ञा का पालन सबसे बडी क्या है?
- 266 मानव हृदय भगवान का क्या है?
267. स्नेह पूर्ण व्यवहार सेवक की क्या है?
- 268 कर पवित्र किससे होते है?
- 269 कौनसा फल कभी निरर्थक नही जाता?
- 270 शक्तिशाली से भी सेवा पारायण क्या है?
271. मानव जीवन का श्रेष्ठतम कर्म क्या है?
272. सेवा करके सेवा लेना क्या है?
- 273 उपकार का प्रदर्शन सुकृत्य को क्या करता है?
274. कौनसा कार्यकर्ता सर्वाधिक बोलता है?
- 275 अवसर तलाशने वाला क्या नहीं कर पाता है?
276. मन की दृढ़ता में तन की कोमलता क्या नहीं बनती?
- 277 दृढ संकल्प से मंद बुद्धि भी क्या बन जाता है?
278. सफलता सदैव किसका वरण करती है?
- 279 स्वस्थ तन में कौन स्वस्थ रहता है?
280. मृत्युलोक का कल्प वृक्ष क्या है?
281. स्वार्थजन्म सकल्प व्यक्ति को क्या बना देता है?
282. दूसरे के सहारे क्या विकसित नही होता?
- 283 सकल्प का चाबुक किसको बदल देता है?
- 284 साहस-सकल्प-धैर्य से कैसे कार्य कर सकते है?
- 285 हर समय प्रसन्न व शान्त कौन रहता है?
286. मानसिक क्षेत्र का दुर्ग क्या है?
287. असमर्थों को सामर्थ्यवान कौन बना देता है?
- 288 विशुद्ध चारित्र से जीवन में क्या बढ़ता है?
289. कौनसा जीवन बिना ब्रेक की मोटर सा है?
290. तोड़ना आसान है पर जीवन में जोड़ना क्या है?
291. एकता में किसका वास रहता है?
292. यदि एकता जीवन है तो अनेकता क्या है?

293. किसकी अपेक्षा राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है?
294. एकता, संगठन, सामूहिकता का आधार क्या है?
295. सहयोग उन्नति का कारण है असहयोग किसका?
296. श्रद्धा प्रबल प्रज्ञामंद होने से व्यक्ति क्या करता है?
297. प्रज्ञातीक्ष्ण श्रद्धामंद हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है?
298. साहित्य रूपी सदन का सजग प्रहरी कौन है?
299. आत्म विशोधन की प्रक्रिया कौन प्रस्तुत करता है?
300. ज्ञान और चारित्र में आकर्षण कौन पैदा करती है?
301. सन्मार्ग की स्थापना कौन सी कथा करती है?
302. दुःखों और अशुचिपन दर्शा जीवन में वैराग्य कौन जगाती है?
303. संसार के राग से उदासीन कौन सी कथा बनाती है?
304. प्रायश्चित्त का निर्देश किस कथा में रहता है?
305. संशयवान को समझाने का कार्य किस कथा का है?
306. श्रोता की योग्यतानुसार नयों से निरूपण किस कथा से होता है?
307. अभद्र कुत्सित विचारों को स्वच्छ कौन बनाता है?
308. हर कोई क्या लेना चाहता है?
309. जहां ममता है वहां पर क्या है?
310. कोई भी अपने जीवन में क्या नहीं लेना चाहता?
311. स्वयं यश लेता है पर को क्या देता है?
312. स्पर्श सुख की चाह में क्या चला जाता है?
313. जहां दो हैं वहां क्या है?
314. सुख के संयोग ही दुःखों के क्या है?
315. घिसा चन्दन क्या देता है?
316. विषम परिस्थिति मानसिक संतुलन की क्या है?
317. नवीन विकास योजनाओं की जन्म दात्री कौन?
318. नर की उद्दाम इच्छाओं की नियंता कौन?
319. सुखानुसंधान की नई राह कौन दिखाती है?
320. दुःखी को सलाह नहीं क्या चाहिए?
321. संताप में सांत्वना सर्व श्रेष्ठ क्या है?

- 322 सुख और आनंद का मधुकुण्ड क्या?
- 323 सुःख दुःख का उद्गम विलय कहां होता है?
- 324 धैर्य साहस समझ देकर कौन जाता है?
- 325 चचलता भीरूता जडता देकर कौन जाता है?
326. दुःख मूलक सुखाभास क्या है?
327. पराधीनता के सुख में कौन सा बीज निहित है?
328. स्वर्ग में सुख नहीं तो फिर सुख कहां?
329. दुःख के कीड़े किसमें कुल बुलाते रहते है?
330. सेवा का उपेक्षक साधक किसका भागी होता है?
331. अंध विश्वास एवं रूढ़ियों के दिवारों में प्रकाश किसका रूका है?
- 332 ज्ञान को दास बनाने कादंभ किसने रचा?
333. भाषा, ज्ञान बाचाल-तार्किक बना सकता है पर क्या नहीं?
334. ज्ञान की कुंजी क्या है?
335. अन्तर यात्रा में ज्ञान नेत्र हैं तो चारित्र क्या है?
336. जीवन को कौन सजाती सवारती और मुक्त करती है?
337. शिक्षा का मान दण्ड उपाधि नहीं मन की क्या है?
338. शीशे की आंख स्वयं देखने को नहीं तो किसके लिए?
339. आचार शून्य ज्ञान आत्म दर्शन हेतु नहीं तो किस लिए?
340. ईश्वर की सन्निकटता में क्या सार्थक बनते है?
341. शिक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है?
342. ससार का मूल क्या है?
- 343 मानसिक अशांति का मूल कारण क्या है?
- 344 विवेक विचारऔर सतुलन को नष्ट कौन करता है?
345. परमात्मा ज्ञान प्राप्ति का मूल क्या है?
346. मन का परिमार्जन कर्म का शोधन कौन करता है?
347. स्वमत की प्रशंसा परमत की निन्दा कौन करता है?
- 348 हजार उपदेश से आचरण का एक चरण क्या है?
349. ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है?
350. पुस्तक किसका मंदिर है?

351. ज्ञानियों की जीवत समाधि क्या है?
352. मनुष्य का श्रेष्ठ मार्ग दर्शक कौन?
353. अन्तर का विवेक किसका गुरु है?
354. मूर्ख का गुरु कौन है?
355. पवित्र आचार निर्मल विचार किसके रहते हैं?
356. राष्ट्र का सच्चा पथ प्रदर्शक कौन होता है?
357. सस्कृति का जीवंत प्रतिनिधि कौन?
358. सम्यक ज्ञान प्रदाता कौन होते हैं?
359. संसार में कमल वत् निर्लिप्त कौन?
360. सत्य कथन ही नहीं अपितु सत्य जीता कौन है?
361. विशुद्ध चेतना का नाम क्या है?
362. सद्गुरु का स्वयं का जीवन कैसा होता है?
363. पुरुषार्थ का जीता जागता रूप कौन?
364. प्रज्ञा श्रद्धा की कसौटी है तो श्रद्धा प्रज्ञा की क्या है?
365. धर्म मार्ग में श्रद्धा किसका काम करती है?
366. श्रद्धायुक्त चिन्तन के महासागर में डुबकी लगाने से क्या मिलेगा?
367. श्रद्धा और विश्वास किसकी शक्तियां हैं?
368. योगी के कल्याण की सुरक्षा मातृवत् कौन करता है?
369. श्रेय साधक में प्रबल क्या रहती है?
370. किसके बल पर व्यक्ति हंसते-2 प्राण न्यौछावर करता है?
371. बुद्धि और क्रिया किसकी अनुगामिनी है?
372. श्रद्धा रहित शिव तुल्य आत्मा क्या है?
373. सुश्रद्धा से अज्ञान भी किसमें बदल जाता है?
374. श्रद्धा हृदय को कैसे बनाती है?
375. आचार की संज्ञा का नैतिकता की प्रहरी कौन?
376. आत्म सिद्धि समृद्धि हेतु सर्वोत्तम साधन क्या है?
377. श्रद्धा धुरी पर कौनसी साधना चलती है?
378. सत्य किससे प्राप्त होता है?
379. अडिग श्रद्धा समर्पणा ने द्रौपदी की क्या बचायी?
380. सम्यग्दर्शन की यात्रा का प्रथम पड़ाव क्या?


- 381 व्यक्ति को आत्म निर्भर कौन बनाती है?
- 382 दर्शन का आधार क्या है?
- 383 धर्म किस पर आधारित है?
- 384 श्रद्धा तिराती है तो डूबोता कौन है?
385. श्रद्धा सत्य ब्रह्म की क्या है?
- 386 मोक्ष का ताला किस चाबी से खुलता है?
- 387 साधना को प्राणवान् कौन बनाती है?
388. सर्वत्र पूजा किसकी होती है?
389. अपने आपको सदा ज्ञानी कौन मानता है?
390. कौन सी निधि जन्म-जन्म तक साथ रहती है?
391. समझदार व्यक्ति किसके सदृश है?
392. ज्ञान की कद्र-कौन करता है?
393. कौन स्व-पराजय को पचा नहीं सकता?
394. विद्या का प्रमुख कार्य क्या है?
395. गौरव पूर्ण ज्ञान सिंहासन पर आसीन कौन है?
396. मुक्ति प्रदाता ज्ञान किसका बंदी बना हुआ है?
397. विचारों पर आधारित आचार कैसा रहता है?
398. जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ क्या है?
399. आचार धर्म है तो फिर विचार क्या है?
- 400 सद्धर्म मात्र उपदेश का नहीं वह किसका विषय है?
401. एक दूसरे को जोड़ कर कौन रखता है?
- 402 पर दुःख में स्व दुःखानुभूति क्या है?
403. अहिंसा का संबंध किससे रहता है?
404. व्यक्ति और समाज के कटु संबधो को परिष्कृत कौन करती है?
- 405 विचारों के रूप में रही अहिंसा क्या है?
406. वाणी का परिधान धारण करते ही कह अहिंसा क्या?
407. आचार रूप में ढलने पर क्या हो जाती है?
- 408 आत्म साम्य की विराट दृष्टि कौन देती है?
- 409 सस्कृति का प्राण, धर्म और दर्शन का आधार क्या?

410. अहिंसावाद विवाद का नही आचरण का क्या है?
411. विश्व मैत्री का मूल केन्द्र क्या?
412. समिति प्रवृत्ति रूप है तो फिर गुप्ति क्या है?
413. स्वात्मा का अहित कौन करती है?
414. पर का मुख्यतः अहित कौन करती है?
415. हिंसा कभी किससे पराजित नहीं होती?
416. कौन अपनी भूलों का परिष्कार नहीं कर सकता?
417. परालोचना करने की बजाय क्या करना श्रेष्ठ है?
418. मन को कचोटती है पर सजग बनाती है कौन?
419. निंदा प्रिय स्वभाव किसका होता है?
420. किसकी जबान विष वमन करती रहती है?
421. चारित्र्य कभी किसका अच्छा हो नहीं सकता है?
422. पर निंदा कर्म बन्धक है तो स्वनिंदा क्या करती है?
423. अपने से अपने आपकी क्या होती है?
424. किस फूल पर भंवरा कभी नहीं बैठता?
425. आलोचक वस्तुतः हमारा क्या होता है?
426. निंदक को लोग किस दृष्टि से देखते हैं?
427. निन्दकों की बात को सही कौन मानते हैं?
428. मन को जलाती और तन को कौन सुखाती है?
429. गुणहीन ही गुणवान से क्या करते हैं?
430. गुरु का गुरुत्व किससे बढ़ता है?
431. सुशिष्य ही सच्चा क्या बन सकता है?
432. अबोधता, उपेक्षा, क्षमा किसका सदा विषय रहा?
433. महत्त्व नाम का नहीं, सदा किसका रहा है?
434. विभाव से आत्मा को स्वभाव में कौन लाता है?
435. जीवन की एक मात्र सच्ची संपत्ति क्या?
436. रूप का सम्मोहन क्षणिक पर शील का कैसा?
437. शील में आकर्षण के साथ-साथ क्या रहती है?
438. ज्ञान की अपेक्षा किसका महत्त्व अधिक है?
439. जीवन का खिला हुआ सहस्र कमल दल क्या?

- 440 जीवन की प्राण शक्ति क्या?
- 441 सदाचार और चारित्र एक सिक्के के दो क्या है?
- 442 कल्याण का सर्वश्रेष्ठ पथ क्या?
- 443 सज्जन को भलाई करने के कितने रास्ते?
- 444 दुर्जन को दुष्टता के कितने बहाने?
445. दुर्जन की सगति किस पक्ष के चांद सदृश है?
- 446 सज्जन की संगति किस पक्ष के चन्द्र सम है?
- 447 पवित्रता, कलुषितता किस पर निर्भर है?
448. दृष्टि विशुद्ध होने से मिथ्या श्रुत भी क्या बन जाता है?
- 449 पवित्रता का मूलाधार क्या है?
- 450 मनोविज्ञान का दृष्टिकोण क्या है?
451. आचार शास्त्र क्या माना जाता है?
- 452 आचार धर्म का कौन सा स्थान है?
453. आचार धर्म का क्या कहलाता है?
454. समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन?
455. वेद भी किस मानव को पावन नहीं कर सकते?
- 456 आचार शून्य विचार क्रांति से क्या विशुद्ध नहीं बनते?
- 457 धर्म रूपी विराट वृक्ष किससे फलता है?
458. आचार शुद्धि से किसकी शुद्धि होती है?
- 459 सत्वशुद्धिकरण से क्या एकाग्र बनता है?
- 460 आचार शास्त्र का आधार क्या है?
461. ज्योति स्तंभ सम आचार की प्रचण्ड शक्ति क्या रहती है?
462. समृद्धि का मूल ज्ञान मात्र नहीं तो फिर क्या है?
- 463 स्वाश्रय स्थान को नष्ट कौन करती है?
464. दूसरों की निंदा कौन करता है?
- 465 अनुचित मार्ग पर मनुष्य को कौन ले जाती है?
466. कौन स्वोन्नति में संतुष्ट नहीं होता?
467. पर को दुःखी देख कौन आनंदित होता है?
468. मीठी खुजाल सम क्या है?
469. पर को अन्धा बनाने स्वनेत्र कौन फुडवा सकता है?



470. व्यक्ति को कलह प्रिय कौन बनाती है?
471. कही भी सद्गुण किसे नहीं दिखता?
472. कौन किसकी उन्नति सह नहीं सकता?
473. कौनसी ज्योति कभी बुझती नहीं है?
474. परमात्म दर्शन के लिए जीवन में क्या चाहिए?
475. परमेश्वर का निवास स्थान कहा है?
476. मानव की महत्ता धन से नहीं तो फिर किससे है?
477. विराट् हृदयी वस्तुतः क्या है?
478. विराटता में क्या रहा हुआ है?
479. गहन ज्ञान के लिए किसकी जरूरत है?
480. कष्ट साध्य, समय साध्य, अभ्यास साध्य क्या है?
481. मानसिक विचारों को निग्रहित कौन करता है?
482. प्रत्येक अनुसंधान की सफलता किसमें निहित है?
483. ध्यये की एक निष्ठा प्रगति का क्या है?
484. अनेक चमत्कारों को जन्म कौन देती है?
485. कल्पना जीवी कौन होता है?
486. यथार्थ से हटकर कौन देखता है?
487. सामान्य सत्य से भिन्न सत्य किसका लगता है?
488. अनुभूति की आंख से अतीत का दर्शन कौन कराता है?
489. कल्पना की आंख से भविष्य की छवि कौन निहारता है?
490. वर्तमान के चित्रपट पर शब्द रंगों से भूत भविष्य कौन रखता है?
491. कवि की सूक्ष्म कल्पना कैसी होती है?
492. अनुभूति और अभिव्यक्ति का स्वामी कौन?
493. विश्वात्मा का प्रतिनिधि गायक कौन?
494. भावना और भाषा का पुरोहित कौन?
495. कवि किस कल्पना लोक में विचरता है?
496. जीवन और जगत के आर-पार कौन देखता है?
497. मानव चेतना को प्रबुद्ध करना कवि की क्या?
498. अनुभूति की प्राची पर किसका उदय होता है?



- 499 मानव जीवन के लिए प्राणवायु सम कौन है?
- 500 धन की अपेक्षा सम्मान की कामना किसे विशेष रहती है?
- 501 नाद का सुन्दरतम् रूप क्या है?
- 502 कला की सृष्टि क्या है?
- 503 मनुष्य को वरदान स्वरूप क्या मिली है?
504. कला मर्मज्ञ कलाकार को क्या करते है?
- 505 किसका जीवन पशु तुल्य जीवन है?
- 506 भावना को भव्यता कौन प्रदान करती है?
- 507 जीवन और आत्मा को कौन निखारती है?
508. ललित कला का आविर्भाव किससे हुआ?
509. तन की क्षुधा नामक कला कौनसी है?
510. मन की भूख मिटाने वाली कला किस श्रेणी की है?
- 511 आत्म दर्शन कराने वाली कला किस श्रेणी की है?
512. जीवन को आनदमय कौनसी कला बनाती है?
513. सर्व कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौनसी है?
514. कड़ी से कड़ी को कौन सी कला जोड़ती है?
515. निराशापूर्ण वातावरण में आशा दीप कौन संजोता है?
516. दुर्गुण जीवन रूपी नौका के लिए क्या है?
517. गदगी पर भिनभिने वाली मक्खी सम कौन?
- 518 स्वगुणों को याद और दुर्गुणों को भूलना मानव की क्या है?
- 519 परगुणों को भूल दुर्गुणों को याद कौन रखता है?
520. प्रमोद भावना वाला हर किसी में क्या ढूढ़ता है?
521. सुगुणी का हृदय किससे आप्लावित रहता है?
522. वेषभूषा से स्वागत पर आदरयुक्त विदाई कब दी जाती है?
523. अंगूर लतावत् जरा सी उपेक्षा से क्या नष्ट हो जाते है?
524. बबूलवत् अपने आप कोन बढ़ते रहते है?
- 525 समाज और राष्ट्र के लिए कैसर सम घातक कौन?
526. वय से नही तो व्यक्ति किससे महान् होता है?
527. दोष बुरा नही पर दोष की क्या बुरी है?

- 528 मानव का अमर धन क्या है?
- 529 जीवन का काया कल्प किससे होता है?
- 530 मंदिर ध्वजा सदृश अस्थिर क्या है?
- 531 कर्तव्य परायण की क्या होती है?
532. पूजा का मतलब क्या है?
533. जीवन की पवित्रता, मन का दिव्य प्रकाश क्या है?
534. किसके लिए हर वस्तु शिक्षक है?
535. जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या?
536. अनंत सुखों की बेल क्या है?
537. अमरता का अमृत घट क्या है?
- 538 परमानंद का अक्षय कोष क्या है?
539. पर दुःख ताप से तप्त कौन हो जाता है?
540. जीवनकी अमूल्य पूंजी क्या है?
541. कौनसी भाष गूगा बोल बहरे सुन सकते हैं?
- 542 किसके न होने से मानव दानव बन जाता है?
543. अमृत का झरना क्या है?
544. धन का कीड़ा कौन है?
- 545 प्रभु के उद्यान का प्यारा फूल कौन?
546. दान राशी का नही तो फिर किसका महत्व है?
547. चिरकाल तक सुरक्षित कौन रहता है?
548. अमृतवत् जीवन का पौष्टिक तत्व क्या है?
549. मन वाछा पूरक वशीकरण मंत्र क्या?
550. दरिद्रता नाशक कल्पवृक्ष कौन है?
551. हर्षोल्लास सहित शुद्धों भावों से दान का फल क्या?
- 552 वृक्ष से स्वतः दिये फल कैसे होते हैं?
553. पुण्य योग से क्या मिलता है?
554. चिन्तामय शोक किसके साथ में रहते हैं?
555. सुख और धन में परस्पर क्या है?
556. अर्थ किसकी खान है?
557. प्रतिष्ठा हेतु क्षत्रिय धन को क्या मारते हैं?

558. किस कार्य में लगा हुआ धन सार्थक है?
559. कौन व्यक्ति मदा सुखी रहता है?
560. धन का सदुपयोग करने वाला वस्तुतः क्या है?
561. धन संचितकर रखने वाला किसका दाम है?
562. कौन आंख रहते अंधा बना देता है?
563. पैसे का परमेश्वर कौन मानता है?
564. पर सम्पत्ति किसके लिए दुःखदायी बनती है?
565. आज का युग किसका पृजता है?
566. सम्मान दाता स्वयं पर से क्या होता है?
567. राजाजा से महत्त्व पूर्ण क्या है?
568. परोद्धार की चर्चा सरल मगर म्वाद्धार क्या है?
569. विरोध नष्ट करने का सरल उपाय क्या है?
570. महारा पाकर व्यक्ति और क्या बन जाता है?
571. बालकों का हृदय किससे जीता जा सकता है?
572. युवकों के दिल को किससे जीत सकते हैं?
573. धोखे को समझ जाना क्या है?
574. धोखा खाना मूर्खता है पर धोखा देना क्या है?
575. नीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है?
576. नीति शास्त्र के निर्णय कैसे होते हैं?
577. मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है?
578. मनोविज्ञान के निर्णय कैसे रहते हैं?
579. राष्ट्र को धूर क्या है?
580. कर्त्तव्याभाव में न्याय की कल्पना क्या है?
581. नैतिकता का स्तर कब श्रेष्ठता को दृष्टा है?
582. कर्त्तव्य और अधिकार किमकी अपेक्षा रखते हैं?
583. नैतिकता का प्राण क्या है?
584. पर को ऊपर उठाने स्वयं क्या करे?
585. विपत्तियों से जीवन में कौनसी ज्योति मिलती है?
586. विग्व प्रेम को महक कब फूटती है?
587. जीवन का वर्गद, वीरता में बंग कौन लगा देती है?

588. भाग्य विधाता कौन है?
589. बुराई एवं दुर्गुणों के लिए क्या नहीं करना पड़ता?
590. किसकी कभी भी प्रगति नहीं होती?
591. जीवन को शनैः-2 खोखला कौन बनाता है?
592. श्वास लेने बावजूद मृतवत् कौन?
593. चतुर व्यक्ति शुभ कार्य में क्या नहीं करता?
594. स्वलनाएं क्यों होती है?
595. अवनति का मूल कारण क्या है?
596. मर्यादा से अधिक शयन करना क्या है?
597. परिश्रमी का चरण कौन चूमती है?
598. स्वाभिमान से जीवन यापन कौन करता है?
599. भाग्य पुरुषार्थ की क्या है?
600. भाग्य के पीछे चलना क्या है?
601. भाग्य को अपने पीछे कौन चलाता है?
602. परिश्रम पौरुष का क्या है?
603. पराश्रित का जीवन कैसा रहता है?
604. प्यार की भाषा नर ही नहीं पशु भी क्या करते है?
605. विरोधियों में विजय कैसे पा सकते हैं?
606. तिरस्कृत अनादृत को कैसा उपचार चाहिए?
607. वैर-भाव का शामक कौन है?
608. दण्ड से सुधार नहीं प्रेम से क्या आता है?
609. प्रेम प्रहार से खड़ग छूट हृदय क्या हो जाते हैं?
610. प्रेम सहज होता क्या की जाती है?
611. स्नेहास्त्र से विरोधी सदा के लिए क्या हो जाता है?
612. जिनमें प्रेम नहीं वह मात्र क्या है?
613. जिस राष्ट्र में प्रेम नहीं वह राष्ट्र कैसा है?
614. समस्त प्राणियों पर प्रेम क्या कर सकता है?
615. घृणा प्रेम में बदलते ही नरक क्या बन सकता है?
616. शंका, भय, अविश्वास के कांटे किसके कदम-2 प
बिछे हैं?

- 617 स्वार्थ की दुर्गन्ध किसमें छिपी हुई है?
- 618 शका सदेह से न टूटना किसकी कसौटी है?
- 619 प्रेम निर्झर के सुखते ही कौनसी धरती बजर हो जाती है?
- 620 यथार्थता से गुमराह कौन बनाती है?
- 621 स्वार्थ आधिक्य से सिर उठा अट्टाहास कौन करता है?
- 622 आज के श्रोता किसके समान है?
- 623 दुर्गुणों में भी सद्गुण कौन खोजता है?
624. सज्जनों को दुर्गुणी कौन बतलाता है?
625. प्रतिदान और प्रतिध्वनि का सर्वत्र क्या व्याप्त है?
626. भोग थक कर किस छाया में आ रहा है?
627. मृग तृष्णा सम कौनसा मार्ग है?
- 628 किसके स्वप्न फलीभूत नहीं होते?
629. भाषा की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है?
630. सन्त का महत्व उसकी क्या है?
- 631 रूप का नही महत्व किसका है?
632. अनुप्रास का नही महत्व किसका है?
633. लेखक का महत्व कौन बढ़ाती है?
- 634 मूल्य मोती का नहीं मूल्य किसका है?
- 635 शक्ति महत्व पूर्ण नही महत्वपूर्ण क्या है?
- 636 महत्व मानव तन का नही तो फिर किसका है?
637. फूल का नही महत्व किसका है?
638. मात्र विनय नही जीवन में महत्वपूर्ण क्या है?
- 639 केवल विचार नही उसके साथ क्या महत्वपूर्ण है?
- 640 पैन का महत्व कौन बढ़ाती है?
- 641 पुस्तक की मूल्यवता को कौन वृद्धिगत करती है?
642. जीवन को सार्थक कौन करता है?
- 643 वस्तु का महत्व किसके साथ है?
644. दान की महत्ता किससे बढ़ जाती है?
- 645 रतन का मूल्य कौन आंकता है?
- 646 केवल इसलोक के सुखेच्छुक क्या है?

- 647 पर लोक का सुखाकाशी क्या है?
- 648 महानता के लिए किसी को मिटाने की नहीं किसे बढ़ाने की जरूरत है?
- 649 जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है?
650. सुख-दुःख का साथी अत्यन्त विश्वासी मित्र कौन?
651. विष उगलने वाली सर्पिणी कौन?
652. घर बड़ा दिल छोटा किसका?
653. घर छोटा पर दिल बड़ा किसका?
- 654 मानव के अहंकार का प्रतीक क्या है?
655. मानव के बुद्धिमता की निशानी क्या?
656. मरते हुए मानव को भी कुसुमवत् कौन खिलाती है?
657. कौन मुंह मोड़ने से पीछे-2 आती है?
658. यथार्थता से अधिक संसार में आदर किसका?
659. भूल को भूल मानकर भूल न करना क्या है?
660. भूल को स्वीकार करके भी भूल से न बचना क्या है?
661. हीरे और कांच के अन्तर को कौन जानता है?
662. अच्छाई अपनाने वाले का जीवन क्या बनता है?
663. सांप से भी अधिक जहरीला कौन?
664. घृणा द्वेष असहिष्णुता का विष कौन फैलाता है?
665. जीवन में किसे पाना मुश्किल है?
666. किसका तेज हृदय शून्य हो रहा है?
667. बाहर मर्यादित मगर भीतर निरकुश कौन?
668. व्यवहार सभ्य पर मानव की आकांक्षाएं कैसी?
- 669 मुंह पर मधुरता पर मन में कटुता किसके?
670. बुद्धिमता से बेवकूफी की गेंद कौन उछालता है?
671. सत्ता सम्पत्ति की अपेक्षा किससे प्रेम होना चाहिए?
672. परमार्थ को कौन भूल जाता है?
673. अशांति की राह अपना मानव क्या चाहता है?
674. आसुरी जीवन कौन सा कहलाता है?
675. दैविक जीवन में किसका आलोक जगमगाता है?



- 676 जीवन की सफलता का मूल्य क्या?
- 677 कौन अपने गज से दूसरो को नापता है?
- 678 अपने तराजू से दूसरो को कौन तौलता है?
- 679 स्वदृष्टि कोण से पर कौन परखता है?
- 680 विचार सामजस्य न होने से क्या समझा जाता है?
- 681 विरोधी के प्रति जन मन में घृणा कौन फैलाता है?
- 682 मानव के लिए अभिशाप नहीं वरदान क्या है?
- 683 मानव समाज की नींव परस्पर का क्या है?
- 684 अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण होने क्या करता है?
685. मानव को सदा किसका उपासक बनाना चाहिए?
- 686 भूलों के परिमार्जन से जीवन कैसा बन जाता है?
687. जवानी में जोश वृद्धत्व में होश किसमें रहता है?
688. भय और प्रलोभन जीवन को कैसा बनाते है?
689. कौन सा बन्धन विकास का कारण है?
690. प्रतिशोध की कटु भावना किससे जागती है?
691. सम्मान पद से नहीं तो फिर किससे मिलता है?
- 692 पश्चाताप के साथ श्रद्धा भावना किससे बढती है?
693. मधुर बनो पर क्या मत बनो?
- 694 भूल को भूल न मानना क्या है?
- 695 पछाडना बहादुरी नहीं बहादुरी क्या है?
696. सकट का सर्वश्रेष्ठ साथी कौन?
- 697 जीवन का श्रेष्ठ बहुमूल्य उपहार क्या?
698. प्रसन्नता का दूसरा नाम क्या है?
- 699 सम्पूर्ण जीवन की रीढ़ क्या है?
700. भावी जीवन का आदि बिंदु क्या?
- 701 देश की अमूल्यनिधि क्या है?
702. जीवन निर्माण की उर्वरा भूमि क्या?
703. विद्यार्थी जीवन किसके सदृश जीवन है?
704. आंख पांख साख किसके काम आती है?
705. निर्माण का प्रथम सौपान क्या है?

- 706 सूक्ष्मता में महत्ता का क्या छिपा है?
- 707 अगर तथ्यद्वार है तो सत्य क्या है?
708. असख्य क्षणों की परम्परा क्या है?
709. जीवन आनंद का क्रीडास्थल मन उसका क्या है?
710. कार्य की विशालता न देख जीवन का क्या देखो?
711. मानवता के नाम पर कौन नग्न नृत्य कर रही है?
712. वासना नहीं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए?
- 713 जीवन यात्रा का साधन क्या है?
714. पर को संकट में देख खुश कौन होता है?
- 715 नरतन रूप पारसमणि से जीवन में क्या पा सकते हैं?
- 716 हंसते-2 कष्ट झेलने वाला क्या पाता है?
717. जीने-मरने का कला विज्ञ संसार से क्या नहीं होता?
718. मानव भव किसके तुल्य है?
719. किसके एक और देवता, दूसरी ओर दानव है?
720. कौन आदर्श सांचे में ढला पुर्जा नहीं वृक्ष पे खिला पुष्प है?
721. किसके एक ओर शिव तो दूसरी ओर शैतान है?
722. मध्य में रह करके भी लचकदार कौन है?
- 723 देव बनना विजय और दानव बनना पराजय किसकी?
724. दानव दलन के लिए कटिबद्ध होना क्या है?
- 725 मरण धर्मा होने पर भी मनुष्य की विचार धारा क्या है?
- 726 गुलाब कांटों में खिलकर भी क्या होता है?
727. चतुर बनो पर क्या मत बनो?
- 728 दूर का अतीत किसको आकार देता है?
729. शुभयोग में यतना क्या है?
- 730 हर कोई अपने आप को क्या मानता है?
731. भोगी पुरुष त्यागी को कैसा समझता है?
732. यशकामना विकराल कर्तव्य निष्ठा कम किसमें है?
733. जहा सिद्धि होगी वहा कौन दोड़कर आयेगी?
734. निष्ठावान की प्रतिष्ठा स्वतः क्या होगी?
735. भावनाशील का स्वतः क्या बड़ेगा?

- 736 दिव्य भावना से व्यक्ति क्या बन सकता?
- 737 भारतीय संस्कृति में मां का स्थान कैसा है?
- 738 स्वर्ग से भी महान् कौन है?
- 739 वात्सल्य की अमर मूर्ति कौन?
740. नारी को नारायणी कौन कहता है?
741. मा शूल के बदले क्या अर्पण करती है?
- 742 विष के बदले अमृत कौन बांटती है?
743. तप त्याग की मोहक मूर्ति कौन?
- 744 सयम शांति की जीवत प्रतिभा कौन?
745. सन्तान मा की क्या होती है?
746. मां की महिमा व गरिमा क्या है?
- 747 मित्रता से किसको वश कर सकते हैं?
748. राष्ट्र का मेरूदण्ड क्या है?
749. साहस की धधकती ज्वाला कौन?
- 750 सस्कृति का सदेश वाहक कौन?
751. हिमालय सम उन्नत सागर सम व्यापक कौन?
752. राष्ट्र का सच्चा और अच्छा सजग प्रहरी कौन?
753. तन मन का सुमेल किसमें होता है?
754. जीवन का उन्माद नहीं नया मोड़ क्या?
755. हरा भरा वटवृक्ष किससे सूख जाता है?
756. सामंजस्य दृष्टि से समस्या क्या नहीं होती?
- 757 डकैती डालने वाला कौन होता है?
758. शासक सदैव किसका धनी होना चाहिए?
- 759 अत्याचारी शासक किससे भी खराब है?
- 760 रीझ और खीझ दोनों किसकी विचित्र होती है?
761. दूसरे पर शासन कौन करना चाहता है?
762. स्व-पर-शासन कौन करता है?
763. कौन रक्षण के लिए है भक्षण के लिए नहीं ?
- 764 न्याय नीति का आलोक कहां फैलता है?
765. आलसी को किसकी चाह रहती है?



766. सौंदर्य विहीन क्या चाहता है?
767. इन्द्रिय गुलाम सदा क्या चाहता है?
768. शत्रुओं से घिरा क्या चाहता है?
769. धन वैभव की लालसा कौन रखता है?
770. बादशाह से भी अधिक शक्तिवान् कौन?
771. राजा वृक्ष तुल्य है तो जड़ तुल्य कौन?
772. सत वैभव को छोड़ता है वैभव हेतु छटपटाता कौन?
773. वैभव का अभाव सन्त की क्या?
774. वैभव न होना दरिद्री की क्या है?
775. अखण्ड शांति का साम्राज्य किनके अधीन है?
776. संसार किसके आने पर मुस्कराता है?
777. विनय और भक्ति के वश कौन होते हैं?
778. जंगम तीर्थ कौन है?
779. उपहास करने पर भी क्रोधित न होकर उपहार कौन देते हैं?
780. कौन अपने को छिपा उद्देश्य की ओर बढ़ता है?
781. शास्त्रों की चर्चा, बुराई देने वाला कौन?
782. संकल्प वज्रमय हृदय नवनीत सा किसका होता है?
783. कौन दिव्य गुणों से महत्ता प्राप्त करता है?
784. सिद्धिनाम से नहीं तो किससे मिलती है?
785. सफलता का मूल मंत्र क्या है?
786. अन्य के सहारे पनपने वाला कैसा रहता है?
787. समय का इन्तजार कौन करता है?
788. मनुष्य का इन्तजार कौन नहीं करता?
789. समय की उपेक्षा जीवन का क्या है?
790. आज की उपेक्षा कर कल का इन्तजार कौन करता है?
791. दुःखों की सबसे बड़ी औषध क्या?
792. डाकू के समान कौन है?
793. अपूर्णता से पूर्णता की ओर कौन ले जाती है?
794. मेल मिलाप बढ़ाने वाली संस्कृति कौन सी है?
795. मानवता प्रधान संस्कृति कौनसी है?



796. भारतीय सस्कृति में किसकी प्रधानता है?
797. चीनी सस्कृति में किसकी प्रधानता है?
798. यूनानी सस्कृति में किसकी प्रधानता है?
799. जीवन को श्रेष्ठ चरित्रवान् कौन बनाती है?
800. क्रोध ज्वाला है तो क्षमा क्या है?
801. फरिश्ता किसके साथ रहता है?
802. जल आग को बुझाता क्षमा किसे शांत करता है?
803. कौन सिंह सदृश सर्वत्र निर्भय रहता है?
804. जो जितना वीर होगा वह उतना ही क्या होगा?
805. घबराहट और चचलता किसमें रहती है?
806. अविचलता किसमें रहती है?
807. बड़प्पन की निशानी क्या है?
808. क्या मांगने पर भी अपशब्द का अस्तित्व कायम रहता है?
809. प्रकाश और अंधकार के बीच ज्योति स्तंभ कौन?
810. मैत्री का प्राथमिक चरण क्या?
811. सांत्वना वेदना को क्या बनाती है?
812. गहरे से गहरे घाव को भरने का शक्ति प्रद मरहम क्या?
813. व्यक्तित्व का नायक कौन?
814. व्यक्ति को निर्भय कौन बनाता है?
815. सूझ-बूझ और मनोबल किसमें नहीं रहता?
816. आत्म शक्ति गुण सम्पदा किससे बढ़ता है?
817. पराक्रम दृश्य रूप है मगर उसका प्राण क्या है?
818. सफलता का ताला किस चाबी से खुलता है?
819. कठिनाइयों का सामना करने से जीवन में क्या बढ़ता है?
820. साहसी किस पर विजय पा लेता है?
821. साहस और प्रतीक्षा से कठिनतम कार्य भी क्या हो जाते हैं?
822. विपदा में सच्चा साथी कौन?
823. वीरों पर कौन अपना बृहदहस्त रखती है?
824. असंख्य सहायक कौन बना देती है?
825. प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाला कूप क्या?

826. कौन नेतृत्व का निर्वाह कर नहीं सकता?
827. पूर्णता की संभावना से कौन अधिक प्यार करता है?
828. विषय वासना, कषाय-कामना हृदय में रखना क्या?
829. सुकार्य की पहले उपेक्षा, फिर विरोध, अन्त क्या होता है?
830. परामर्श दाता बहुत पर पराक्रमी कितने?
831. आश्वासन बहुत देते हैं पर आशा कितने पूरे हैं?
832. वादा करने, कसमें खाने वाले बहुत निभाते कितने हैं?
833. संस्कृति आत्म कल्याण का क्या देती है?
834. औपचारिकता का चोगा किसने पहन रखा है?
835. नैतिकता और मानवता किससे जुड़ी हुई है?
836. पाश्चात्य संस्कृति कैसी है?
837. भारतीय संस्कृति कैसी है?
838. मनोवृत्तियों को कौन बदलती है?
839. संस्कृति अन्तर्मुखी है तो बहिर्मुखी क्या है?
840. संस्कृति आत्मा है अगर तो शरीर क्या है?
841. किसको अपनाने में देर लगती है?
842. मन-मानस को परिमार्जित कौन करती है?
843. सदगुणों का समूह क्या कहलाता है?
844. जबरन थोपा किया जाता है?
845. संतो की दासी कौन?
846. तृष्णावान क्या है?
847. किसका त्यागी-सुखसागर पर तैरता है?
848. दूसरों को दास कौन बनाती है?
849. दासता से मुक्ति कौन दिलाता है?
850. कौन सी वृत्ति कभी निराशा में नहीं बदलती है?
851. आध्यात्मिक प्रयोगशाला कौन सी है?
852. आत्मा को परमात्मा बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या?
853. अखण्ड ज्योतिर्मय यात्रा क्या है?
854. किसमें साधक बाहर से अन्दर सिमटता है?
855. कब साधक अपने आप पर शासन करता है?

856. सात्विक जीवन जीने की अपूर्व कला क्या है?
857. अन्तर्मुखी बनने की साधना क्या है?
858. बालू के ग्रास वत् निरस क्या है?
859. बुभुक्षु नहीं दीक्षा के लिए कौन चाहिए?
860. जीवन जीने की पद्धति किसमें बदलती है?
861. धर्माचरण और व्रतारोहरण की साधना क्या है?
862. आत्म खोज की अन्तर्यात्रा क्या है?
863. विकार और वासनाओं का मुण्डन किसमें ?
864. विष और अमृत मनुष्य के किसमें है?
865. दृष्टि बदलते ही क्या बदलेगी स्वतः?
866. अन्तरंग भावना का प्रतिबिम्ब क्या?
867. दोषग्राही छिद्रान्वेषी संसार को क्या समझता है?
868. अच्छाईयाँ बुराईयाँ देखने में मुख्य कारण क्या?
869. संसार का महत्व किसके लिए है?
870. अपना कण भर गुण कैसा दिखता है?
871. दूसरों का मण भर गुण भी कैसा दिखता है?
872. कौनसा दृष्टिकोण प्रगति का अवरोधक है?
873. किस दृष्टिकोण से सहज दुराग्रह से मुक्त हो सकते हैं?
874. मेरा दृष्टिकोण ही सत्य है यह आग्रह किसका मूल है?
875. आत्मोन्तति के लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है?
876. काम जीवन को कैसा बनाता है?
877. विद्युत तरंगों को भाषा का रूप कौन देता है?
878. अव्यक्त विचार धाराओं को भाषा रूप कौन देता है?
879. युगीन समस्याओं का समाधान किसकी वाणी में है?
880. युग का सफल प्रतिनिधित्व कौन करते है?
881. जनता के मन का साधिकार नेतृत्व कौन करते हैं?
882. कंटकाकीर्ण पथ को पुष्प शय्या समझ कौन बढ़ते हैं?
883. तनाव को दूर करने का सुन्दर उपाय क्या है?
884. कायोत्सर्ग का दूसरा नाम क्या है?
885. कषाय उपशमन किसका प्रयोजन है?

886. अन्तर्मुखी बनने की साधना क्या है?
887. अतिचार रूपी घावों की ठीक करने का मरहम क्या?
888. देहाध्यास किससे छूटता है?
889. फूल का सार क्या है?
890. द्वादशांगी का सार क्या है?
891. शक्ति जागरण का अग्रदूत कौन?
892. जप साधना से साधक कैसा बनता है?
893. किसमें व्यक्ति उपासना नहीं गुणोपासना है?
894. हृदय की आँख क्या है?
895. मूर्च्छा नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या?
896. किससे मन के विकार नष्ट होते हैं?
897. आत्मा को निर्मल बनाना किसका उद्देश्य है?
898. तप क्रिया का प्रधान प्रयोजन क्या है?
899. शारीरिक बल की अपेक्षा मनोबल किसमें चाहिए?
900. जीवनोत्थान का प्रशस्त पथ क्या है?
901. जीवन में अद्भूत तेज का संचार किससे होता है?
902. कौनसा तप ताप बढ़ाता है?
903. अपने आपको तपाना किसका अर्थ है?
904. अपने आपको पहचानना किसका अर्थ है?
905. पाप प्रक्षालन की सर्वश्रेष्ठ औषध क्या है?
906. तप से किये कृत करने की चेष्टा होनी चाहिए?
907. दण्ड का विद्यान किसमें है?
908. प्रायश्चित्त का विद्यान किसमें है?
909. अन्तःकरण से क्या स्वीकारा जाता है?
910. कामना जीवन को कैसा बना देती है?
911. किसका झटका खाकर पुनः उठ सकता?
912. किससे लटका पुनः छूट नहीं पाता?
913. परकृत अहित, कुविचार का ध्यान न देना मनशान्ति का क्या है?
914. कुभावों को जन्म कौन देता है?
915. मेधा और निर्णय शक्ति का विकृत रूप क्या है?


- 916 धर्म और दर्शन जीवन के कौनसे अंग हैं?
- 917 धर्म और दर्शन परस्पर एक दूसरे के क्या हैं?
918. किससे विचार की शुद्धि होती है?
919. धर्म से किसकी विशुद्धि होती है?
920. 'भी' का प्रयोग किसमें होता है?
921. 'ही' का प्रयोग किसमें होता है?
- 922 अनेकान्त दृष्टि की अभिव्यक्ति क्या है?
923. अनेकान्त विचार प्रधान है स्याद्वाद क्या है?
924. स्याद्वाद का दूसरा नाम क्या है?
- 925 तटस्थ दृष्टि से सत्य समझने की चाबी क्या?
- 926 अनेकान्त दृष्टि मूलाधार क्या है?
- 927 ज्ञाता का अभिप्राय है वह क्या?
928. मानव जीवन की अमूल्य संपदा क्या है?
929. संस्कृति का सुदृढ़ कवच क्या है?
930. अन्तर्दर्शन की प्रेरणा कौन देता है?
931. किसका अभिनिवेश उन्माद बन जाता है?
932. धार्मिक के जीवन और व्यवहार में क्या रहती है?
933. जीवन की आन्तरिक निर्मलता क्या है?
- 934 ज्यों ही दीप प्रज्ज्वलित होता है। त्यों ही क्या होता है?
- 935 धर्म से सदगुणों का प्रकाश होते ही किसका नाश होता है?
- 936 राग-द्वेष से परे क्या है?
- 937 आत्मा से परमात्मा का योग कराना किसका ध्येय है?
- 938 सद् विचार और सदाचार का समन्वित रूप क्या है?
939. कौन उन्माद और प्रमाद पर अंकुश लगाता है?
940. किसी के मत का सही हृदय परिवर्तन का कार्य किसका है?
941. आत्मा का दिव्य प्रकाश क्या है?
942. द्रव्य रूप विचार करना क्या है?
943. पर्याय रूप से विचार करना क्या है?
- 944 अश ग्राही कौन है?
945. सर्व ग्राही कौन है?

946. वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है?
947. न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है?
948. कौनसा ध्यान अन्तमुखी होता है?
949. मन की अन्तर्लीनता क्या है?
950. किसका अन्तर्मानस वैराग्य से सराबोर रहता है?
951. कौन देह में रहता हुआ देहातीत रहता है?
952. शुद्ध आत्म निधि के दर्शन किससे हो सकते हैं?
953. किसका ध्यान ही स्वरूप ध्यान है?
954. जीवनोत्कर्ष की मंगलमय साधना क्या है?
955. आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का सर्वोच्च उपाय क्या है?
956. किसे साधने पर ही ध्यान सधता है?
957. कर्म परमाणुओं का आत्मा से पृथक्करण क्या है?
958. अनौपक्रमिक निर्जरा का नाम क्या है?
959. साविपाक निर्जरा किसे कहते हैं?
960. किस निर्जरा में विपाकोदय नहीं होता है?
961. किसमें केवल प्रदेशोदय ही होता है?
962. लब्धि का प्रयोग किस दशा तक होता है?
963. कौनसा साधक लब्धि का प्रयोग नहीं करता?
964. आश्रव रोकने से क्या क्षय होती है?
965. एक दिन से छः माह तक का अनशन तप कौनसा है?
967. कौन विकारों को नष्ट कर वीतराग बनाता है?
968. समता योग का अन्तिम सौपान क्या?
969. तितिक्षा वृत्ति की परीक्षा क्या है?
970. कब पाप के प्रति भय और घृणा नहीं रहती?
971. आत्मानंद का शोषण और शक्तियों को क्षय कौन करता है?
972. प्रतिकूल कार्य भी अनुकूल कब हो जाते हैं?
973. कौन स्वयं दुःख दे, अपयश दूसरों को दिलाता है?
974. कौन स्वयं भलाकर यश और श्रेय दूसरों को देता है?
975. किसका पुण्य पुण्यानुबंधी है?
976. मानसिक निर्णय क्या है?




- 977 व्रत एक प्रकार का क्या है?
- 978 मन किसके बिना अस्त व्यस्त रहता है?
- 979 मर्यादा स्वीकार करना क्या है?
- 980 कौन व्रत का अधिकारी नहीं?
- 981 व्रतधारी को किससे मुक्त रहना चाहिए?
- 982 दोषों का परिहार किससे होता है?
- 983 आत्मिक शक्ति का संवर्धन किससे होता है?
- 984 धार्मिक जीवन की रीढ़ क्या है?
- 985 किसमें ग्रहण किया व्रत सुव्रत नहीं है?
- 986 क्या प्रदान करने की नहीं ग्रहण की वस्तु है?
- 987 किसका उद्देश्य जीवन को आदर्श बनाना है?
- 988 किसके लिए विश्वास नहीं तथ्य अपेक्षित है?
- 989 अप्रिय सत्य, तथ्य को बोलने सुनने वाले क्या?
990. कौन पथ अति कठिन है?
- 991 कौन सूर्य की भाँति प्रकाशित होता है?
992. सत्य को जानते हुए मौन रहना कैसा है?
993. किसे अन्य की भूलों पर ध्यान देने का समय नहीं?
- 994 केवल सम्प्रदाय वादी किसका दर्शन नहीं कर सकता?
- 995 किसके रूप असंख्य अनन्त एव असीम है?
- 996 लघु सरोवर की तरह सीमित कौन?
- 997 विराट सागर की तरह असीम क्या?
- 998 ब्रह्मविद्या का सच्चा अधिकारी कौन?
999. सभी सद्गुणों का निवास कहां?
- 1000 भग्न सत्य में किसकी प्रमुखता रहती है?
- 1001 नग्न सत्य में किसकी बहुलता होती है?
- 1002 गुण सत्य में मात्र क्या होती है?
- 1003 कौन स्वयं सिद्ध होती है?
- 1004 जीवन का मूल तत्त्व क्या है?
- 1005 व्यावहारिक जीवन का मूलाधार क्या है?
- 1006 आध्यात्मिक साधना का प्राण क्या है?

- 1007 उज्ज्वल चरित्र का सजग प्रहरी कौन?
- 1008 आत्म साक्षात्कार का साधन क्या?
- 1009 किसका पुण्य पापानु बधी होता है?
- 1010 कौन वर्तमान को सफल सुन्दर बनाने प्रेरणा देता है?
- 1011 स्वकृत कर्म और पुरुषार्थ महत्ता का प्रतिपादक कौन?
- 1012 कर्म के अस्तित्व को सिद्ध कौन करता है?
- 1013 पाप रूपी विष को उतारने वाला गारूडी मंत्र क्या?
- 1014 त्रिकालिक दोषों की शुद्धि कौन करता है?
- 1015 किस मन से की प्रार्थना आत्म वचना है?
1016. प्रार्थना याचना नहीं वह तो सर्वतो भावेन क्या है?
- 1017 प्रभु के सम्मक्ष आत्म समर्पण करना व्यथा है?
- 1018 अन्तः करण की पवित्र पुकार क्या है?
- 1019 अन्धेरी रात्रि के सदृश कौन है?
1020. किससे शक्ति का ह्रास होता है?
- 1021 अपने प्रियजनों के स्वस्थ विकास में बाधक कौन?
- 1022 विवेक के जागने पर कौन पराजित हो जाता है?
- 1023 महामोह का विषयाभिलाषी मन्त्री कौन?
1024. महामोह की पत्नि कौन?
- 1025 पर-भाव मिटते ही क्या समाप्त हो जाता है?
- 1026 दैहिक ममत्व त्यागे बिना क्या नहीं मिटता?
- 1027 मरने की कला सीखने वाला क्या हो जात है?
1028. अतिदूर विचार सप्रेषण के लिए क्या अनिवार्य है?
- 1029 आत्मिक मौन क्या है?
- 1030 किससे मन पर गहरे घाव हो जाते हैं?
- 1031 जीवन का विकास किससे रूकता है?
- 1032 वासना की आग किस वायु से भडकती है?
- 1033 किसके दर्शन से काम वासना जागती है?
- 1034 किसे न भय होता है न लज्जा ही?
1035. व्याकुलता का कारण क्या है?
1036. कौन विष से भी अधिक भयानक है?



- 1037 किसका उन्माद थोड़ी देर मगर पछतावा बहुत देर रहता है?
- 1038 किस मित्र से सदा बचना चाहिए?
- 1039 उद्दाम वासनाओं को सीमित करने का उपक्रम क्या?
- 1040 उपयोग में किसका हित प्रमुख होता है?
- 1041 उपभोग में क्या प्रमुख होती है?
- 1042 धर्म की जड़ किस पर आधृत है?
- 1043 कौनसा वटवृक्ष शनैः शनैः बढ़ता है?
- 1044 मन से सत्य बोलने का संकल्प क्या है?
- 1045 सत्य बोलने की चेष्टा क्या है?
- 1046 सत्य बोलना क्या है?
- 1047 अन्तः करण की विशुद्धि किससे होती है?
1048. सत्य को मधुर शब्दों में कहना शब्दों का क्या है?
1049. हृदय किससे शुद्ध होता है?
1050. सब सद्गुण किससे ढ़क जाते हैं?
1051. सत्य का मुखौटा पहनकर ही कौन प्रतिष्ठित होता है?
1052. किसको बोलने की योजना बनानी पड़ती है?
- 1053 जड़ चेतन में भेद विज्ञान करना क्या है?
- 1054 भेद विज्ञानी साधक का मरण कौन सा होता है?
1055. आत्म विकास से रूचि कौन जगाता है?
- 1056 किसका फल संसार है?
1057. किसका फल मोक्ष है?
- 1058 क्रिया का महत्व किससे है?
- 1059 परमात्मा भाव का बीज क्या है?
1060. किसके बिना सद्गति नहीं होती?
- 1061 कौन सदा ही विपरीत निश्चय करता है?
- 1062 स्वभाव से ही कौन अभिमानी है?
- 1063 मिथ्या दर्शन की पत्नी सम कौन?
- 1064 निश्चय सम्यग्दर्शन क्या है?
1065. व्यवहार सम्यग्दर्शन क्या है?
- 1066 किसका शरीर संसार में और मन मोक्ष में रहता

- 1067 सम्यक्त्व का आधार क्या है?
- 1068 किसके लिए मिथ्याश्रुत भी सम्यकश्रुत हो जाता है?
- 1069 किसके लिए सम्यक श्रुत भी मिथ्या श्रुत है?
- 1070 सातव्य और धैर्य किसमें जरूरी है?
- 1071 मनः शान्ति किसका रहस्य है?
1072. कौनसा मार्ग सदैव कठिन ही है?
1073. साध्य की प्राप्ति तक किसका महत्व है?
1074. ध्यान सिद्ध होने पर साधना में क्या आता है?
- 1075 किसे तोल की दृष्टि से नहीं मोल दृष्टि से नापना चाहिए?
1076. साधना की उदात्तता कैसा होने में है?
1077. चमत्कारों की प्रसव भूमि क्या?
1078. साधना का आदर्श क्या नहीं है?
1079. आत्मा की शुद्ध निर्विकारी दशा क्या है?
1080. मानव साधना से क्या बन सकता है?
1081. मानव विराधना से क्या बन सकता है?
- 1082 विलासिता जीवन की क्या है?
1083. अपने आपका क्या करना कठिन है?
1084. आत्म प्रदेशों में स्थिरता क्या है?
1085. कौनसा मार्ग अदूर दर्शिता का है?
1086. स्वयं को बचाने कौन उद्यत रहता है?
- 1087 स्वयं को मिटाने कौन तत्पर रहता है?
1088. स्वार्थ सिद्ध करने की आकांक्षा की पहल किसमें है?
- 1089 समस्त प्रवृत्तियों का मूल केन्द्र क्या है?
- 1090 काय संवर की परिपक्वता के लिए क्या है?
1091. आत्म भाव स्थिर रहने का उपाय क्या है?
1092. साधक की मुख मुद्रा पूर्णतः शान्त कब होती है?
1093. कौन मौत का आह्वान न हो सावधानी का सूचक है?
- 1094 जीवन की अन्तिम साधना क्या है?
1095. कौन मृत्युञ्जयी की कला सिखाती है?
1096. जीवन शुद्धि और मरण शुद्धि की प्रक्रिया क्या?



- 1097 विचारों का सशोधन किससे होता है?
- 1098 जीवन का सर्वोत्तम साथी कौन?
- 1099 किससे श्रुत का सग्रह होता है?
- 1100 बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है?
- 1101 दुःखों से मुक्त कौन बनाता है?
1102. किससे मन में सत्सस्कार जागृत होते हैं?
- 1103 मन एकाग्र और स्थिर किससे बनता है?
- 1104 किससे संशय निवृत्त होता है?
- 1105 शकाओं के निरसन की क्षमता किससे आती है?
- 1106 अतिचारों की शुद्धि किससे होती है?
- 1107 किसकी निरन्तरता से सूत्र विछिन्न नहीं होते?
- 1108 प्रशस्त अध्वसाय का मार्ग क्या?
- 1109 किसका लक्ष्य अपने आपको पाना है?
- 1110 आत्मज्ञान का द्वार कौन खोलता है?
- 1111 किस अभाव में प्राचीन विधाएँ विस्मृत हुईं?
1112. व्यक्ति समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण की क्षमता किसमें है?

भाग-10-11

- 1 वीतराग भाव में आना सुख का क्या है?
- 2 सुख का स्वभाव कैसा है?
- 3 काम-भोग जन्म सुखों में क्या छिपी है?
- 4 आनंद का अक्षय कोष कौन है?
- 5 सुख की खोज में इधर-उधर कौन भटकता है?
- 6 सच्चा सुख पाने का क्या बनना चाहिए?
- 7 कौन अपने आप में सुख रूप है?
8. सब जीवों को क्या प्रिय है?
9. सुखी कौन रह सकता है?

- 10 इच्छाजयी अपने आप में क्या रख सकता है?
11. प्रत्येक के सुख और कल्याण की क्या करनी चाहिए?
- 12 पदार्थ जन्य सुख कैसा है?
- 13 आध्यात्मिक सुख कैसा है?
- 14 ज्ञानी पुरुष किस सुख को चाहते हैं?
15. अज्ञानी किस सुख की कामना रखता है?
16. इच्छा व्यक्ति को क्या कराती है?
17. इच्छा निवृत्ति में क्या रहा हुआ है?
18. किसके बिना सुख का अनुभव नहीं होता?
19. सुख का संबंध किससे है?
20. शांति का संबंध किससे है?
21. आनंद का संबंध किससे है?
22. द्वेष को हटा, राग को घटा कैसे बन सकते हैं?
- 23 विरक्त भाव में सदा रहने वाला कैसा रहता है?
24. स्वतंत्र? स्वावलम्बी सदा कैसी नींद लेता है?
25. कौन सुख का भागीदार बनता है?
26. सच्चे सुख की पहचान कब होती है?
27. गर्मी से व्याकुल ही छाया सुख का क्या करता है?
28. मात्र वर्तमान सुख तक कौन सीमित है?
- 29 कौन वर्तमान के साथ-2 भविष्य को सुखी चाहता है?
30. दण्ड या पारितोषिक रूप मानव का क्या है?
31. सुखाकाशी को कैसे रहना चाहिए?
32. भलाई में सुखों का क्या बहता है?
33. सुख और दुःख दोनों क्या है?
34. फिल्म हॉल सदृश क्या है?
35. धूप छांह वत् जीवन में चिर नाता किसका है?
36. जीव को सुख-दुःख दाता कर्म कौनसा है?
37. सुख किसके योग से मिलता है?
38. समझ के फल स्वरूप जीवन में क्या मिलती है?
- 39 धर्म, कर्म और ससार का स्वरूप जानने से क्या आती है?

- 40 दुःख दरिये में भी सुखानुभव कौन कर सकता है?
- 41 प्रज्ञावान दुःख में सुखानुभव कौन कर सकता है?
- 42 दुःख रूप क्या होती है?
- 43 अविवेक से कौन सा दुःख बढ़ता है?
- 44 वियोग जन्य दुःख कब होता है?
- 45 हानि जन्य दुःख किस कारण से होता है?
- 46 अपमान जन्य दुःख क्यों होता है?
- 47 दुःखों का मूल कारण क्या है?
- 48 दुःख किस कारण से बढ़ता है?
- 49 जन्म-जरा-मरण रूप दुःखों का मूल क्या है?
- 50 कौन अपने पाप से दुःखी होता रहता है?
- 51 दुःख का कर्त्ता कौन है?
- 52 अपूर्णता किसका गौरव है?
- 53 अपूर्णता की एक मात्र सम्पदा क्या है?
- 54 दुःख किसमें निहित रहा है?
- 55 अशात एवं उद्धित चित्त किससे रहता है?
- 56 दुःख का बीज क्या है?
- 57 विपदा को भला किसने बताया?
- 58 चन्द दिनों में हिताहित कौन बता देती है?
- 59 दुःख नाश की अपेक्षा किसे नष्ट करना चाहिए?
- 60 दुःख हेतु नाश से कौन स्वतः नष्ट हो जाता है?
- 61 वस्तु स्वरूप समझ लेने से क्या नहीं होता?
- 62 उपेक्षा करते रहने से क्या कम हो जाता है?
- 63 दुःख कहा रहता है?
- 64 धनवान होकर के भी कौन दुःखी रहता है?
- 65 ससार में पहला दुःख क्या है?
- 66 निर्धन क्यों दुःखी है?
- 67 निर्धन से अधिक दुःखी कौन?
- 68 निर्धन और ऋणदार से भी अधिक दुःखी कौन?
- 69 रूग्ण से भी अधिक दुःखी कौन?

- 70 आज दुःख क्यों बढ़ रहे हैं?
- 71 यह सारा ससार कौन है?
- 72 अपने को कौन दुःख देता है?
- 73 दुःख कब दुःख रूप नहीं बनता है?
- 74 यह ससार भगवान को कब चाहता है?
- 75 दिखने वाला सुख समय पर किसमे बदल सकता है?
- 76 कौन सदैव दुःखी रहता है?
- 77 दुःख प्रभु का आशीर्वाद है यह किसने कहा?
78. विपदाओं में मन कैसा हो जाता है?
79. कौन आता जाता रहता है?
80. दुःख की कटुता से सुख कैसा लगता है?
- 81 मानव मन को चतुर कौन करती है?
- 82 हर ससारी को कोई न कोई क्या लगा रहता है?
83. दुःख याद कर्ता का क्या बढ़ता जाता है?
84. ससारी का स्वार्थी और छलावा सा क्या है?
85. कौन कभी अकेली नहीं आती है?
86. आत्मा आनन्दमय होन पर भी दुःख पात्र क्यों बनी?
- 87 जहातहां शक, शका करना क्या खोना है?
- 88 ज्ञान, गुण और वय ज्येष्ठ के प्रति नम्र रहना क्या है?
- 89 समस्त गुणों का आधार क्या है?
- 90 विद्या-शिक्षा का पात्र कौन नहीं?
- 91 उत्तराध्ययन का प्रथम अध्ययन क्या है?
- 92 अपराधी को दण्ड देने पर भी विनयी का चित्त कैसा रहता है?
- 93 स्वय का यथार्थ मूल्यांकन क्या है?
94. धर्म का मूल क्या है?
- 95 किस गुण से झुककर व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है?
96. शिष्य किससे शोभित होता है?
- 97 गुरु के मनोनुरूप प्रवृत्ति कौनसा शिष्य करता है?
- 98 विनयवान शिष्य को क्या प्रिय होता है?

- 99 कोई शिष्य विनयवान कब बन सकता है?
- 100 श्रद्धा-समर्पण भाव से कौनसा गुण टिकता है?
- 101 विनयशील का व्यवहार कैसा रहता है?
- 102 नम्र स्वभावी का क्या सधता जाता है?
- 103 भव सागर से तारने वाली वस्तु क्या है?
- 104 ससार सागर में डूबाने वाला कौन?
- 105 प्यासा जीवन मे कौन रहता है?
- 106 संसार में सार्थक क्रिया है?
107. कौन जरूरत से ज्यादा नमता है?
108. कमान झुककर क्या करती है?
109. चीता हमला करने से पहले क्या करता है?
110. कौन सबको प्रिय लगता है?
111. किसे शिक्षा देते हुए गुरु प्रसन्नतानुभव करते हैं?
112. सज्जन समृद्धि शील होकर भी कैसे रहता है?
113. गुरु से क्या रखना चाहिए?
114. छोटे के प्रति बड़ों का कैसा व्यवहार होना चाहिए?
- 115 छोटों को बड़ों को क्या देना चाहिए?
- 116 सर्वगुणों का दृढ़ स्तभ क्या है?
- 117 विनय धर्म का क्या है?
118. जीवन का शृंगार क्या है?
- 119 गुणियों के सम्मान हेतु झुकना क्या है?
- 120 अपने स्वार्थ के लिए झुकना क्या है?
121. समर्पण भाव में कौनसी वृत्ति छिपी है?
122. विनय करने मे कौनसा भाव रहा हुआ है?
123. जीवन मे कोमलता कब प्रवेश करती है?
124. 14 पूर्वधर होन पर गौतम स्वामी ने प्रश्न क्यों पूछे?
125. प्रभुता किससे प्राप्त होती है?
126. दोष का विचार किये वगैर दोष बताना क्या है?
127. पर दोष ढकना और स्वदोष कहना क्या है?
128. जब कोई निदा करे तब क्या करना चाहिए?

129. निदा करने से क्या होते हैं?
130. निदा करना क्या है?
131. आत्म द्वास करने वाला मधुर विष क्या है?
132. पर दोष दर्शन की दृष्टि किसकी होती है?
133. आत्म निर्मलता का लाभ कब होता है?
134. पीठ मास खाने तुल्य क्या है?
135. स्व प्रशंसा और पर निदा किसके समान है?
136. स्व निंदा से क्या प्राप्त होती है?
137. प्रशंसा किसके समान सुहाती है?
138. व्यक्ति को बेहोश कौन बनाती है?
139. दर्द की तरह कौन कचोटती रहती है?
140. व्यक्ति को सजग कौन रखती है?
141. सबसे बड़ा उपकारी कौन?
142. अपने पास किसे रखना चाहिए?
143. कौन सहज ही अपने दोष-चुन-2 बतलाता है?
144. मानव दूसरों का क्या देख प्रसन्न होता है?
145. किसकी निदा करने वाला भव भवान्तर दुःख पाता है?
146. अपराध का पश्चाताप करना क्या है?
147. सत्कार्यों की आलोचना से भावों में क्या आती है?
148. पर निदा करने में अपना महत्व कौन समझता है?
149. जहां अच्छी बात की इज्जत न हो वहां क्या करना चाहिए?
150. आत्मनिदा धर्म का कौनसा अंग है?
151. आलोचना का विकृत रूप क्या है?
152. पर निदा सुनना क्यों नहीं चाहिए?
153. कलह और फूट का कारण क्या है?
154. अधमाधम कोटि का कौन कहा गया है?
155. निंदक से सभी क्या रहते हैं?
156. सदैव पर का सर्वनाश कौन चाहता है?
157. कुकृत्यों के प्रति आत्म ग्लानि होना क्या है?
158. अध पतन किससे होता है?

- 159 उत्थान किससे होता है?
- 160 व्यक्तित्व में निखार किससे आता है?
- 161 दूसरे प्रभावित किससे होते हैं?
162. जिहवा पर नियंत्रण कौन नहीं रख सकता?
- 163 वाणी किसका चित्रण है?
164. गुण-अवगुण की पहचान किससे होती है?
- 165 अप्रिय कटु बोलने के साथ-2 असत्य कौन बोलता है?
166. मानव का सच्चा शृंगार क्या है?
- 167 सक्षिप्त में महत्त्व पूर्ण बात कहना क्या है?
168. कैसे वचन बोलने से पराये अपने हो जाते हैं?
169. आवश्यकता से ज्यादा बोलने से क्या होता है?
170. भाषा समिति से वाणी की क्या होती है?
- 171 अन्तर्हृदय की बात किससे जान पड़ती है?
172. कटु वचनों से परस्पर क्या बढ़ता है?
173. कटु वचन कहां चुभते रहते हैं?
174. कौनसे वचन सारे शरीर को बेदते हैं?
175. श्रवण द्वार से कौन प्रवेश करते हैं?
176. विष घोलने की अपेक्षा क्या रखना अच्छा?
177. किससे पहले विचार करना चाहिए?
178. जहर और अमृत का बास किसमें है?
179. किसकी वाणी सदृश अन्य वाणी नहीं हैं?
180. कौन नहीं बोलने से कष्ट उठाता है?
181. मनुष्य बोलकर क्या उठाता है?
182. ओज और तेज से प्रभावशाली कौन?
183. भाषा किस रूप में रहती है?
184. किसके लिए सोचकर बोलना जरूरी है?
185. आज आदमी कैसा बन/रह भेद डालता है?
186. स्थानांग सूत्र में भावना को क्या कहा है?
- 187 स्व स्वरूप बोध का लाभ किससे होता है?
188. साधक का आचरण कैसा रहना चाहिए?

189. भाव हीन व्यक्ति कभी क्या नहीं हो सकता?
190. अशुभ शुभ में किसकी प्रबलता से बदलता है?
191. भावों के अनुसार क्या मिलता है?
192. संसार के रिश्ते नाते किसके परिणाम है?
193. परिवार समाज और राष्ट्र भावों की क्या है?
194. जीवन का उत्थान पतन किस पर आधारित है?
195. सुखानुभव कौन जीवन में करता है?
196. विचार- के अनुसार क्या होता है?
197. शब्द और भाव में महत्त्वपूर्ण कौन है?
198. प्रभु के समक्ष जन्म जात दुश्मन दुश्मनी क्यों भूल जाते हैं?
199. प्रसन्नता वर्धक होनेसे शुभ भावना क्या है?
200. शुभाशुभ संकल्प किसका रूप है?
201. कौन अपने आप में भला बुरा नहीं है?
202. संसार में भला-बुरा फिर क्या है?
203. भावना के अनुरूप व्यक्ति क्या होता है?
204. कार्य से अधिक महत्व किसका है?
205. दवा से भी ज्यादा क्या काम करती है?
206. शुभ भावना से किसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है?
207. पुण्य-पाप का संबंध किससे रहता है?
208. पुण्य-पाप का मुख्य केन्द्र क्या है?
209. चारित्र्य का आभूषण क्या है?
210. मन की शुभाशुभ तरंगे क्या है?
211. भावों से आत्मा का भावित होना क्या है?
212. कामना रहित तप क्या कहलाता है?
213. अमृत सा भोजन भी कब जहर बन जाता है?
214. समस्त शक्तिएं किसमें छिपी है?
215. हिंसक भावों से तंदुलमच्छ मर कर कहा जाता है?
216. सबसे सुलभ क्या है?
217. सद्भाव और व्यवहार कुशलता से क्या नष्ट होती है?
218. चित्त की कोमलता क्या है?

- 219 पर दुःख हरने स्व सुख का बलिदान क्या है?
- 220 अन्तःकरण किसका उद्गम स्थल है?
- 221 मानवता का विकास किन भावों से होता है?
- 222 सामाजिक प्राणी कौन है?
- 223 परस्पर के सहयोग से किसका अस्तित्व टिकता है?
224. संवेदनशील ही क्या दे सकता है?
225. मोहित करे, पागल बनावे वह कौन?
226. पर से सुख कौन चाहता है?
- 227 पर दुःख हरना कौन चाहता है?
228. करुणा उपदेश नहीं क्या चाहती है?
- 229 कौन ताप लगने से पिघलता है?
230. पर दुःख में कौन द्रवित बनते हैं?
231. मानवता को परखने की सच्ची कसौटी क्या है?
232. किस भाषा को बहरे सुन, गूंगे समझ सकते हैं?
233. दान की अपेक्षा किसका महत्त्व अधिक है?
234. धर्म की माता कौन है?
235. रहम कर्ता पर रहम कौन करता है?
236. सम स्थिति वाले के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए?
237. दया के लिए किसकी आवश्यकता है?
238. प्राण रक्षा को क्या कहते हैं?
239. किसके समान धर्म नहीं है?
240. किसके तुल्य तप नहीं है?
241. किससे बढ़कर व्याधि नहीं है?
242. सुख शांति का जीवंत स्वर्ग धरा पर कैसे आ सकता है?
- 243 नरक सदृश धरा कौनसी है?
- 244 आज दुःखियों को क्या करते हैं?
245. पर सुख में सुखी होना क्या है?
246. पर के दुःख में दुःखी होना क्या है?
247. लेने और देने वालों के लिए कौन सुखकर है?
248. किसके कण-2 में करुणा का वास है?

- 249 दूसरों का हित करना क्या कहलाता है?
- 250 किसकी मरणोपरान्त युगों-2 तक यशःकीर्ति रहती है?
- 251 मानव भव मे किस भावना का विकास हो सकता है?
- 252 परमेश्वर का वास किसमें है?
253. परोपकार के लिए किसकी सम्पत्ति होती है?
254. दूसरों की भलाई कर क्या करना चाहिए?
255. परोपकार सेवा से क्या मिलता है?
256. परोकारी के लिए जग में कुछ भी क्या नहीं है?
- 257 अपनी लगी और दूसरों की लगी दिल्लगी किसे सूझती है?
258. अखिल विश्व से प्रेम कौन करता है?
259. परोपकार का गुण कब खिलता है?
260. परोपकारी किस गुण की रक्षा करता है?
261. दूसरों का उपकार करने से बढ़कर क्या नहीं है?
262. दूसरों को कष्ट देने समान क्या नहीं है?
263. सद संस्कार देना परोपकार का कौनसा उपाय है?
264. शास्त्र श्रवण करना किसका शृंगार है?
265. कर का आभूषण क्या है?
266. किसके प्रचार से अहं पुष्टि होती है?
- 267 ओस से किसका तरीका सिखना चाहिए?
268. किसकी जिंदगी सफल होती है?
269. वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है?
270. जिंदगी के कौन से काम पिढ़ी दर पिढ़ी के लिए होते हैं?
271. अन्त समय सत दधिची ने क्या परोपकार किया?
272. स्वार्थ त्याग के बिना क्या नहीं हो सकता?
273. परोपकार स्वयं का क्या निहित है?
274. सत्पथ कौन दिखलाते हैं?
275. जीवन के अज्ञान अंधकार को कौन हरते हैं?
276. कनक ओर कामिनी के त्यागी कौन होते हैं?
277. शिष्यों को संस्कारित कौन करते हैं?
278. उर्ध्वमुखी दृष्टि किसकी संगति से बनती है?

- 279 जड़ चेतन के भेद विज्ञान के विज्ञाता कौन होते हैं?
- 280 सद्गुरु जड़ सम्पर्क से क्या दिलाते हैं?
281. विकास साधने के लिए किसकी जरूरत रहती है?
- 282 प्रत्येक पर्वत पर क्या नहीं मिलते हैं?
283. प्रत्येक गजराज के मस्तक पर क्या नहीं मिलते?
284. प्रत्येक वन में क्या नहीं पाया जाता?
285. सब जगह कौन नहीं मिलते?
286. समता से क्या होता है?
287. धर्म और परमात्मा का स्वरूप कौन बताते हैं?
288. मन का ताला किसके बिना नहीं खुलता?
289. परमेश्वर का सगुण रूप कौन?
290. गुणपय को संत रूपी हंस क्या करते हैं?
291. दोष रूपी जल को कौन छोड़ते हैं?
292. कुम्भार के सदृश कौन है?
293. कुम्भ के समान कौन है?
294. कौन ध्यान से चोट पर चोट मार खोट निकालते हैं?
295. संत कितने गुणों के शिक्षक होते हैं?
296. कौन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं?
- 297 कौन सोता हुआ भी जागता है?
298. साक्षात् ब्रह्म के तुल्य क्या है?
299. निदा प्रशंसा में कैसे रहना चाहिए?
300. सबके प्रति समभाव कौन रखते हैं?
301. कौन स्वयं मंगल स्वरूप है?
302. जीवन मरण एक जैसा किसके लिए है?
303. सद्गुरु किसके भण्डार होते हैं?
- 304 सद्गुरु के सान्निध्य का लाभ कौन नहीं ले पाता है?
- 305 पतित पावन कौन कहलाते हैं?
306. गुरु के ज्ञान तीर्थ में स्नानकर शिष्य कैसा बन जाता है?
307. दुःख में साथ देने वाले सच्चे मित्र कौन?
308. आत्म भ्रान्ति सम क्या नहीं है?

309. सद्गुरु किसके समान है?
310. किसके समान पथ्य नहीं है?
311. ध्यान जैसी क्या नहीं है?
312. ससार में मिलना कौन दुर्लभ है?
313. गुरु वेष में कौन धरा पर भारभूत है?
314. समकित रत्न पाने कौनसी चाबी जरूरी है?
315. गुरु आसन पर साक्षात् कौन आसीन रहते हैं?
316. जैसे के साथ तैसा व्यवहार कौन नहीं करते?
317. दुश्मन के प्रति संतो के भाव कैसे रहते हैं?
318. समाज में छाये कुरीति रिवाज दुराचार को कौन हटाते हैं?
319. स्वसुख सुविधा आराम की चिन्ता कौन नहीं करते हैं?
320. जीवन नौका के कुशल नाविक कौन है?
321. सच्चे सुख शांति की राह निःस्वार्थ कौन दिखाते हैं?
322. संकल्प विकल्प रहित शात वृत्ति को क्या कहते हैं?
323. सकल्प विकल्प क्षीण किससे होते हैं?
324. बहुमूल्य विचार लेने के लिए क्या भंग करना चाहिए?
325. बोली पर नियंत्रण न रखने से क्या होते हैं?
326. मौनावस्था में वृत्तियां कैसी हो जाती है?
327. शांति का मूल मंत्र क्या है?
328. विवाद का कारण क्या है?
329. मौन किन-किन कार्यों को सिद्ध करता है?
330. मौन कौनसा अस्त्र है?
331. आत्म शक्ति किससे संचित होती है?
332. मोनाभ्यास से कौनसी सिद्धि मिलती है?
333. वाणी से प्रखर कौन है?
334. अधिक बोलने से क्या बढ़ती है?
335. किस दुःख को मन में रखना चाहिए?
336. कोई किसे बांट नहीं सकते हैं?
337. बुद्धिमानों का सद्गुण क्या है?
338. एकान्त आत्मा का सर्वोपरि मित्र कौन?

- 339 मौन रूपी वृक्ष पर कौन सा फल लगता है?
- 340 मानसिक सतुलन किसका सही रहता है?
- 341 अप्रिय सत्योच्चारण से क्या अच्छा है?
- 342 आत्म चिन्तन में रत रहना क्या है?
- 343 ध्यान केन्द्रित क्या रखने से होता है?
344. कम शब्दों में सारभूत कथन का क्या रखना चाहिए?
- 345 मोतियों से अधिक कौनसे शब्द किमती है?
346. बोलने की अपेक्षा अधिक क्या करना चाहिए?
- 347 संघर्ष विवाद और कलह का द्वार कब बंद होते हैं?
- 348 घृणावाद कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, पर परिवादादि किसके पाप हैं?
- 349 न बोलना मौन का कौनसा स्वरूप है?
350. अक्षय शक्ति एवं आनंद का स्रोत क्या है?
351. बोलने से पहले कौन सोचता है?
352. कौन किसके साथ कभी विश्वास घात नहीं करता?
353. आत्मा के उत्तरोत्तर गुणों के विकास को क्या कहते हैं?
354. आत्मा के न्यूनाधिक परिणाम क्या कहलाते हैं?
355. समवायाग में गुणस्थान को क्या कहा है?
356. आत्म निकास में मुख्यतः बाधक कौन?
- 357 गुणस्थानों का प्रयोग किसमें है?
- 358 दो गुण स्थान किनमें पाते हैं?
- 359 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को क्या कहते हैं?
360. मिथ्यात्व के कितने भेद हैं?
- 361 12 गुणस्थान में दर्शन और चारित्र विकास क्यों नहीं होता?
- 362 अनंतकाल तक ससार परिभ्रमण कौन कराती है?
- 363 मिथ्या श्रद्धान के बावजूद अहिसादि को उत्तम कौन मानता है?
- 364 7 प्रकृतियों के क्षय से क्या प्राप्त होती है?
- 365 आर्त्त और रौद्र ध्यान में कितने गुणस्थान पाते हैं?
- 366 अब्रती में कितने गुण स्थान पाते हैं?
367. आश्रव और मोह तीव्रता मंदता का आधार क्या है?

- 0368 आत्म विशुद्धि का नाम क्या है?
- 0369 तत्त्व अत्तत्त्व का यथार्थ विवेक किसमे नही होता?
- 0370 वैदिक दर्शन गुणस्थान को क्या सजा देते हैं?
- 0371 बौद्ध दर्शन गुणस्थान को क्या सजा देते हैं?
- 0372 आनदानुभव के साथ चौथे गुण स्थान में क्या होता है?
- 0373 जीवन को अवगुणो से गुणोन्मुख का लक्ष्य किसमे है?
- 0374 सम्यग्दर्शन होने पर भी कौन व्रत धार नहीं सकता?
- 0375 पांच गुणस्थान किनमे पाते हैं?
0376. सात गुणस्थान किस शरीर मे पाते हैं?
0377. 4 से 11वें गुणस्थान तक कौनसी समकित है?
- 0378 प्रमाद रहित व्रत पालना किस गुणस्थान में होती है?
0379. सम्यग-मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम क्या है?
0380. सर्व विरति गुणस्थान का नाम क्या है?
- 0381 निवृत्ति बादर गुणस्थान का नाम क्या है?
0382. अनिवृत्ति बादर गुणस्थान का नाम क्या है?
0383. गुणस्थानों और लेश्याओं का संबध किसके समान हैं?
0384. गुणस्थान अकवत है तो लेश्या परिणाम क्या है?
- 0385 क्या पाने वाला कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होता है?
- 0386 शुक्ल पक्षी किस ऋणदार समान है?
- 0387 हास्यादि छः प्रकृतियों में कितने गुण स्थान हैं?
- 0388 दस गुणस्थान किसमें पाते हैं?
0389. पुनर्जन्म की जड़ो का सिचन कौन करते हैं?
- 0390 प्रमादी को सर्वत्र क्या रहता है?
0391. ज्ञान से साधक किन्हे जानता है?
- 0392 दर्शन से उन तत्वों पर क्या करता है?
- 0393 चारित्र से साधक क्या ग्रहण करता है?
- 0394 तपद्वारा उन तत्वों की साधक क्या करता है?
0395. राख से ढके अगार सदृश कपाय किसमें दबे रहते हैं?
- 0396 किस गुणस्थान मे कपाय सर्वथा क्षीण होती है?
- 0397 किस गुणस्थान में लोभ का सूक्ष्म भाग दवाते या क्षीण करते हैं?

- 398 घाती कर्म सर्वथा क्षीण कहा होते हैं?
- 399 केवल ज्ञान और केवल दर्शन किस गुणस्थान मे है?
- 400 योगों की पूर्ण विशुद्धता किस गुण स्थान मे है?
- 401 11 गुणस्थान कहा पाते हैं?
- 402 गुणस्थान किसके सौपान हैं?
- 403 आत्मा अन्तर्मुखी किस गुणस्थान मे बनती है?
- 404 बारह गुणस्थान किसमे पाते हैं?
405. तेरह गुणस्थान किसमे पाते हैं?
- 406 सिद्धात्मा कहां जाकर स्थित होती है?
- 407 मुक्तात्वा आगे गति क्यों नही करती?
- 408 4, 6 से 10, 11 से 14 गुणस्थान कौन फरसते हैं?
409. 1 से 11 गुणस्थान तक कितने कर्मों की सत्ता कहा?
410. मोहनीय को छोड़ सात कर्मों की सत्ता कहा?
411. 13 वे गुणस्थान में कितने कर्मों की सत्ता?
412. अघाती कर्मों को क्षयकर 14 वें गुणस्थान वाले कहां जाते हैं?
413. कर्मभूमि के मनुष्यों में कितने गुणस्थान पाते हैं?
414. भ अरिष्टनेमि का जन्म किस तिथि को हुआ?
415. भ. अरिष्टनेमि का जन्म नक्षत्र क्या था?
- 416 भ. का नाम अरिष्टनेमि क्यों रखा?
- 417 भ अरिष्टनेमि के जन्म से क्या लाभ हुआ?
- 418 भ अरिष्टनेमि शत्रुओं के लिए कैसे थे?
- 419 भ अरिष्टनेमि के कितने गणधर थे?
- 420 भ. अरिष्टनेमि का वश क्या था?
421. भ. अरिष्टनेमि का गौत्र और कुल क्या था?
422. भ अरिष्टनेमि ने सम्यक्त्व किस भव में पाया?
423. पहले दिन ब्रीडा दूसरे दिन अर्थी देख दीक्षा किसने ली?
- 424 पाण्डव कुन्ती और पाण्डु के क्या थे?
- 425 पाण्डव भ अरिष्टनेमि के क्या लगते थे?
426. कस वध के समय भ. अरिष्टनेमि की क्या उम्र थी?

- 427 नौ बार वृक्षारोपण स्वप्न का अर्थ वसुन्धर मुनि से किसने पूछा?
- 428 मुनि ने वृक्षारोपण का अर्थ बताते धनकुमार के लिए क्या कहा?
- 429 9वें भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में क्या होगा?
- 430 भ. अरिष्टनेमि की आयु कितनी थी?
- 431 भ. अरिष्टनेमि के दीक्षा समय कितना तप था?
432. राजीमति और अरिष्टनेमि का स्नेह किस भव से चला?
- 433 किनके उपदेशसे भ. अरिष्टनेमि ने समकित पायी?
434. कृष्ण ने अरिष्टनेमि के बाहुबल की परीक्षा कैसे ली?
435. श्री कृष्ण रच मात्र भी किसकी भुजा नहीं झुका सके?
- 436 श्री कृष्ण ने कस वध किस नगर मे किया?
437. श्री कृष्ण रानियों ने सरस फाग किसे मोहित करने रचा?
438. सरस फाग रच रानियां किसमें कामोतेजना चाहती थी?
439. अरिष्टनेमि को विवाह के लिए तैयार करने सरस फाग किसने रचनाएं
440. सरस फाग रचना के बाद भी अरिष्टनेमि कैसे रहे?
441. किसने कहा समय पर बोए बीज फल दायी होते हैं?
442. अरिष्टनेमि को दुल्हे के रूप में देख चिन्तित कौन हुए?
443. नेमि कुमार ने सारथी से पूछा ये पशु यहा एकत्र क्यों किए?
444. मेरे निमित्त ये मूक प्राणी मरे तो कल्याणकारी नही?
445. अरिष्टनेमि किस युद्ध मे श्री कृष्ण के साथ थे?
446. द्वारिका पर आक्रमण किसने किया?
447. भ. नेमिनाथ ने कितने पुरूषों के साथ सयम धारा?
448. भ. अरिष्टनेमि के साधु कितने, साध्विया कितनी हुई?
- 449 भ अरिष्टनेमि के शासन मे केवली कितने हुए?
450. दीक्षा के बाद अष्टमतप का पारणा कहा किया?
- 451 कितने दिन भ. अरिष्टनेमि छदमस्थ रहे?
452. भ. अरिष्टनेमि के पाचो कल्याणक नक्षत्र क्या है?

- 453 भ. अरिष्टनेमि कितने समय तक कुमार रहे?
- 454 भ कितने लक्षणो के धारक है?
- 455 दीक्षा लेते ही अरिष्टनेमि नेमि भ. को कौन सा ज्ञान हुआ?
- 456 भ अरिष्टनेमि के केवल ज्ञान व निर्वाण पर्वत कौनसा रहा?
- 457 अरिष्टनेमि की निर्वाण तिथि क्या थी?
- 458 भ अरिष्टनेमि की देशना से प्रथम दीक्षित कौन बने?
459. भ अरिष्टनेमि कितने वर्ष केवली रहे?
- 460 बलदेव ने दीक्षा केवली, सयम कितने वर्ष पाला?
461. नमिनाथ और नेमिनाथ के बीच कितना अन्तर रहा?
- 462 बिना आंख के सर्वत्र क्या है?
- 463 मोही व्यक्ति कैसा होता है?
- 464 प्रेम का प्राथमिक सौपान क्या है?
- 465 प्रेम किसका मार्ग है?
- 466 प्रियजन को देखने से क्या उत्पन्न होती है?
- 467 प्रीति से मन में क्या आती है?
- 468 प्रसन्नता से क्या जागृत होता है?
- 469 प्रेम ससार की क्या है?
470. पारस्परिक प्रेम वियोग को कौन जानता है?
- 471 प्रेम है वहा क्या नहीं रहता है?
- 472 लुकाव छिपाव मे क्या नहीं टिकती?
- 473 प्रीति में किसका विचार नहीं होता?
- 474 कौन भार स्वरूप नहीं होती है?
- 475 कौन छिपाये नहीं छिपता है?
- 476 मुख से बोलने पर भी नयन क्या करते हैं?
- 477 जिस घर में प्रेम नहीं वह घर कैसा?
- 478 लाहौर की धौकनी सम किसका हृदय है?
- 479 प्रेम जैसा कोई नहीं है?
- 480 कौन सा प्रेम सर्वोत्तम है?
- 481 वासना किससे संबंधित है?
482. प्रेम किससे संबध रखता है?

483. घृणा किसकी सपत्ति है?
484. मनुष्यत्व का चिन्ह क्या है?
485. देवताओं का स्वभाव कैसा होता है?
486. अपने शत्रु से भी क्या करना चाहिए?
487. शाप दाता को भी क्या देना चाहिए?
488. पापात्माओं को किस दृष्टि से देखना चाहिए?
489. प्रेम और संदेह एक साथ कहां नहीं रहते?
490. राग में क्या छिपी रहती है?
491. परिश्रम को हल्का और दुःख को मधुर कौन बनाता है?
492. किसके प्रकाश से संसार तिरा जा सकता है?
493. सदेह कपट, अहं, स्वार्थ, मर्मकथन ये प्रेम के क्या है?
494. प्रेम से गरीबों को क्या मिलता है?
495. निर्बल को प्रेम से क्या प्राप्त होता है?
496. आनंद का द्वार क्या है?
497. ग्रहण करने लायक क्या है?
498. अन्तिम श्वास तक किसे आराधते रहना चाहिए?
499. कौन सदैव गुणग्राही होते हैं?
500. जीवन का गौरव किससे बना रहता है?
501. संसर में कौन जीवित है?
502. बिना सद्गुण के सुन्दरता क्या है?
503. गुणों का स्थान कौन है?
504. किसकी मृत्यु सबसे बड़ी मृत्यु है?
505. घोघो की प्रचुरता वाला सागर किसकी खान है?
506. मुक्ति को मौलिक आधार क्या है?
507. किसमें सर्वगुणों का समावेश है?
508. पुण्य सौरभ से क्या महकता है?
509. कौन स्वगुणगाकर लघु बन जाता है?
510. रत्न खो जाने सदृश क्या खोना है?
511. कौन सर्वत्र पूजनीय बनता है?
512. हंस किससे प्रीति रखता है?

- 513 भौरों कतेकी के फूलो से क्या रखता है?
- 514 चन्दन वन में कौन आनद मनाते हैं?
- 515 रूप कहा तक पहुचता है?
- 516 विद्वान के लिए महत्वपूर्ण क्या है?
- 517 मूर्ख के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
- 518 छोटी-2 बातो से क्या बनता है?
- 519 वय और लिंग किसका नही देखा जाता है?
- 520 लाभ उठाने वाला ही धनी का क्या करता है?
521. भय और स्वार्थ से किसका स्वागत होता है?
- 522 विद्या का सम्मान भी कब तक होता है?
523. सदगुणों का सम्मान कहां और कब तक?
- 524 किसको दुनिया अन्तः करण से चाहती है?
- 525 सदगुण और प्रसन्नता किसके समान है?
- 526 मानव मोती विभूषित सर्पजैसा कब है?
- 527 सबके सुख की कामना कौन करता है?
528. उदार हृदयी कोन होता है?
529. परमात्म स्तुति कर्ता कैसा बन जाता है?
- 530 आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य से क्या करनी चाहिए?
- 531 प्रार्थना कब कर सकते हैं? -
- 532 प्रार्थना किन भावों से होनी चाहिए?
- 533 आत्म विश्वास का लाभ किससे होता है?
- 534 आस्तिकता की प्रतीक क्या है?
- 535 व्यवधान किससे नष्ट होते हैं?
536. निःस्वार्थ सेवा का सच्चा अर्थ क्या है?
537. पश्चाताप कर्ता किससे मुक्त होता है?
- 538 अभिमान अवयुग किससे नष्ट होता है?
- 539 दिव्य गुण धारक क्या कहलाते है?
- 540 शब्दिक पुकार से अन्तर की पुकार क्या है?
541. बाह्य पट के बद होने पर क्या खुलता है?
- 542 चढते हुए विशुद्ध भावो के साथ प्रार्थना करने से क्या बढ़ता है?

- 543 असीम आनद को कैसे वाणी में प्रकट कर सकते हैं?
- 544 वैराग्य भाव में स्थिरता किससे आती है?
- 545 सासारिक वासना और देहा शक्ति से विरक्त कौन?
- 546 क्षयोपशम भाव से क्या उत्पन्न होता है?
- 547 आत्म कल्याण का लक्ष्या क्या है?
548. लाकैपणा की भावना में क्या छिपी रहती है?
- 549 दुःखों का अनुभव कौन करता है?
- 550 मृत्यु कब आती है?
- 551 प्रिय-भोग भी कब छूट जाते हैं?
- 552 सुखदायी साधना भी दुःखदायी कब बन जाते हैं?
- 553 कुछ भी कहा स्थिर नहीं है?
554. जम्बू कुमार किस वय में वैराग्य बने?
555. कृष्ण मृत्यु का विश्वास न कर कौन उठाये-2 घूमे?
556. बुल-बुले के समान कौन चचल है?
557. किसे जानता हुआ भी मनुष्य नहीं जानता?
558. बादशाह और भिखारी में कब फर्क नहीं रहता?
559. सच्चा सुख किसे मिलता है?
- 560 वैरागी को क्या अच्छा नहीं लगता है?
561. भोग किसका भोग करते हैं?
- 562 अपना दूसरों को कैसे बनाया जा सकता है?
- 563 उद्दण्ड अवारों को कैसे सुधारा जा सकता है?
564. हृदय परिवर्तन किससे होता है?
- 565 आँखों से नहीं मन से कौन देखता है?
566. कौन दूर रह कर भी निकट होता है?
567. कौन निकट रहकर भी दूर रहता है?
- 568 क्या मागने से नहीं देने से मिलता है?
569. स्वार्थ और वासना जन्म प्रेम कैसा है?
- 570 दिखावटी प्रेम किससे बढ़ता है?
571. सम्यग्दर्शन का सातवा अंग कौन सा है?
572. किसमें गैर कोई नहीं रहता है?

- 573 जल के समान तरल कौन है?
- 574 वैर-विरोध कषाय कल्मष को कौन दूर करता है?
- 575 कौन सहज में होता है?
- 576 किसे किया जाता है?
- 577 सतो के प्रति प्रेम किस रूप में रहता है?
- 578 समान वय-गुण वाली में क्या होती है?
- 579 प्रेम को फारसी भाषा में क्या कहते हैं?
- 580 परमात्म मिलन का सुगम साधन क्या है?
- 581 अन्तःकरण में शुभ भावों को उठाने की क्रिया क्या है?
- 582 हृदय की दीनता पूर्ण पुकार क्या है?
- 583 भाव शुद्धि का माध्यम क्या है?
- 584 लय बद्ध होकर प्राणियों को करने से चित्त की क्या मित्ति है?
- 585 प्रार्थना से चित्त में क्या आती है?
- 586 धर्म का निचोड़ क्या है?
- 587 परमात्म प्रकाश किससे मिलता है?
- 588 प्रभु पथ पर आदेशानुसार चलना क्या है?
- 589 प्रार्थना वाणी के साथ साथ क्या है?
- 590 परमात्मा से मिलना किसका उद्देश्य है?
591. दैविक भावनाएं प्रकट किससे होती हैं?
592. प्रतिदान की भावना कहां नहीं होती है?
- 593 कौन देवाधिदेव है?
594. देवगण भी किन्हें नमस्कार करते हैं?
- 595 किससे कभी भी तृप्ति नहीं होती?
- 596 देह किसकी भेंट है?
- 597 वैराग्य का थर्मामीटर क्या है?
- 598 त्याग और वैराग्य का सबध कैसा है?
599. साधक के मन में ससार की क्या नहीं रहनी चाहिए?
- 600 ध्येय में ध्याता की एकाग्रता क्या है?
601. मन की एकाग्रता क्या है?
602. वस्तु सत्य तक जानने की अन्तरांग क्रिया क्या है?

- 603 बाह्य प्रवृत्तियों को शांत स्थिर रखना क्या है?
- 604 आराध्य देव स्वरूप और गुणों का ध्यान क्या है?
- 605 निर्मल चित्त कब साध्य बनता है?
- 606 कौन सा साधक विपुल सुख पाता है?
- 607 मानव शरीर का श्रेष्ठ अंग क्या है?
608. सारे वृक्ष में महत्त्वपूर्ण क्या?
609. आत्मा को किसमें स्थिर करना धर्म ध्यान है?
610. साधु जीवन की सर्व क्रियाओं का मूल क्या है?
- 611 चेतना का चल परिणमन क्या कहलाता है?
- 612 चेतना का स्थिर परिणमन क्या कहलाता है?
613. एकाग्रता में व्यग्रता कब नहीं रहती?
614. एकाग्रता में व्यग्रता कहां विद्यमान है?
- 615 मन एकाग्रता के लिए किसका आश्रय लेना चाहिए?
616. आत्म सिद्धि में सहायक कौन?
617. मन सचतेनावान् कब बनता है?
- 618 मन को एक विषय पर केन्द्रित करना ध्यान?
619. आत्म मंदिर में ध्यान दीप अखण्ड कब जलता है?
620. मानसिक सतुलन के लिए क्या उपयोगी है?
- 621 मन का विषय-मुक्त होना क्या है?
622. कर्मक्षय किससे होते हैं?
623. किससे आत्म ज्ञान होता है?
624. ध्यान करने का समय कौन सा ठीक है?
625. मानस कब शांत और स्वस्थ रहता है?
626. ब्रह्ममुहूर्त्त में वातावरण कैसा रहता है?
627. रस लोलुप का चित्त किसमें नहीं लगता?
628. व्याकुलता मन की किससे दूर होती है?
- 629 ध्यानी को अनुरागी जन कैसे लगते हैं?
630. आत्म ध्यानी के लिए श्मशान क्या बन जाता है?
- 631 ध्याता और ध्येय का एकीकरण क्या है?
632. ध्यान की पूर्व अवस्था क्या है?

- 633 ध्यान का प्रथम चरण क्या है?
- 634 चौथे से सातवें गुणस्थान तक कौन सा ध्यान होता है?
- 635 आठवें से चौदहवें तक कौन सा ध्यान होता है?
- 636 पुरुषार्थ सिद्धि से सर्वार्थ सिद्धि का ध्यान क्या है?
- 637 दैहिक ममत्व और कषाय को कृश करना क्या है?
- 638 जीवन और मरण शुद्धि की प्रक्रिया क्या है?
- 639 तन की शक्ति घटती है और आत्म शक्ति किससे बढ़ती है?
640. चरम अनशन विधि को क्या कहते हैं?
- 641 संलेखना का अर्थ क्या है?
642. देहान्त तक होने से सलेखना को क्या कहा है?
- 643 सलेखना को चतुर्थ शिक्षा व्रत किसमे कहा है?
644. समाधि मरण की अन्तिम प्रक्रिया क्या है?
645. जीवन के संध्याकाल में क्या लिया/किया जाता है?
646. जीने और मरने की आकांक्षा किसमें साधक नहीं करता?
647. मृत्यु का स्वागत स्वयं साधक किसमे करता है?
648. जीवन भर की साधना का सार क्या है?
- 649 मरण चक्र से कौनसा साधक छुट सकता है?
- 650 मृत्यु सुधरने से क्या सुधर जाते हैं?
- 651 सबके साथ दैहिक ममत्व कब छोड़ा जाता है?
- 652 स्व-पर कृत उपकार की अपेक्षा किस मरण मे है?
- 653 जीते जी मरण का वरण कौन करता है?
- 654 प्रियतम परमेश्वर के पास कोई कब पहुंचता है?
655. क्षण-2 मरता हुआ भी मरण को कौन नहीं जानता?
- 656 किस मरण से बार-बार मरना नहीं पड़ता
- 657 साधना प्रभावना न होतो जीने की अपेक्षा क्या श्रेयकर है?
- 658 कौन किसी का बन्धु नहीं है?
659. कौन अत्यन्त निर्दयी है?
660. कौन आती हुई मालूम नहीं पड़ती?
- 661 एक सिक्के के दो पहलू क्या?


- 662 मृत्यु को अनिवार्य समझ सचेत रहे तो सुखद क्या?
- 663 समाधि मरण की मूल नींव क्या है?
- 664 संधारा लेने वाला सबसे क्या मागता है?
- 665 संधारा कर्त्ता शुद्ध भावो से पापो की क्या करता है?
- 666 मरने से डरता कौन है?
667. जीवन वृक्ष का फल क्या है?
668. सलेखना कर्त्ता की भावना कैसी रहती है?
- 669 सार्वजनिक स्तर से क्या लिया जाता है?
- 670 दृढ़ संकल्प मनोबली क्या स्वीकारते हैं?
671. स्वेच्छा से क्षण किसमे त्यागे जाते हैं?
672. एकान्त में लुक छिप कर क्या की जाती है?
673. कषाय और कृण्ठाओं से क्या की जाती है?
674. क्या कानूनन अपराध है?
675. क्रूर भावना वश क्या की जाती है?
676. जीवनकी आशा रहते क्या की जाती है?
677. किसके आगे किसी का वश नहीं चलता?
678. जीवन जीना अध्ययन है तो परीक्षा क्या है?
679. मृत्यु सम्मुख रहने से क्या नहीं होता?
680. दरिद्रता किसका पुरस्कार है?

‘अ’ प्रश्नवली

- 1 अहिंसा 2 अन्तर कथा 3 अन्तर्यामी 4. अन्तरिक्ष 5 अम्बरीश
- 6 अतिक्रम 7 अतिचार 8 अजित नाथ 9 अन्निका पुत्र 10. अजना
11. अधर्मास्तिकाय 12 अति मुक्त कुमार 13 अशोक चक्र 14 अक्षीण माहणस्स 15 अनुमोदन 16. अकर्ता 17. अमम 18 अनत
19. अन्तगड 20 अनादि-अनंत 21 अपमान 22 अरीसा भवन 23 अन्तरायकर्म 24. अगुरू लघुनाम कर्म 25. अपरिग्रह 26 अरूण 27 असिधार पर चलने 28. अनाथी मुनि 29 अनार्य देश 30 अभय कुमार 31. अतिवृष्टि, अनावृष्टि 32. अट्टारह पाप से 33. अण्डा 34 असख्यात 35 अनुत्तर विमान के देव 36. असञ्जी 37. अजीव 38.अधर्मी 39. अनुत्तरविमान 40. अश्विनी 41. अन्तर्द्वीप 42. अगदेश 43.अरिस्टनेभि राजुत 44. अहिल्या 45 अनामिका 46. अभयारानी 47. अनुत्तर विमान 48. अम्बड 49 अभिग्रह 50. अजर, अमर 51. अषाढभूति 52 अगरक्षक ने 53. अमर मुनि 54. अजना सती 55 अजना सती 56. अमर कुमार 57. अन्यत्व, अशुचि 58. अनित्य अशरण 59 अजनगिरी 60 अर्जुनमाली 61 अशुचि में 62. अस्थिग्राम 63. अजली बद्ध 64 अचेल व अरति परीषह 65 अलाभ व अज्ञान 66. अणगार 67 अच्युत 12वें देवलोक 68. अशरीरि 69. असाता वेदनीय 70 अतिचार 71. अजीर्ण 72 अनतानुबधी कषाय 73 अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद 74 अविवेकी 75 अपना अवगुण 76 अगुठा 77. अभिमन्यु 78. अभिचिकुमार 79 अनत 80. अभयदान प्रदाता 81. अन्धकार 82. अनित्य भावना 83. अशरण भाव 84 अष्टापद पर्वत 85. अणगार 86. अभिजित 87 अविग्रह 88 अगस्त 89 अरनाथ प्रभु 90 अनाथी मुनि 91. अनुत्तरोपपातिक 92. अवसर्पिणी 93. अभिग्रह की प्रतिज्ञा 94. अमावस्या 95 अव्रती 96 अमृत 97 अभिगम 98. अभ्याख्यान 99 अप्रेल फूल 100. अर्जुनमाली 101. अवन्तिकुमार 102 अनीति 103 अन्तगड 104. अढाई द्वीप 105. अनर्था दण्ड 106. अ सि आ उ सा 107. अहंकार 108. अज्ञान 109. अर्धमागधी 110. अजना 111. आर्तध्यानादि



112 अद्योलोक 113 अक्षय तृतीया 114 अरणक मुनि 115 अमर
मुनि 116. अनत 117 अनत 118 अग्निमित्रा 119 अष्टमी 120
अरविद 121 अर्जुनमाली 122 अभवी 123 अभयकुमार 124
अयोध्या नगरी 125 अमोलक ऋषि जी म 126 अशुभ योग 127
अनाचार 128. अट्टाणु 129 अरणक 130 अनार्य देश 131
अमरकंका 132. अम्बर 133 अयोध्या 134. अतिमुक्त मुनि 135
अचला देवी 136 अकबर से 137. अर्जुन 138 अर्जुन 139. अट्टारह
देश 140 अट्टारह सौ उनहतर 141. अट्टारह सौ नव्यासी 142
अन्तगड 143 अकेले 144. अशोक वृक्ष 145. अकेले 146 अष्ट
प्रवचन माता 147. अट्टानबें वर्ष 148. अर्द्ध पुद्गल परावर्त्तन 149.
अहिच्छत्रा नगर 150. अर्जुन माली 151 अजीव 152. असन्नी 153
अभवी 154. अनशन, हड़ताल 155. अतिमुक्त कुमार 156 अट्टारह
अक्षौहिणी 157. अचल 158. अदत्तादान 159. अकपित 160. अशान्ति
में 161. अंकुश 162. अनुयोग द्वार 163. अवगाहना 164 अयपुल
गाथापति 165. अग्निकाय 166 अरणक मुनि 167. असातावेदनीय
168 अरस्तू 169. अर्जुन 170. अजमेर 171. अग्नि कुमार देव 172
अभय कुमार 173. अभियौगिक 174 अटल धैर्य 175. अशुचि
भावना 176. अहिल्यापुरी 177. अष्टाह्निका महोत्सव 178. अर्धमागधी
179. अन्तर्द्वीप 180 अर्थागम 181. अचलादेवी 182. अभिधान राजेन्द्र
कोष 183. अक्षुद्र 184. अनार्य देश 185. अन्तगड 186. अरिहत
187 अमावस्या 188. अर्द्धरात्रि 189. अकिंचन 190. अपरिग्रही 191.
अतिशय 192 अवगाहना 193. अडतालीस मिनट 194. अक्ल 195
अनर्था दण्ड 196. अभवी 197. अरिहत से अरिहत। तीर्थकर 198
अनुशासन 199. अभय कुमार 200. अविनाशी 201 अट्टारह 202
अभवी 203. अषाढ सु 8 204. अनादि काल 205. अरिष्टनेमि
206. अभय कुमार 207. अशाश्वत 208. अपराजित 209. अहिंसा,
अपरिग्रही 210 अव्याबाध 211. अस्तेय महाव्रत 212 अमरावती
213. अहभाव 214 अवस्वापिनी 215. अपना 216. अर्जुन 217.
अन्त-काल 218. अंजन 219. अरिहत 220. अनुभव 221. अत्यागमे
222. अरिष्ट नेमि 223. अन्तराय 224. अदीन शत्रु 225. अग शास्त्र






226 अधोलोक 227 अनुत्तरोपातिक 228 असाता 229 अकाम-मरण
230 अरणक श्रावक 231. अरति 232 अरूपी आत्मा 233 अपराजित
234 अनुत्तरोपातिक 235 अधर्मी 236 अन्तर कथा 237 अविनीत
238 अभिग्रह 239 अन्तराय 240 असञ्जी 241 अग शास्त्र 242
अमूढ दृष्टि 243 अभिगम 244 अपकर्ष 245 अर्ध मागधी 246.
अकाल 247 अध्ययन में 248 अनादर 249 अड़सठ 250 अट्टारह
251 अशरीरी 252 अमर 253. अरिहत 254. अविचीमरण,
अकालमरण 255 अशोक 256 अरूपी 257. अग्नि-हिंसा से बचने
258 अष्टाहिनका पर्व 259 अट्टं भक्त 260. अप्रदेशी 261. अमूल्य,
अनमोल 262. अभय दान 263 अनार, अगुर 264. अनुभाग 265.
अस्थि 266 अनुमोदन 267 अरिहत 268. अभय देव सूरि 269
असख्य 270 असख्य 271. अनतकाल 272. अवतार वादी 273
अज्ञानी 274. आशातना 275. अनुत्तर योगी 276 अतिक्रमण 277.
अग्नि स्नान 278 अनादर 279. अनल 280. अनित्य 281 असाधु
282. अधश्रद्धा, अधर्म 283. अज्ञान तप 284. अनाचार 285. अकाम
मरण 286. अचक्षु दर्शन 287. अवधि दर्शन 288. अश्रुपात 289.
अचौर्यव्रत 290. अभय दान 291 अनात्मवादी 292. अखबार 293.
अशाति 294. असतोष 295. अमर 296. अभ्यास से 297. असंभव
298 अनार्य लोग 299. अज्ञानी 300 अनाथी मुनि 301. अमृत
302. अग्नि 303. अमूर्त 304. अवन्ती नगरी
305. अकबर 306 अष्ट तप 307. अम्बिका 308 अभाव 309.
अधिष्ठायक 310 अध्ययन 311. अनाथी 312 अतिम राजर्षि 313.
अणिमा 314 अपाढ भूति 315. अभ्यागत

‘आ’ प्रश्नवली

1 आयम्बिल तप 2 आश्रव भावना 3 आश्वासन 4. आठ 5 आठ
6 आलोचना से 7. आत्मा का 8 आर्द्रकुमार 9. आक्रोश से 10.
आक्रोश 11. आख 12 आजीवक 13. आसकरण जी 14 आयुष्य
कर्म 15. आयुष्य बध से 16. आहारक लब्धि 17. आदिनाथ 18.
आनद श्रावक 19. आपति में 20 आदर्श गृहिणी 21. आलोचना



22 आषाढ भूति 23. आसातना 24 आयम्बिल 25 आठ पहर 26
 आकाशास्ति काय 27 आम 28 आश्रव 29. आनद श्रावक 30
 आरा 31 आत्मा 32 आत्मा 33 आसू 34 आत्मा 35 आत्मा
 36. आलस्य 37. आतप 38. आत्मा 39. आसक्ति से 40. आरा
 41. आचार्य 42. आचाराग 43. आत्मा 44. आत्मा के 45. आरभ
 समारभ 46. आवश्यक सूत्र 47. आखा तीज 48. आत्मा 49 आत्मा
 50. आत्मा 51 आभ्यान्तर 52 आगम 53. आवश्यक सूत्र 54
 आगार 55 आत्मा 56. आत्मा 57. आनद श्रावक 58. आर्द्रकुमार
 59. आत्मा 60. आत्मा 61. आदिनाथ प्रभु 62. आदि 63 आसक्ति
 से 64. आत्मा का 65 आत्मा 66. आदान भण्डमत निक्षेपणा
 67 आत्मा 68. आक्रोश 69. आर्तध्यान 70. आतापना 71. आदित्य
 कुमार 72. आज्ञा में 73. आत्मा का 74. आत्मा के 75 आम्रवक्ष
 76. आनंदघन 77. आहार 78. आत्मा 79. आधाकर्मी 80. आठ 81
 आशीविष 82. आत्मा 83 आश्रव 84. आदित्य 85. आहारक लब्धि
 86 आश्रव 87 आत्मा 88. आर्द्रा नक्षत्र 89. आजीवन 90. आहार
 संज्ञा 91. आंख 92. आर्यावृत 93. आज 94. आयना 95. आयुष्य
 96. आयुष्य बल प्राण 97. आचाम्ल तप 98. आ, आनंद ऋषि 99
 आदेय नामकर्म 100. आर्या जी 101. आवागमन 102. आराध्य देव
 103. आकीर्ण तप 104. आदित्य 105. आराधक 106. आलंभिका
 107. आकुंचन पसारण 108. आप्त पुरुषों के 109. आशीर्वाद 110.
 आषढ माह 111. आचरण 112. आज्ञा 113. आलोक 114.
 आयुष्मान्! 115 आचार 116. आलंबन 117. आत्म शुद्धि 118
 आयात निर्यात 119. आदान-प्रदान 120. आसातना 121. आकीर्ण
 122. आग से 123. आसन 124. अनादि काल से 125. आत्मा 126
 आयम्बिल 127. आलोचना 128 आभूषण 129 आकृति 130.
 आर्तध्यान 131. आचार्य 132. आरिसा भवन 133. आनद 134
 आशीविष 135 आठ 136 आसक्ति 137 आइगराण 138
 आत्म-घाती 139. आत्मीयता 140. आंख 141. आकुलता 142.
 आलस्य 143. आठ 144. आखो का 145. आरभ समारंभ 146
 आयम्बिल 147. आठ कर्म खपा आठ गुण पाएं 148. आनंद ऋषि

149 आयुष्य कर्म 150 आहारक 151 आगार धर्म 152 आदिनाथ प्रभु 153 आचाराग 154 आँखों में आसूँ 155 आनन्द-पेढाल का जीव। 156 आगरा 157 आगम 158 आराधना 159 आम्र, आम्ररस 160 आजाद 161 आवश्यकता 162 आलसी 163 आस्था 164 आकाश शास्त्र 165 आदर्श 166 आज्ञा 167 आवश्यक सूत्र 168 आरभजा हिंसा 169 आकस्मिक 170. आजीविका भय 171. आजीवन कारावास 172 आत्मा 173. आनन्द 174 आनन्द श्रावक 175 आयुष्य को 176 आराम 177. आशा 178. आधुनिकता 179 आन, बान, शान 180. आवेश 181. आस्था 182 आश्रम 183 आरूग्-आरोग्य 184 आगति 185. आतापना 186 आठ 187 आदि अन्त रहित 188 आगमे तिविहे 189. आयरियाण 190 आसायणाए 191 आठ 192 आवश्यक 193 आचार्य 194 आठम् 195 आठ 196 आसोज 197. आहारक, आहारक मिश्र 198. आउकाय 199. आठ 200 आभरणविहि 201. आठ 202. असातना 203. आणवणप्पओगे 204 आलोड 205. आषाढ भूति 206. आ.श्री नानेश 207. आर्यक्षेत्र 208. आहार 209. आलोक 210 आलास्य 211 आत्म अस्तित्व 212 आगम 213 आकाशगामिनी 214. आकाशस्तिकाय 215 आत्म रूची 216 आसू 217 आचार 218. आत्व स्वभाव 219 आर्य 220 आठ 221 आस्तिक दर्शन 222 आत्मा का 223 आत्मा 224 आत्मा 225 आपत्ति 226 आप 227. आध्यात्म 228 आत्म प्रवाद 229 आत्मा का 230 आपत्ति 231 आप्त पुरूषों 232 आत्मा 233 आप्त पुरूष 234 आत्मा 235 आठ 236 आतकवादी 237 आदेश 238. आराधना 239. आर्दश पुरूष 240. आश्वासन 241. आठ-आठ 242 आजाद हिन्द

‘इ’ प्रश्नवली.

1 इक्ष्वाकुवश 2. इलायची कुमार 3. इन्द्रा गाधी 4 इक्षुकार 5 इच्छाकारेण 6 इक्षुरस 7 इतिहास 8. इकम टेक्स ऑफिसर 9. इन्द्रभूति गौतम 10. इन्तजार 11. इजन 12. इक्षुकार 13. ‘इमली 14 इमली 15. इन्सान 16. इन्सानियत 17. इन्साफ 18. इन्द्र 19. इच्छा

- 20 इटली 21 इक्कीस मार्च 22 इन्द्रा गाधी 23 इन्द्रभूति 24 इण्डोनेशिया 25 इन्द्रियजयी 26 इच्छाओं 27 इगिताकार सम्पन्न 28 इण्डिया 29 इग्लिश 30 इन्द्र 31 इक्कीस 32 इन्द्रभूति 33 इटली-प्सकेनी नगर। 34 इटली 35 इन्द्रभूति 36 इत्वरिक कालिक 37 इक्कीस 38. इचरज कवर लुणावत 39 इलायची कुमार 40 इटली-1पामियामें 41 21 जून प्रतिच्छाया नहीं 42 इच्छामि ठामि 43 इक्कीस 44. इहलोगाससम्पओगे 45 इच्छामिण भंते 46 इतरिय परिग्गहियागमणे 47 इत्वरिक कालिक 48 इत्वरिक अनशन 49. इक्कीसहजार वर्ष 50 इक्कीस 51. इष्ट वियोग 52. इन्दी थावर काय 53 इन्द्र 54. इक्कीस सागरोपम 55 इच्छानिरोध 56 इहलोग भय 57 इच्छाकार 58 इक्कीस, सोलह अगुल 59 ईर्या भावना 60 इज्जतवान् 61. इन्द्र 62. इक्षुकार नगर 63 इतिहास 64 इमरती 65. इतिश्री 66. इन्द्रिय 67 इकार 68. इक्षु 69 इज्जत 70 इच्छा का 71. इत्तिभित्ति प्राकोप 72. इन्द्रभूति गौतम 73. इगित-मरण 74 इब्भश्रेष्ठी 75. इन्द्रभूति 76. इन्द्रयों का गोपकर 77 इन्द्रजीत 78 इगियागार सम्पन्न 79. इन्द्रगोप। मखमलिया। 80 इन्द्र जालिक 81 इटली 82. इन्द्रा 83 इन्द्रबाई 84 इन्द्र 85. इक्कीसवा 86 इग्लैड 87. इच्छाकारेण 88 इंगाल कम्मे 89 इन्द्रिया 90. इरियावहिय सूत्र 91 इन्द्र 92 इन्द्र 93 ईर्ष्यालु 94. ईमानदारी 95. ईद 96 ईश्वर भजन 97 ईर्ष्या 98 ईख 99 ईश्वर स्वामी 100 ईर्या समिति 101 ईशान कोण 102. ईथर 103. ईषत्प्राग्भार 104. ईधन 105 इत्र 106 ईमान 107 ईशान कोण 108. ईलाहबाद 109 ईर्यापथिकी 110 ईख 111. ई की मात्रा 112 ईहा 113. ईला उठाकर 114. ईर्यापथिकी 115 ईर्या समिति पालनार्थ 116. ईमान 117. ईर्यापथिक क्रिया 118 ईधन 119 ईथर

‘उ’ प्रश्नवली

- 1 उपासक 2. उपवास 3. उदायन 4. उच्च 5. उपभोगान्तराय के उदय 6. उपालम्भ 7 उपेक्षा 8 उत्कृष्ट 9. उर्ध्वलोक 10. उपाध्याय 11 उपासक दशाक 12. उदार हृदयी 13 उववाड 14 उरपरि-सर्प




15 उग्र 16 उपहास 17 उपसर्ग 18 उमास्वाति 19 उत्पत्ति 20 उर्मिला 21 उर्ध्वगामी 22 उपयोग 23 उत्साह, उमग, उद्यम 24 उत्तराध्ययन 25 उत्तराध्ययन 26 उवसग्गहर 27 उद्धार 28 उच्च 29 उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य 30 उपयोग 31 उत्सव प्रिय 32 उपकरण 33 उपशम 34 उदयपुर 35 उधार 36 उमा 37 उत्तम 38 उद्योत 39 उदीरणा 40 उपशम 41 उपासना 42 उत्कृष्ट 43 उदयसिंहजी 44 उल्लू 45. उपादेय 46 उदायन 47 उदाहरण 48 उमर रजा 49. उपसर्ग 50 उदारता 51 उद्योगपति 52. उरूत्सी 53 उदारता से 54 उपभोग-परिभोग 55. उष्ण 56. उपवास 57. उपदेश 58. उपभोग 59. उपशम 60. उदयपुर 61 उल्लू 62. उत्कीर्तन सूत्र 63. उपदेश 64 उत्थान वादी 65 उदयसागर जी म. 66 उदायन राजा 67 उदयसागर जी म 68 उल्लू 69 उत्कृष्ट 70. उत्तम पुरूष 71 उतरासग 72. उत्तरा 73 उत्साह 74 उल्लास 75. उमग 76 उदीरणा 77 उच्च श्रेणी 78 उद्यम से 79 उत्पाद 80 उदधि 81 उग्रसेन 82. उदयमान 83 उत्पला 84. उद्यान 85. उपाध्याय 86. उपसर्ग होने पर 87. उपधान (आयम्बिल) 88. उद्योत नाम कर्म 89 उल्टा झण्डा 90 उपकरण 91. उत्तिग 92. उदधिकुमार 93. उद्धविया 94 उड्डुण्ण 95. उत्तम 96. उद्योत करने वाले 97 उल्लणिया विहि 98. उपशात मोहनीय 99 उष्ण 100. उनपचास 101 उवट्टण विहि, उवाणह विहि 102. उनतीस अहोरात्रि 103 उदयपुर 104. उदयपुर 105 उवासग दशाग, उववाई 106. उबासी

‘ऊ’ प्रश्नवली

1 ऊनोदरी 2 ऊर्जा 3. ऊर्जा 4. ऊदरा 5. ऊट 6. ऊषर भूमि 7. ऊची 8. ऊघता है 9 ऊससिएण

‘ए’ प्रश्नवली

1 एवता मुनि 2 एकाग्र 3. एकत्व 4. एकेन्द्रिय 5 एक लाख 59. हजार 6 ऐश्वर्य 7 एकान्तर तपस्वी 8 एक वचन 9. एकता



10 एकनाथ 11 एकलव्य 12 एकासन 13 एकल ठाणा 14 एक
लाख 15 एकसप्रेस 16 एबोर्सन 17 एडवर्ड 18 एकान्तवाद 19
ऐडी 20 ऐरावत हाथी 21 एक बार 22 एक भव 23 एक छत्र
24. एक 25. ऐपणा 26. एक सातावेदनीय 27 एक बार 28 एकल
विहारी 29 1 लाख 92 हजार 30 1 करोड 8 लाख सौनैये 31.
एक आयुष्य बल प्राण 32. 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष 33 एकेन्द्रिय
34. एकता 35 एक पहला 36 एगो आया 37 एक एक 38
एकत्व वितर्क अविचार 39. एक हजार आठ 40. एक सौ पच्चीस
41. ऐश-आराम 42. ऐश्वर्य 43 ऐरावत 44. ऐरावत

‘क’ प्रश्नवली

1. कबीर दास 2. कल्प वृक्ष 3. कलयुग 4 कफन 5 कमल 6.
कनक-कामिनी 7. कृष्ण लेश्या 8. कृष्ण 9 कपासन 10 कपिल
ब्राह्मण 11. करकडु राजा 12. कल्प सूत्र 13. कर्ण 14. कम्बल
15. कटपूतना 16. कर्म 17. कमलावती रानी 18. कर्कश, कठोर 19
कपूत 20. कल्पनाशील 21. कल्पसूत्र 22. कल्याण मंदिर 23.
कपिला 24. कन्याकुमारी 25 कवि कालीदास 26 करोडपति व
कगाल 27. कपिल 28. कर्म 29. कमठयोगी 30. कबीर जी 31
कजूस 32. कमण्डल 33 कटुवचन 34 कर्मादान 35. कर्कशा 36
कृष्ण 37. कर में 38. कर्म 39. कबूतर 40. कपिला 41
कनखजूरियां 42 कर्मप्रकृति 43 कर्म की 44 कपट 45 कमठासुर
46 कपाल 47. कमलवत् 48. कल्पसूत्र 49. कस 50 कर्कश 51
कषैला 52. कवच 53 कर्ण 54 कनक 55. कर्णवती 56. कर्ता 57
करकण्डु 58 कलह 59 कलयुग 60 कषाय 61 कर्णवती रानी 62
कनकावती 63 कपास 64 कठ 65 कपिल पुर 66 कफन 67
कर्म 68. कपट 69 कंस 70. कर्मो 71. कदली फल 72. कर्मप्रकृति
73. कर्मग्रंथ 74. कपरदिमत्री 75. कालकाचार्य 76. कुशलचद्र सूरि
77. कुमुद चन्द्र 78. कबूतर 79 कठमाधुर्य से 80. कमल 81
कुडरीक 82. कपाय भाव 83 कश्मीर 84. कलकत्ता 85. कलह
86 कमठ के जीव 87. कमल 88. कलक 89. कलंक 90. कस्तुरी

91 कपिल ब्राह्मण 92 कृष्ण 93 कस 94 कबूतर 95 कपिलपुर
 96. कठी 97 कलिंग देश 98 कर्मभूमि 99 कलश 100 कर्त्तव्य
 101 कपट 102 कल्पोपन्न 103 कलावती 104 कल्याणक 105
 कर्मभूमि 106 कनक 107 कल्पनीय 108 कषाय 109 कनकावली
 110 कषाय कुशील 111 कमला 112. कपिल 113 कच्छदेश
 114 कलिंग 115 कलह 116 कल्पातीत 117. कपालक्रिया 118
 कछुएवत् 119 करुणा 120. कमल पुष्प 121 कर्म पुरुष 122
 कलाद सोनी 123 कर्मवाद 124 कच्छ महाकच्छ 125. कगन 126.
 कस 127 कदमूल 128 ककू 129 कस 130 कस 131 कजूस
 132 कृष्ण 133. कृष्ण 134. कृतभानु 135. कृष्ण पुत्र पालक 136.
 कृष्ण 137 कृमि 138 कृष्ण 139 कृष्ण 140 कृष्ण वासुदेव 141
 कल्लाण 142 कर्मोका 143 कखा 144. करण 145 कलह 146.
 कथा 147 कषाय 148 कषाय 149. करण सच्चे 150 कर्मादान
 151 कडवा, कषैला 152. कषाय पद 153 करूनही, कराऊंनही
 154 कामदेव 155. काकन्दी 156. कालीदास 157 कामिनी 158
 कार्मण 159. कालोदधि 160. काल 161. कार्तिक सेठ 162 कान
 163 काला 164 कालिक 165. कार्मण कार्य योग 166. कार्तिक
 बदी-15 167. कार्तिक सेठ 168 काशी देश 169. कालसौरि कसाई
 170 कायोत्सर्ग 171 काँस नामक घास 172. कायोत्सर्ग 173
 कामाध 174 कालोदधि 175 कालचक्र 176 कामना 177.
 कालसौरिक कसाई 178 काल 179. काल 180 कारी 181.काला
 झण्डा 182. काय योग 183 काय क्लेश 184 कायोत्सर्ग 185.
 कायोत्सर्ग 186 कयोत्सर्ग 187 कामभोग ससप्पओगे 188. कायदुष्पणिहाणे
 189 काया के 190 काइओ 191. कामभोग-तिव्वाभिलासे 192
 कालाइक्कमे 193 काला 194 काय पुण्य 195 काय काय 196.
 कालद्रव्य 197 कापोत लेश्या 198. काय गुप्ति 199 काय
 समाधारणिया 200 किरणावती 201 क्रिश्चयन 202. क्रियावादी 203
 किसान 204 कीर्तिध्वज राजा 205. कीडियो की रक्षा हेतु 206.
 किलामिया 207. कितइस्सं 208. कुम्भराजा 209. कुम्भी 210
 कुम्भकरण 211. कुन्ती 212 कुरान 213 कुत्ता 214 कुवेर

215 कुती 216 कुणाल 217 कुलकर 218 कुलकर 219
 कुमारपाल 220 कुर्मापुत्र 221 कुलकर 222 कुसुमायुद्ध 223 कुट्ट
 224. कुमार 225 कुमडापाक 226 कुमारिल भट्ट 227 कुर्बानी
 228. कुलीन कन्या 229. कुत्ता 230 कुडलपुर 231 कुम्भकार
 232 कुरुक्षेत्र 233 कुमुदचन्द्र 234 कुलमद 235 करगडुय मुनि
 236. कुबेर 237. केशी-श्रमण 238. केशी-गौतम 239. केवली 240
 केवली बनकर 241. केरल 242 केकशी 243 कैकयी 244 कैची
 245 केतु 246 केश 247 केशी श्रमण 248. कैसर, एड्स 249
 केशर 250 कैकयी 251. कैकयी 252. केला 253 केकार्ड देश
 254 केवल दर्शन 255. केसुदा पुष्प 256 केतु 257. केवली 258
 कोणिक 259. कोणिक 260 कपिल 261. क्रोध 262 कौशाम्बी
 263. कौशल्या 264. कुतूहल 265 कोहिनूर 266. कोणिक 267
 कोशा गणिका 268. कोशाम्न वन 269. कोयल 270. कोयल 271
 कौटिल्य 272. कौशिका 273 कोषाध्यक्ष 274. कोर्ट 275. कौशल
 देश 276 क्रोध 277 क्रोध

‘ख’ प्रश्नवली

1. खनिज 2 खमत खामणा 3 खदक ऋषि 4. खंदक मुनि 5
 खजाना 6 खच्चर 7. खजांची 8. खडारु 9. खतरनाक 10 खग
 11. खरक वैद्य 12 खंती 13. खती 14. खमाना 15. खदक ऋषि
 16 खरगोश 17. खमासमणो 18. खडारुं 19. खट्टा 20. खडारु
 21 खड्ग रत्न 22. खड्ग 23 खण्डहर 24 खत 25 खंदक ऋषि
 26 खंदक ऋषि 27. खंदक की 28. खंदक मुनि 29 खदक मुनि
 30. खंदक मुनि व उनके 500 शिष्य 31. खंदक मुनि 32
 खद-वद-2 33. खीरा 34. खव्वाव 35. खडित 36 खम्मा 37
 खण्ड गुफा 38 खण्डा योजन 39. खगोल 40 खर-स्वर 41 खलु
 42. खरदूषण 43 खरबूजा 44 खपाते 45 खरदरा 46. खण्ड 47
 खद्योत 48. खासिएणं 49. खापरिया 50. खाता 51. खाइमं 52. खार
 53. खल 54. खर पृथ्वी 55. खदक सन्यासी 56. खदक सन्यासी
 57. खाती 58 खारा 59. खामेमि सव्वे जीवा 60. खाली दिमाग



- 61 खादी 62 खाद 63 खान-पान 64 खामोश 65 खालिस्तान
66 खानदेश 67 खाते 68 खाया 69 खाता 70 खाता-बही 71
खाई 72 खाण्डे की धार 73 खाम 74 खून 75 खुदा 76 खूखार
77 खुले मुह 78 खून 79 खेचर 80 खेचर 81 खेचर 82. खेल
सचालेहि 83 खेलोसहि 84 खैवनहार 85 खेल-कूद 86 खेदज्ञ
87 खेत वत्थुप्पमाणाइक्कमे 88. खेलते-खेलते 89. खरगोश 90.
खडे-खडे 91. खट्टा 92 खाइम 93 खमत-खामणा 94. खात
खानकर 95. खामणिज्जो 96 खामेमि खामतु मे
97. खामेमि सव्वे जीवा 98. खितवुडढी 99. खो-खो 100. खोज
101 खिलौना 102. खोना 103. खरीफ 104 खोपडी 105.
खोड-बेडी 106. खेम राजजी 107. खोरी 108 खोया समय, यौवन
109. खुरचन 110. खर 111. खे

‘ग’ प्रश्नवली

1. गणधर 2. गलती 3. गज-सुकुमाल 4 ग्वाले 5 गज सुकुमाल
मुनि 6. गणधर 7 गणधर 8. गबन 9 गुण 10. गर्हा 11. गणेन्द्र
मोहन टैगोर 12 गज-सुकुमाल 13 गर्गाचार्य 14 गधा 15
गणेशलाल जी म 16 गजानन्द 17. गजसुकुमाल 18 गणेशाचार्य
19. गर्भस्थ जीव 20 ग्वाला 21 ग्यारस 22 गणेश 23 गगातट
24. गगाजल 25. गर्दभिल्ल 26 गंगाचार्य 27 गज सुकुमाल 28.
गर्जना सुन 29 गणेश 30 गर्वदोष 31. गाधारी 32 गगन 33.
गजपुर 34. गगापुत्र 35 गंगाचार्य 36. गगदत्त मुनि 37. गर्दभिल्ल
मुनि 38. गरूडध्वज 39 गणिका 40 गंडस्थल 41 गगरेल 42.
गणपति 43 गणेश 44 गणपिटक 45 गति 46 गणधर 47
गणीपद 48. गणितानुयोग 49 गमन 50 गजसुकुमाल 51. गर्व 52
गरीब 53. गवेषणा 54. गरूड पुराण 55. गगरी 56 गगन 57
गगा 58 गगा 59 गज रत्न 60 गच्छ 61 गजगति 62. गजल 63
गजशाला 64 गणतत्र दिवस 65 गवाही 66 गगादेवी 67. गरूड
68 गर्ग 69. गणगौर 70 गधर्व 71. गगदत्त देव 72 गर्भ 73
गागेयअणगार 74. गागेयअणगार 75. गालियां 76 गाधी जयन्ती



77 गागेय अणगार 78 गाथापति 79 गायिका 80 ग्रामानुग्राम 81 गायत्री 82 गाली 83. गायों का झुण्ड 84 गरूडराज 85 गिरनार 86 गीता 87 गुरू गोविन्द सिंह 88 चन्दनबाला 89 गुरू वन्दन 90 गुफा 91 गुरूवार 92 गुण-प्रत्यय 93 गुणव्रत 94 गुणवान् 95 गुह 'नखाद' 96 गुड्डी 97 गुडडी एक मी 98 गुर्दे 99 गुण रत्न सवत्सर 100 गुण रत्न 101 गुप्त दान से 102 गुरू तेग बहादुर 103 गुलाब 104 गुड़ गाव 105. गुण चन्द्र 106 गेंद 107 गो रक्षा 108 गौतम स्वामी 109 गौतम 110. गोवालिय 111 गौतम 112. ग्रैयवेक 113. गोपियों 114 गोपीचन्द्र 115 गौतम 116 गौशालक 117 गोचर भूमि 118. गिद्धराज पक्षी 119. गोभद्रा सेठानी 120 गौशालक 121. गौशालक 122 गोल 123 गोवर्धन 124. गौ पर्वत 125. गौतम 126 गौतम 127. गोदुह 128 गौतम बुद्ध 129. गुल मोहम्मद-15 से.मी 130 गोस्वामी तुलसीदास 131 गुण रत्न सवत्सर 132. गुलाब कवर जी 133. गुटिका 134 गुण कर राजर्षि 135 गतिचार 136 गोत्र 137. गुण स्थान 138 गुण 139 गौत्र

'घ' प्रश्नवली

1 घोसहीण 2. घम्मा 3 घ्राणेन्द्रिय 4 घ्राणेन्द्रिय 5 घमण्ड 6 घ्राणेन्द्रिय 7 घमण्ड 8 घाव 9. घी 10 घृणा 11. घाणी 12 घट 13 घडी 14 घडीभर 15 घोर तपस्वी 16 घनोदधि, घनवायु 17 घनश्याम 18 घटनाओं 19. घेवरया मुनि 20 घनघोर युद्ध 21 घनघोर वर्षा 22 घातक 23 घंटाकर्ण 24. घाट 25 घुघरे 26. घी 27. घुग्घु 28 घुग्घु 29 घोडा 30 घोड़ी 31 घटा 32 घटा 33. घोर अंधकार 34 घडा 35. घट-2 के वासी 36 घासीलाल जी म 37 घासीलाल जी म 38 घेवरिया 39 घनवात 40 घनोदधि 41 घाटी कर्मों के क्षय 42. घनिष्ठा 43 घटा 44. घडी 45. घटाघर 46 घटा 47. घटाना 48 घटिका 49 घत

‘च’ प्रश्नवली

- 1 चकेश्वरी 2 चन्द्रवार 3 चरणानुयोग 4 चन्द्र, सूर्य देव 5. चचल
- 6 चतुर पुरुष 7 चण्ड प्रद्योत 8 चरित्र 9 चक्रवर्ती 10. चरम 11.
- चन्द्र सी शीतल 12 चमत्कार 13 चरम शरीर 14 चन्द्र सवत्सर
- 15 चरित्र 16. चरित्रवान् 17 चलासन 18. चमरचचा 19 चन्दन
- 20 चम्पापुर मे, सुभद्रा 21 चण्ड कौशिक 22 चम्बल 23.
- चन्द्रगुप्त मौर्य 24. चक्रवर्ती 25 चरमावर्त पर 26 चमडी-2 27
- चतुरगी सेना 28 चउरेन्द्रिय 29. चर्या 30. चक्रवर्ती 31. चउवीसथव
32. चन्दनबाला 33. चन्दन वृक्ष 34. चौथमल जी म. 35. चक्रमय
- 36 चन्दा 37. चक्रवर्ती 38. चिकनाहट 39 चरित्र 40. चरित्र 41.
- चडाल 42. चचल 43. चन्दन 44. चन्दनबाला 45. चण्डकौशिक
46. चार कोस 47. चक्रवर्ती 48 चडाल 49. चक्र 50. चण्डकौशिक
51. चक्रवर्ती या तीर्थकर 52. चन्द्रगुप्त 53. चमत्कार 54 चन्द्रयश
55. चलन 56 चरम शरीर 57. च्यवन कर 58. चन्द्रपुर 59. चंवर
- 60 चन्द्रप्रज्ञप्ति 61. चमडा 62. चमचागिरी 63 चपलोत 64.
- चम्पापुर 65 चकवा-चकवी 66. चमारों की सभा 67. चतुर्गति ससार
- 68 चक्षु इन्द्रिय 69 चन्द्रमा 70. चक्षु इन्द्रिय 71. चन्द्रहास 72.
- चण्डप्रद्योत 73 चम्पा, चमेली 74. चमरेन्द्र 75. चट्टान 76. चन्द्रमा
- 77 चरखे 78. चन्दनबाला 79. चमरेन्द्र 80. चमरेन्द्र 81 चमरेन्द्र
82. चन्द्रदेव 83. चन्द्रयश 84 चम्पकवृक्ष 85. चन्द्रसेनराजा 86.
- चरित्र सम्पन्न 87. चलित होने 88. चन्द्रमा को घोलकर पीने 89
- चन्द्रमा 90. चम्पानगर 91. चम्पापुर 92 चम्पापुर 93. चंगदेव 94.
- चक्षुइन्द्रिय 95. चन्देषु निम्मलयरा 96. चक्षु दयाण 97 चलासन,
- चलदृष्टि 98 चन्द्रानन, चन्द्र बाहु 99 चक्कर आजाना 100 चेटक
- 101 चक्रायुद्ध 102 च्यवन कल्याणक 103 चन्द्रकला तप 104
- चपानगरी 105. चन्दन बाला 106. चन्दन बाला 107. चचलता 108
- चार-चार 109. चातक पक्षी 110. चार-चार 111 चार-चार लाख
112. चार-चार 113. चारित्र मोहोदय से 114. चारित्र 115. चार
- हजार 116. चार-चार 117. चार-चार 118. चा-चार 119. चार

120 चार 121 चार लाख 122 चार 123 चार 124 चाद कवर
 बाई 125 चारित्रात्मा 126 चाणक्य 127 चार-चार 128 चावल
 129 चार्वाक दर्शन 130. चार 131 चार-चार 132 चाटुकारिता
 133 चालबाज 134 चार्वाक मत 135 चार 136 चार-चार 137
 चार 138. चार 139 चार 140. चार 141. चार 142 चार-चार
 143. चातक 144. चातुर्मास 145. चाय 146. चार 147 चार 148.
 चिलाति पुत्र 149 चित्त और सभूति 150. चिन्ता 151. चिन्तन
 152. चित्रकार 153. चिंतामणि रत्न 154. चिलाति पुत्र 155. चिरजी
 156. चीन 157 चिंतामणि स्तोत्र 158. चिटियों की 159. चित्रा
 160. चित्र फलक 161. चित्रागन 162 चित्रांग 163. चिन्तन 164
 चुल्लशतक, चुलनीपिता 165. चूल हिमवत 166. चूहा 167
 चुम्मालीस 168. चूनड़ी 169. चुनाव 170. चेतना 171. चेलना रानी
 172 चेत सु. 13 173. चैत्रमास 174. चेडा 175. चैत सु 14
 176. चेहरा 177. चैत सु 9 178. चेइयं 179 चेडा 180. चेलना
 के 181. चेतक 182 चेटक 183 चोरी 184. चोल राजा तजौर
 185. चोर 186. चोले की तपस्या 187. चौथा 188. चौबीस-चौबीस
 189. चौतीस 190. चौदह 191. चौदहवें 192. चौबीस दण्डक 193
 चौबीस 194 चौदह सौ चुम्मालीस 195. चौथे आरे में 196. चौरासी,
 चौरासी लाख 197. चौदह लाख 198. चौथा 199 चौदह 200
 चौदह 201 चौपन दिन 202. चौसठ 203 चौसठ 204. चौबीस 205
 चौथा अणुव्रत 206 चौसठ हजार 207. चौरासी लाख पूर्व 208.
 चौरासी लाख 209. चौदह राजू 210. चौसठ 211. चौबीस अकटुबर
 1995 212. चौरयासी 213. चौरयासी 214. चौरासी लाख पूर्व 215
 चौदह 216. चौदह 217 चौदह सौ बावन 218. चौविहार

‘छ’ प्रश्नवली

1. छत्तीस 2. छप्पन 3. छः काय 4. छतीसवा 5. छट्टे दिशिव्रत
6. छः पुत्रों 7. छः लीटर 8. छद 9. छद्म वेश 10. छत 11. छत्र
12. छल-छद्म 13. छतीस बार 14 छ द्रव्य 15. छलने 16. छम्पानी



17 छविच्छेए 18 छद्दा 19 छत्तीस 20 छट्ठ भत्त 21 छः 22
छब्बीस 23 छह दिशाओं 24 छःकाय 25 छट्टी 26 छत्रपति 27
छट्टे आरे के जीव 28 छप्पन 29 छह 30. छतीस हजार 31
छब्बीस 32 छह-माह 33 छट्ठे 34. छत्र 35 छत्ते 36 छह-छह
37. छद्दा 38 छः-छः 39. 6 मास 40. 6 यतना 41 6 कर्मो 42
6 भावना 43. 6 काया 44 छद्मस्थ 45 छः 46 छत्र धारण 47.
छट्ठ भत 48. छदणा 49. छद्मस्थ साधक 50 6 महिने 51. छत्ता
52 छत्र 53. 6 महीने 54 6 माह 55 छट्ठा 56. छट्ठी 57 छः
माह 58. छःउपवास 59. छः माह 60. छत्रानगरी 61. छिन्न-भिन्न
62 छिन्ना-झपटी 63 छः माह 64 छेदोपस्थापनीय चरित्र 65.
छिद्रन्वेषी 66 छाया 67. छात्र-छात्रा 68. छह 69. छट्ठे

‘ज’ प्रश्नवली


1 जयपुर 2. जमाली 3. जम्बूद्वीप 4. जम्बू स्वामी 5. जलचर 6.
जय जवान, जय किसान 7. जमाली 8. जयन्ति बाई 9. जगन्नाथ पुरी
10 जवाहरलाल नेहरू 11. जय संहिता 12 जयपुर 13. जग जाए
तब 14 जवाहर सुरंग 15 जनता 16. जन संख्या 17. जयन्ति 18.
जनवरी 19. जर्मनी 20. जयचन्द 21. जतीन दास 22. जटायु 23
जन संख्या 24. जघन्य 25 जय धोष के नारे 26 जज
27 जहर 28. जयसिंह 29. जवाई 30. जड़ी बूटियों 31. जड 32.
जघन्य 33. जम्बू कुमार 34. जनक 35. जल प्रपात-धूआंधार 36.
जल प्रपात 37 जलेबी 38. जनाजा 39. जय स्तंभ 40. जयणा 41.
जगत 42. जय जिनेन्द्र 43. जन्म भूमि 44. जल 45. जवानी 46.
जमुना 47. जप रूप 48 जरासंध 49. जड़ 50 जापान 51. जयपुर
के सम्राट यंत्र 52. जबलपुर 53 जवाहरलाल नेहरू 54. जवासिया
55 जंगम काय 56. जृभक 57. जनक 58. जम्बू कुमार 59 जृभक
60 जवाहरलाल नेहरू 61.जय घोष ने 62. जयमल जी म. 63.
जर, जोरू, जमीन 64. जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति 65. जयसेन 66 जन्म
कल्याणक 67. जलज 68. जंत पीलण कम्मे 69. जन मानस



70 जम्बू स्वामी 71 जम्बू स्वामी 72 जम्बू द्वीप 73 जम्बू द्वीप
74. जननी 75 जरासध 76 जरा कुमार 77 जगदीश्वर 78 जल
बरसा 79 जलीय 80 जलचर 81 जलाना 82 जल परीषह 83
जन्म मरण 84 जलयान 85 जप-तप से 86 जबान 87 जन्म
जयन्ती 88 जरा 89 जतना 90 जटायु 91 जबान से 92 जलवृक्ष
93. जम्बूद्वीप 94. जल प्रभेन्द्र 95. जशोदा 96. जलता 97. जल
में 98. जयघोष 99. जयचन्द्र 100. जयपुर 101. जगचन्द्र सूरि 102.
जयमल जी म. 103. जयमल जी म. 104 जबान 105 जयमल जी
म 106. जयमल जी म. 107. जयसिंह 108. जयमल जी म. 109
जयमल जी म. 110. जय चक्रवर्ती 111. जयन्ति 112. जयवर्मा 113.
जयवर्मा 114. जसकीर्ति 115. जवाहराचार्य 116. जय कान्तेन्द्र 117
जृंभक देव 118. जन्म कल्याणक 119. जंगल 120. जुआ 121
जुगूसा 122. जापान 123. जापान 124. जाति स्मरण ज्ञान 125
जापान 126. जालोर 127. जाति पांच 128. जातिय बैर 129.
जामवंती 130. जापान 131. जामुन 132. जाज्वल्य मान सूर्य 133.
जान्हवी 134 जावज्जीवाए 135. जाव नियमं 136. जिराफ 137.
जिनेवा 138. जिनदास 139. जिह्वा 140. जितशत्रु 141. जिन
142. जिनाज्ञा सेवी 143. जिनकुशल सूरि 144. जिनकल्पी मुनि 145
जिनेश्वर कथित 146. जीवन 147. जीतेन्द्रिय 148. जीव-अजीव
149. जीवयशा 150. जीओ और जीने दो 151. जीवास्ति काय 152.
जीव योनि 153. जीजाबाई 154. जीव दयाणं 155. जीविया
संसम्पओगे 156. जीमण विहि 157. जीवा जीवाभिगम 158
जीवास्तिकाय 159. जैसलमेर 160. जे.एल.वेयर्ड 1944 161. जीवानद
वैद्य 162. जोगी 163. जेल 164. जैन 165. जोधपुर 166 जुआ
167. जुंगनु 168. जीर्ण सेठ 169. जेल 170. जेल

‘झ’ प्रश्नवली

1. झंडा 2. झांसी 3 झगडा 4. झाडू 5. झडा 6. झड़गई 7 झरन
दल्ली 8. झंडा 9. झडा 10 झाल उठना 11. झूला 12. झालर



- 13 झगडा 14 झूसणा 15 झंडा 16 झाडू 17 झूठ 18 झूठा
 19. झूठे 20 झूठ 21 झूठ 22. झूठ 23 झूठ 24 झुण्ड 25 झूठ
 26 झूठ 27 झगडते 28 झरता 29 झूठा 30 झूठ 31 झूठ 32
 झूठ 33 झूठ 34 झूठ 35 झूठा 36 झुकता 37 झगडे 38 झुकता
 39. झगडे

‘ट’ प्रश्नवली

- 1 टोडरमल 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया 3 टीपु सुल्तान 4 टपाल 5
 टेलीपैथी 6 टेलीविजन 7. टहनी 8. टाइम इज मनी 9. टोंक शहर
 10 टीकम चन्द जी 11 टोणा-टोटका 12. टी.वी 13 टंकोरी
 14 टी 15 टोडारायसिंह 16. टीकमचन्द 17 टकटकी
 18 टकराना 19. टकसाल 20. टकना 21. टन्-टन् 22 टपकना
 23 टालना 24. टालकर 25. टालनहार 26. टप्पा 27 टर्-टर् 28
 टाइम-टू-टाइम 29. टोका-टाकी 30. टांगना 31. टांगा, टमटम 32.
 टाई 33 टमाटर 34. टहलना

‘ठ’ प्रश्नवली

- 1 ठंडक 2. ठंड 3. ठाणा 4 ठाकुर 5. ठाम 6 ठग 7 ठा
 8. ठूस-2 खाना 9. ठाकुर 10. ठडाई 11. ठगी 12. ठगता 13.
 ठोस 14 ठन-ठन-पाल 15 ठडी 16. ठण्डा 17. ठकुराई 18
 ठणाग 19. ठणेण 20 ठोले खाकर 21. ठार का पानी 22. ठोस
 23 ठवणा 24 ठूंठ

‘ड’ प्रश्नवली

1. डमरूं 2. डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3. डब्ल्यू के रोण्टेजन 4
 डॉ राजेन्द्र प्रसाद 5. डिजरैली ने 6 डका 7 डडा 8 डण्डवी
 9 डोलना 10. डगमगाना, डावाडोल 11. डॉ एम सी मोदी 12.
 डॉडी 13 डॉ अम्बेडकर 14 डंकमार-पट पटा 15. डमरू 16
 डक 17. डंक 18. डकैत 19. डकार 20. डंठल 21 डॉस-मच्छर

22 डण्डे से 23 डामर गोली 24. डामर रोड 25 डोंगर गढ
 26 डकोत 27. डाकिया 28. डडा 29 डबोक 30 डान्स 31
 डेकोरेशन शानदार 32 डाकण 33. डैडी 34 डोंगी 35 डेस
 रहते 36 डॉट 37. डाढी 38 डाह 39 डान्स

‘ढ’ प्रश्नवली

1. ढीठ 2 ढिंढोंरा पीटना 3 ढंढण मुनि 4. ढाबा 5 ढक्कन
 6. ढलना 7 ढील से 8 ढोंगी 9. ढोंगी 10. ढेर 11 ढंग 12
 ढर्रा 13. ढढण मुनि 14 ढढण मुनि 15. ढढण मुनि 16 ढाल
 17. ढकोसला

‘ण’ प्रश्नवली

1. णमोत्थुणं 2. णमो चउवीसाए 3. णमो णाणस्स 4. णमो
 णाणस्स 5. णमो अरिहताणं 6. णाय धम्म कहा 7. णासावहारो
 8 णमोकार मंत्र 9 णमोत्थुणं 10. णमो लोए सव्व साहूर्ण 11.
 णिल्लंछण कम्मे 12 णमुक्कार सहिय 13. णमंसाभि


‘भाग-3’ प्रश्नवली

1. चार 2. स्वभाव 3. कर्मो 4 स्थिति 5. रस बंध 6. निकाचित्त
 7. अनिकाचित्त 8. मन 9 पाप 10. मोक्ष 11. गर्व 12. निकाचित्त
 13 अन्तराय 14. नरकायु 15 तिर्यचायु 16. मनुष्यायु 17. देवायु
 18. शुभनामकर्म 19. अशुभ नामकर्म 20. मोक्ष 21. मोक्ष 22.
 मोक्ष 23 मोक्ष 24. आत्मा 25 वद्धकर्मो 26. आत्मा 27. चैतन्य
 28. मोक्ष 29 अक्षय 30. शिव 31. भव्य, अभव्य 32 नही 33
 भवी 34 मुक्तात्मा 35 मुक्ति 36 बाधक 37. जीव तत्त्व 38
 सत 39. बाधक 40 साधकावस्था 41 निर्जरा 42. मोक्ष 43. मोक्ष
 44. ज्ञानी 45 आत्मा 46 केवल ज्ञानी 47. एक सौ आठ 48.
 कर्मभूमि मनुष्य 49. मोक्ष 50. बाहुवली 51. जम्बूस्वामी 52.
 सम्यग्ज्ञान 53. सम्यग्दर्शन 54. महावीर 55. शिव राजर्षि 56. नही

57 अनंत 58 आत्मा 59. अनादि काल 60 45 लाख योजन
 61 84 लाख 62 आत्मा 63 जीव 64 आत्म द्रव्य 65 दृष्टा
 66 आत्मा 67 जीव 68 जीव 69 जीव 70 जीव 71 स्थूल
 72 सूक्ष्म 73 सम्पूर्ण लोक 74 ससारी 75 विषय-कषाय 76
 जिन 77 सज्ञी 78. पचेन्द्रिय 79. हा 80 सम्मूर्छिम 81 असज्ञी
 82 त्रस जीव 83. स्थावर-जीव 84. गति 85. परमात्मा 86.
 आत्मा 87 चेतना 88 जीव तत्त्व 89 मनुष्य-तिर्यचगति 90.
 देव-विमान 91 इन्द्र 92. चौसठ 93. चौदह राजू 94. प्रतीति 95
 अग्नि 96 शस्त्र 97. पानी 98 स्वात्मा 99 आत्मदमन 100.
 आत्मदमी 101. ----- 102 आत्मा 103. कामी-क्रोधी 104.
 निरर्थक 105 जीव सत्ता 106 आत्मा 107 यौनी 108. द्रव्य प्राण
 109 भाव प्राण 110 हिसादि दोषों 111 अजीव 112 अजीव
 113 प्रकृति 114 रूप 115. पुदगलास्ति काय 116. अरूपी जीव
 117. तत्त्व 118. दर्शन 119 फैल-सूफी 120 अजीव-तत्त्व 121.
 लोकालोक 122. आकाश 123. आलोक 124 लोकान्त 125.
 भवनपति देव, नारक 126 वैमानिक देव 127. लोकाग्र भाग 128.
 लोक 129 सिद्ध प्रभु 130 लोक 131. जीव 132. षड्द्रव्य
 133 षड्द्रव्यों 134 अनादि 135. नृत्याकार पुरुष 136 कारागार
 137 अधोलोक 138 तिर्छेलोक 139 उर्ध्वलोक 140. ठहरने 141
 गति 142 धर्मास्ति, अधर्मास्ति काय 143. ईथर 144. स्थान देना
 145 पुदगलास्तिकाय 146. पुदगल 147 काल 148. भविष्यतकाल
 149. अवसर्पिणी काल 150 उत्सर्पिणी काल 151 समय 152
 अनादि अनंत 153. कार्मण वर्गण 154. पर-पदार्थ 155 जग-मच
 156 काल द्रव्य 157 छ छ 158 परमाणु 159 प्रदेश 160.
 परमाणु 161. नव 162 पुण्य 163 पुण्य 164. पुण्य 165 तीसरा
 166. वेदनीय 167 नव 168 सुपात्रदान 169. शयन पुण्य 170
 काय पुण्य 171 पुण्यानुबधी पुण्य 172. पापानुबंधी पुण्य 173.
 पुण्यानुबधी पुण्य 174. पापानुबधी पुण्य 175 पुण्यानुबधी पुण्य
 176 पुण्य 177. पुण्योदय 178. दुरात्मा 179 पुण्यहीन, दिवालिए
 180 जीवन क्षेत्र 181. समृद्धि 182. साता वेदनीय



183 तीर्थकर नामकर्म 184 पराघात 185 आदेय 186. सुरभिगध
187 मनुत्यानुपूर्वी 188 नरक 189 पुण्य 190. पुण्य-पाप 191
पुण्य 192 शुभाशुभमान 193 पुण्य 194 पुण्य 195 आत्मिक
196 लौकिक सुख 197 पुण्य जन्य 198 पुण्योदय 199. बन्धन
200 स्वतत्र 201. फलोपभोग 202 सूर्य 203 पुण्य 204. ईधन
205 प्रकाश 206 नष्ट 207. निगोदिए 208. निगोदिए 209
सदगुणों 210. पुण्य 211 पाप 212. पाप 213. पाप 214 पाप
215. पाप 216. पाप 217 पाप 218. अज्ञान 219. पापानुबधी पाप
220 पापानुबंधी पुण्य 221 अशुभकर्मों 222. अजीव 223. अरूपी
224 कंगाल 225 धन चुराने 226 गूंगा 227. बहरा 228. मर
229. खेत 230. मन 231. पुण्य-पाप 232. फल 233 पाप 234.
व्यवहार 235 कपटी 236 कपटी 237. राग 238 द्वेष 239. अनार
कली 240 माया मृषावाद 241 रति 242 अरति 243. प्रचला
244. प्रचला-प्रचला 245. मिथ्यात्व मोहनीय 246. अनादेय नामकर्म
247. सम्यक् दर्शी 248. दुःखों 249 दयालु 250. डरपोक 251.
परिग्रह जन्यपाप 252 कपटी 253 मायावी 254. दुर्दशा 255. वैर
256 खिरता, झड़ता 257. झरता 258. मरता 259 झूठा
260 फलोपभोग 261. अन्तर्जगत 262. दुष्चिपाक 263. पाप 264
प्रायश्चित 265. जीभ 266. ग्लानि, घृणा 267. अज्ञानी 268. पाप
269 नष्ट 270 संकोच 271. पश्चाताप 272. आश्रव 273
मिथ्यात्व 274. अविरति 275. प्रमाद 276. कषाय 277. योग 278
मनोयोग 279. वचन योग 280. काय योग 281. समभाव 282
सावधानी 283. जल 284. कर्म 285. सांपरायिक 286. ईर्यापथिक
287 सापरायिक 288. ईर्यापथिकाश्रव 289. संगमरमर दीवार 290
ईर्यापथिक बध 291 पुण्य 292. पापाश्रव 293. बन्धन 294 भव्यों
295. धर्म 296 धर्म 297. आश्रव 298. पापकर्मों 299. आश्रव
300 जीव 301 अविरति 302. कषाय 303. प्रमाद 304. सातवें
305. निर्जरा 306 आश्रव 307 संवर 308. सवर 309 पांच 310.
समकित संवर 311. विरति संवर 312. अप्रमाद 313. कषाय संवर
314. अयोग 315. सत्तावन 316, गुप्ति 317. ईर्या 318. ऐषणा



समिति 319 निर्जरा 320 कर्मो 321 अमृत स्रोत 322 कषाय
 323 दृष्टि 324 सामुदनिक क्रिया 325 अनुप्रेक्षा 326 भावना
 327 बारह 328 सूक्ष्म सम्पराय 329 परिहार विशुद्धि चरित्र 330
 ईर्यापथिक 331 तप 332 तप 333 कर्म निर्जरा 334 सवर 335.
 निर्जरा 336 कार्य कारण भाव 337 निर्जरा 338 मोक्ष 339. मोक्ष
 340 मजिल 341. बाल तप 342 अज्ञान तप 343. बाल तप
 344. शरीर 345. आभ्यन्तर तप 346. आभ्यन्तर तप 347. ऊनोदरी
 348 विनय 349 सविपाक 350. अविपाक 351. सविपाक 352.
 अकाम निर्जरा 353. अकाम निर्जरा 354. तपे 355. भाग्य बदल
 दे 356. मेरा नहीं निर्लिप्त 357. निर्लिप्त 358. भोगने 359.
 कर्मनाश 360 निरर्थक 361. अनशन तप 362 ऊनोदरी तप 363.
 निःशल्य 364. प्रायश्चित्त 365. ऊनोदरी 366. कायोत्सर्ग 367.
 तीर्थकर नाम कर्म 368. प्रभु स्तुति 369. तपाग्नि 370. मनुष्य 371.
 सकाम तप 372 स्वाध्याय 373 स्वाध्याय 374. सवर सहित 375
 उपादेय 376. मोक्ष 377. प्रति संलीनता 378. कायोत्सर्ग 379.
 शुभता. 380. कायोत्सर्ग 381. स्वाध्याय 382. प्रमाद 383 प्रभु
 384. सदज्ञान 385. स्वाध्याय 386. शमन 387. तप 388. तप
 389. तप 390 रघुनाथ जी म. 391. रघुनाथ जी म 392.
 रघुनाथ जी म 393 रघुनाथ जी म 394. लोकेषणा 395
 तपोमार्ग 396 दुःखों की

‘भाग-4’ प्रश्नवली

1 कल्प 2. कल्प 3. स्थविर कल्प 4. कल्प-सूत्र 5. दशाश्रुतस्कध
 6 प्रतिक्रमण 7. अतिचार लगेतब 8. 1 माह 9. 2 माह 10. 2
 माह 11. ऋजुजड़ 12 वक्रजड़ 13 ऋजुप्राज्ञ 14. कल्पसूत्र 15.
 बहत्तर हाथ 16. छियानवें 17. दो-दो कोश (पांच-2 भाग) 18.
 सवत्सरी प्रतिक्रमण 19. विनयाराधना 20. इन्द्रभूति, सुधर्मास्वामी
 21. सुधपूर्वमास्वामी 22. कल्पसूत्र 23. जीत व्यवहार 24. उपसर्ग

देख 25 भ ऋषभदेव 26 अन्तर्मुहूर्त 27. भ पार्श्वनाथ 28
 देशना 29. निर्वाण 30. नमस्कार कर्त्ता 31 बयालीस 32 सेवन
 33 स्थविर 34. प्रवर्त्तक 35 गणि 36 980 वर्ष 37 पुण्डरीक
 38. निर्धूम 39 हाथी 40. अन्तगड-सूत्र 41 अन्तगड सूत्र 42
 अन्तगड सूत्र 43 शूलों 44. पयूर्षण 45. आठ दिन 46.
 अन्तगड 47. कर्म 48. नब्बे 49. एक भवावतारी 50 सिद्धि प्राप्त
 51. बुराई 52. द्वारका 53. भ.नेमिनाथ 54 कस 55. जीवयशा का
 उपहास 56. सफाया 57. समानता 58 देवकी कृष्ण 59 11 वें
 मुनि सुव्रत 60. 12 वें अमम 61. मा, पुत्र, पौत्र 62. आखे 63.
 दीपक 64. मदिरा 65. श्री कृष्ण 66 अखंड आयम्बिल 67
 कार्मण वर्गणा 68. कर्म वर्गणा 69 विषय सुख 70 नाम कर्म
 71. इच्छित वस्तु 72. कोषाध्यक्ष 73. ससार 74. लेश्या 75
 संबंध 76. बन्ध 77. झगड़ते 78. कर्मों 79. अनादि अनत 80
 नारायण 81 सम्यगज्ञान 82. आत्मा 83. अनादि 84. कर्मों 85
 मिथ्यात्व 86 अनादिसान्त 87. सादिसान्त 88. एकसी 89. सिद्धात्मा
 90. पाप, भग्यवान् 91. कर्त्ता 92. मोहनीय कर्म 93. अबाधा काल
 94. निकाचित 95. उदीरणा 96 अपवर्त्तना 97. चारित्र, स्वरूप 98.
 अन्त समय 99. कर्मवाद 100. कल्याण 101 समकित 102
 समकित 103. 41 पुरूष, 10 महिला 104. गजसुकुमाल 105
 श्मशान 106 दीक्षित 107 दंत पक्ति 108 सोलह 109. चार सौ
 सात 110 गुण रत्न संवत्सर तप 111. गुण रत्न तप 112 उत्कट
 113 वीरासन 114. दीक्षा 115 भिक्षु प्रतिमा 116 विदेही साधक
 117. विदेही साधक 118 पूर्व 119 कर्म-मार 120 धर्म 121 धर्म
 122. आत्मिक, दैनिक 123. पाशविक, राक्षसी 124 स्थविर 125.
 तीर्थ 126 वीतराग वाणी 127. श्मशान 128. सत्य 129 वेदनीय
 130. दर्शन मोहनीय 131. गौत्र कर्म 132. कर्म पुदगल 133.
 आयुष्यकर्म 134. मोहनीय कर्म 135 अन्तर्मुहूर्त 136. श्री कृष्ण
 137 वन्धन 138. निष्काम कर्म 139 भूतकालीन कर्म 140
 भविष्य 141. भाग्य 142. पुरूषार्थ 143. सदपुरूषार्थ 144. अवगुण
 145. मोहकर्म 146 दस 147. विपाक 148. फल 149. प्रतिफल

150 एक सौ अठावन 151 ऋजुता 152 सरलता 153 सरलता
 154. सरलता 155 सरल 156. सरल पुरुष 157 सरल 158
 मायावी 159. झूठ 160. ऋजु 161 नीति सम्मत 162 सरलता
 163. सरलता 164. माया 165 सरिता 166 सत्य 167 विश्वास
 168 एकता 169. अहंकार 170 सरलता 171 पवित्रता 172
 व्यभिचारी 173 धोखा 174 सरलता 175 कपटी 176. सरल
 177 कुटिलता 178. धर्म का 179 दुर्गुणी 180 प्रेम 181 मायावी
 182. माया 183. सरल-स्वभावी 184. स्वाध्याय 185. स्वाध्याय
 186. स्वाध्याय 187. आभ्यन्तर तप 188 पाच 189. नन्दन वन
 190 अलौकिक 191. प्रमाद 192. शास्त्रों 193. शास्त्र स्वाध्याय
 194. शास्त्रज्ञान 195. स्वाध्याय 196. आचरण 197. स्वाध्याय
 198. जीवन शोधन 199. स्वाध्याय 200. अध्ययन 201. स्वाध्याय
 202 ज्ञान 203. श्रुतज्ञान 204 मनुज 205. पशु 206. अज्ञानांधकार
 207. स्वाध्याय 208. स्वाध्याय 209. स्वाध्याय 210. स्वाध्यायी
 211. तत्वज्ञान 212. स्वाध्याय 213. सत्संग 214. सदग्रन्थ 215.
 ग्रन्थ 216. समाधि 217. बोलते 218. ज्ञान 219. निर्जरा 220.
 विचार 221. स्वयं 222. चौतीस 223. स्वाध्याय 224. वाणी 225
 स्वाध्याय 226. भेद-विज्ञान 227. शून्य 228. ज्ञानवान् 229. चारित्र
 230. स्वर्ग 231. संतोष 232. इच्छा नियंत्रण 233. सतोष 234.
 तृष्णा 235. संतोषी 236. सतोष 237. हृदय 238. तृष्णा 239.
 संतोष 240. संतोष 241 संतोषी 242. तृष्णा 243. नन्दन वन
 244 मधुर 245. फकीर 246. मस्त 247. अकिंचनत् 248. संतोष
 249. समता 250 समता 251. समता 252. सामायिक, स्वाध्याय
 253. सामायिक 254. योग 255 समता 256. विषमता 257.
 स्वावलंबन 258 आत्मज्ञान 259 समता 260 सम रसता 261.
 समभाव 262. परदोष दर्शन 263. आत्मा 264. विभाव 265.
 समता 266. विषमता 267. निर्लिप्त 268. निष्पक्ष 269. योगीश्वर
 270 सहनशीलता 271. वीतराग 272. निर्ममत्वभाव 273. सेवा
 274. हृदय 275 सेवा 276. नियंत्रण, संयम 277. वैयावृत्य
 278 संत 279. प्रशंसा 280. करुणा 281. प्रभुसेवा 282. प्रेम

283. स्वोपकार 284. तीर्थकर गोत्र 285. सेवा 286. भावना 287. सेवा 288. सेवा 289. सेवा 290. स्वार्थ 291. स्वार्थ 292. निरसता 293. सरस 294. सेवा 295. सत समागम 296. सत्संग 297. सगति 298. अभयकुमार 299. कपूर 300. मोती 301. जहर 302. सुखकर 303. सगति 304. सत्सग 305. सत्संगति 306. सत्संगति 307. सत्संगति 308. सुलभ 309. विवेक 310. सफल 311. सत्संगति 312. असाधु 313. बदनाम 314. स्वर्ग 315. सहिष्णुता 316. क्षमावादी 317. क्षमाधारी 318. क्षमाशील 319. वीर 320. पूरक 321. क्षमायाचना 322. सहनशील 323. क्षमा 324. मोक्ष 325. देवता 326. क्षमावृक्ष 327. सामर्थ्यवान 328. क्षमा 329. मोती 330. क्षमा 331. श्रेष्ठक्षमा 332. क्षमाभाव 333. सुधारस 334. क्षमा 335. क्षमा 336. श्रेयस्कर 337. शत्रुता 338. क्षमाशीलता 339. रेगिस्तान 340. संत 341. वैर विरोध 342. भगवान 343. कठोर 344. परीषहों 345. पृथ्वीराज चौहान 346. क्षमा 347. अहं गलने 348. मन 349. इच्छा 350. विक्षिप्त 351. यातायात मन 352. श्लिष्टमन 353. मल 354. विक्षेप 355. आवरण 356. उर्ध्वीकरण 357. जगत 358. मन 359. निर्ग्रन्थ 360. मन 361. सरिता 362. स्वामी 363. मन 364. मन 365. आचार 366. साधन 367. चिन्ता 368. स्वभाव 369. कुमति 370. महात्मा 371. गुरूचरण 372. अज्ञानी 373. कृतघ्न 374. आत्मा 375. दास 376. शिरोधार्य 377. संत जीवन 378. बत्तीस 379. एक सौ आठ 380. एक हजार आठ 381. वैकुण्ठ 382. दुर्जन 383. अति कठिन 384. पाप 385. ताप 386. दरिद्रता 387. सत्संग 388. संत 389. तीर्थ 390. दुर्जन 391. सत 392. कुसंगति 393. सयम 394. चारित्र 395. स्वतत्र 396. शक्ति 397. संयम 398. असयम 399. इच्छा 400. बाल सयमी 401. चारित्रवान् 402. सयम 403. दमन 404. दुःख 405. सयम 406. संवर 407. आश्रव द्वारों 408. गुलामी 409. सयम 410. बुद्धि 411. संयम 412. संयमी 413. सयम 414. सत्तरह 415. संयम 416. संयम 417. वर्षादान 418. अनुकपा दान 419. दान 420. दान देना 421. त्यागना 422.



तीर्थकर 423 समवशरण 424 चौगुनी 425 भावना 426 अनत
427 उल्लास भाव 428 उदात्त दृष्टि 429 14 430 निःस्पृह
431 देवता 432 महादान 433 उच्चश्रेणी 434. इन्द्रिय दमन 435
दया करो 436. दान करो 437 रेवती श्राविका 438. काया 439
संसार 440 धर्म 441 अभयदान 442. जीवनाभाव 443. दान 444
प्रशंसा 445. प्रचार 446. अदाता 447. दरिद्री 448 मनुष्य 449.
मनुष्य 450. मनुष्य 451. आत्म कल्याण 452. मानवता 453. आत्म
हत्या 454. देव 455. मानवता 456. मानवता 457. पूर्णग्रन्थ 458.
मानव 459. जीत 460. चमत्कार 461. हार 462. महा मूर्खता 463
मनुष्यता 464. मानवता विहीन 465. 14वीं 466. नारायण 467.
मानवभव 468. धर्मीनर 469. मानव 470. धर्म 471. आत्मा 472
दान 473. श्रेष्ठदान 474. राजस दान 475. तामस दान 476. आहार
दान 477. शास्त्रदान 478 जीवन दान 479. आरोग्य दान 480. दस
481. अहिंसा 482. अहिंसा 483. अहिंसा 484. हिंसा 485. अहिंसा
486. अहिंसा 487. अहिंसक भावना 488. अनेकान्त वाद 489.
अपरिग्रहवाद 490. निषेधात्मक 491. विधेयात्मक 492. हिंसात्मक
493. मानस 494. अहिंसा 495. हिंसा 496 द्रव्य अहिंसा 497.
भाव अहिंसा 498. अहिंसा 499. अहिंसा 500 अहिंसा 501.
विवेक 502. स्वार्थ, लोभ, प्रमाद 503. जीना 504. प्राणियों 505.
दुःख 506. धर्म 507. प्रश्न व्याकरण 508. अहिंसा 509 सकल्पी
हिंसा 510. आरभजा हिंसा 511. उद्यौगिक हिंसा 512 विरोधी
हिंसा 513. श्रावक 514 ज्ञानी 515. ज्ञानी 516. संत 517. अहिंसा
518. सत्य 519. अहिंसा 520. अहिंसा 521. अहिंसा 522. युद्ध
523. धिक्कारा 524. मनुज 525. स्वार्थी 526. मेतार्य मुनि 527.
अहिंसा 528. सत्य 529. सत्य 530. सत्य 531. आत्मा 532.
सरलता 533. सत्युपासक 534 सत्य 535 सत्य धर्म 536 सत्य
537. तथ्य 538. मैत्री 539. पापानुगामिनी 540 सावद्य 541.
अप्रियकर 542. तप 543 भगवान 544. सत्य 545. झूठ 546. झूठ
547. मानसिक सत्य 548. वाचिक सत्य 549 कायिक सत्य
550 सत्य 551. सत्य 552. सत्य 553. वाणी 554. प्रतिष्ठा



555 मौन 556 सत्य 557. सत्य 558. शिव 559 सत्य 560
असत्य 561. सत्य 562. शब्दों का 563. सत्य 564 सत्य 565
सत्य का 566 सत्य 567. चोरी 568. चोरी 569. चोरी 570 चोरी
571. तीस 572. चोरी 573. चोर 574 चोरी 575 बहने 576
प्रशंसा 577. चोर 578. चोर 579 गुनाहगार 580 चोर 581
ब्रह्मचर्य 582. ब्रह्मचर्य अणुव्रत 583. ब्रह्मचर्य 584. ब्रह्मचर्य 585
ब्रह्मचर्य 586 प्रथम 587. अखंड ब्रह्मचारी 588 ब्रह्मचर्य 589
शील, सदाचार 590. बदनामी 591. काम-भोग 592. काम
(परिश्रम) 593. क्षमता 594 मृत्यु 595. निर्बल 596. ब्रह्मचर्य
597 ब्रह्मचर्य 598. स्त्री 599. सन्यासी 600. शीलवंत 601.
मूर्च्छा-मोह 602. सात्त्विक 603. सीता 604. विषय सेवन 605
स्पर्श-मात्र 606. रूप दर्शन 607. शब्द श्रवण 608. वासना-कामना
609 बेईमानी 610 परिग्रह 611. आसक्ति 612. आसक्ति 613
ममत्व 614. उदासीन, तटस्थ 615. दृष्टा भाव 616. आभ्यंतर
परिग्रह 617 अपरिग्रह 618. जागृति 619. बाह्य परिग्रह 620 नाश
621. तृष्णा 622. तृष्णा नियंत्रण 623. धन 624. स्त्री 625. स्वयं
626. भोग 627. उपभोग 628. परिग्रहवृत्ति 629. मद 630. शोक
631. स्वर्ग 632. स्वर्ग 633. धतूरा 634. परिग्रह 635. वैभव-विलासी
636. परिग्रह 637 परिग्रह 638. धर्म-कर्म 639. परिग्रही 640
तिर्यच 641. देवों 642. साधु 643. श्रावक 644. निर्दोष 645
लोभी 646. मन 647. शरीर, परिवार 648 वांछा 649. ममत्व
650 कजूसी 651. इच्छा परिमाण 652. उपभोग परिमाण 653
विवाद 654. शोषण 655 परमेश्वर 656. परिग्रह 657 नियंत्रण
658. प्रभु भक्ति 659. शोषण 660 अहिंसा महाव्रत 661. रात्रि
भोजन त्याग 662 मञ्जम निकाय, लकुटिकोपम सुत्त 663
चातुर्मासिक 664 दुष्कर 665 कमजोर 666. रात्रि मुक्ति विरति
667. जीव हिंसा 668 राक्षसी 669. लाभदायक 670 लेश्या 671
लिप्ता (श्लेष) 672. अशुभ 673. लेश्या 674. पीत 675. तेजो
676. कृष्ण 677. भाव 678 लेश्या 679. पवित्र 680 विशुद्ध



‘भाग-5-6’ प्रश्नवली

- 1 क्रोध 2 क्रोध 3 क्रोध 4 कपाल 5 अहंकार 6. हिसा
- 7 क्रोध 8. क्षमा 9 तूफान 10 क्रोध 11 राक्षस 12. क्रोधी 13.
- प्रीति 14 भक्ति 15 क्रोध 16 अधा 17. क्रोध 18. दुर्बल 19
- दुर्बल 20 विषैला 21. बुद्धि 22. आवेश 23. क्रोध 24
- अनतानुबधीक्रोध 25. अप्रत्याख्यानी क्रोध 26. आजीवन 27 वर्षभर
- 28 सज्वलन क्रोध 29 शांत 30. क्रोध 31. क्रोधगति 32. क्रोधी
- 33 रौद्रध्यान 34. अभिमानी 35 अहंकार 36 सुदी 37. मूर्खता
- 38 पश्चाताप 39 प्रशंसा 40 मान 41 गर्दन 42. फल 43. ज्ञान
- 44 प्रगति 45. विनय 46. मन:शांति 47. अन्धकार 48. कुमति
49. सुमति 50. भक्ति 51 दुश्मनी 52. सिढी 53. अभिमान 54
- अह 55. अज्ञानी 56. मानवृद्धि 57. अभिमान 58 मन 59. क्षुद्र
- 60 प्रशसा 61. अभिमान 62. परोपकार 63. फल 64. लोकेषणा,
- प्रशंसा 65. यौवन 66. आत्मार्थी साधक 67. शत्रु 68. मानी 69.
- भूल 70. बाहुबली 71 माया 72. माया 73. माया 74 सरलता
75. जन्ममरण 76. मायावी 77. माया 78. नीति 79. आठवा 80.
- माया 81. झूठ 82. सरलता 83 माया 84. तिर्यच 85. माया 86.
- मायावी 87. मायावी 88. माया 89 माया 90. धनी 91. दुर्गुणो
- 92 मायाचारी 93 झूठ 94 झूठ-धोखा 95. झूठ 96. मायावी 97
- भय-चिता 98. माया 99. माया 100. माया 101. परमात्मा 102.
- बगुला भक्त 103. मायावी 104. माया 105 कुटिलता 106. कैदी
- 107 माया 108. लोभी 109 पाप 110 लोभी 111. लोभ
112. लोभी 113 लोभी 114. झूठ 115 ममणसेठ 116. कपिल
- ब्राह्मण 117 प्रेरित 118. तृष्णा 119. तृष्णा 120. निर्लोभी 121
- निर्लोभी 122. पाप 123. लोभी 124. पैसा 125 लोभी 126.
- लालच 127. विस्फोटक 128 लोभी 129. तृष्णा 130 लोभी
- 131 लोभ 132. लोभी 133 अनतानुबधी 134 लोभी 135. बढ
136. लोभी 137. धनवान 138 निर्धन 139. तृष्णा 140 इच्छा
141. लोभी 142. मनुष्य 143 धन-माया 144. चैतरणी

145. तृष्णा 146. लोभी धनिक 147. लोभ 148. दृष्टि राग 149
 राग 150 अविधा 151. कटु 152. काम राग 153 स्नेह राग 154.
 दृष्टि राग 155 भाषा राग 156. दसवें 157. अप्रशस्त 158 बन्धन
 159. राग वश 160 इश्क, मोहब्बत 161. मोह 162 राग 163
 राग 164 कामना 165. राग 166. राग 167. राग 168 राग 169.
 स्नेह पाश 170. स्नेह पाश 171 जरथुस्त्र 172. राग 173. दुःख
 174. साधना 175. मोहासक्त 176. प्रशस्त राग 177. सारथी
 178. आसक्ति 179 जिन 180. ममत्व 181. समत्व 182 समत्व
 183. ममत्व 184. विषयानुरागी 185. कठ पुतली 186. झूठा
 187. राग 188. भोगी 189. क्रोधादि 190. द्वेषी, ईर्ष्यालु 191 द्वेषी
 192. प्रतिकूलता, विरोध 193. ममत्व बुद्धि 194. द्वेषी 195. द्वेष
 196. ईर्ष्यालु 197. ईर्ष्या 198 गरीबी 199. नाश 200 ईर्ष्या
 पापनी 201. प्रेम 202. निराशा 203. ईर्ष्या 204. राग-द्वेष 205.
 क्रोध 206. अशुभ 207. राग 208. द्वेष 209. ज्ञानाभाव 210. ईर्ष्या
 211. वातावरण 212. ईर्ष्या 213. विद्वेष 214. विद्वेष 215. मंगल
 भावना 216. मूर्खता 217. सम्यग्दर्शन 218. सम्यग्दर्शन 219
 सम्यग्दर्शन 220. सम्यक्त्व 221. सम्यक्तव 222. देशना लब्धि
 223. सम्यग्दर्शन 224. सम्यग्दर्शन 225 सम्यग्दर्शन 226. सम्यग्दर्शी
 227. यशःकामी 228. सम्यग्दर्शन 229. सम्यग्दर्शन 230
 सम्यग्दर्शन 231. ज्ञान 232. सम्यग्दर्शन 233. चिन्तामणि 234. मोक्ष
 235. क्षायिक 236. सम्यग्दर्शन 237. धर्म 238. दृष्टि 239.
 सम्यग्दर्शन 240 भगवान 241 हरि 242. सम्यग्दर्शन 243. स्वरूप
 244. स्वरूप 245 अंध 246. मोती 247. आठ 248. दस 249.
 सम्यग्दर्शन 250. चारित्र 251. सम्यग्दर्शन 252. श्रद्धा 253 अश्रद्धा
 254. निर्मल 255. मछली 256 ज्ञान 257. आत्म ज्ञान 258 ज्ञान
 259. सम्यग्ज्ञान 260 मति, श्रुतज्ञान 261. आत्मा 262. मिथ्या 263.
 परोक्ष 264. ज्ञान 265 ज्ञान 266. दर्पण 267. अभिन्न 268
 वहरूप 269. ज्ञान रूप 270. कर्म 271. निर्वाण 272. गुण-गुणी
 273. जिज्ञासा 274. अर्वाधज्ञान 275. चारों गति 276. ज्ञान 277.
 ज्ञानी 278. पांच 279. संयत 280. क्षयिक 281. विद्या 282. ज्ञानी



पुरुष 283 प्रज्ञा 284. कल्प वृक्ष 285. ज्ञान 286 सम्यक् चारित्र
287. चारित्र 288. द्रव्य चारित्र 289. भाव चारित्र 290. चारित्र
291 साधु 292. चारित्र 293 धर्म 294 कुशीलवान् 295. गुणव्रत
296 शिक्षाव्रत 297. अनर्थादण्ड विरमण 298. आचरण 299. शुभ
संकल्प 300. छेदोपस्थापनीय 301 छेदोपस्थापनीय 302. यथाख्यात
303 सूक्ष्म संपराय चारित्र 304. हीरे 305. आचरण 306.
चारित्रहीन 307 यश 308. प्रतिष्ठा 309 त्याग 310. त्याग 311
त्यागी 312. चारित्र 313. चारित्रवान 314. दर्पण 315. पथिक 316.
1 से 17 317. तप 318. तप 319. तप 320. ताप 321. संताप
322. तप 323. अज्ञानयुक्त 324. सम्यक्तव 325. मधुकरी वृत्ति
326. 11 लाख 60 हजार 327. वृत्ति संक्षेप 328 सात्विक तप
329. तप 330 उत्तर गुण 331. वर्षा 332. प्रायश्चित्त 333
प्रतिसंलीनता 334. स्वर्ग 335. तप 336. तपस्वी 337. विनयवान्
338. तप 339. क्रियायोग 340. ज्ञानभोग 341. शरीर 342.
सामायिक 343. दुर्जन 344. भंते 345. संवर 346. स्थानांग सूत्र
347. सामायिक 348. हरिभद्रावश्यक 349. इर्यापथिक सूत्र 350
भगवती 351. भावत्कालिक 352. श्रावक 353. श्रमण 354. साधु
355. श्रावक 356. श्रावक 357. सामायिक 358. सामायिक 359
सामायिक 360. सामायिक 361 सामायिक 362. गुरु वन्दन 363.
लोगस्स, णमोत्थुणं 364. पुरुषार्थ 365 इच्छाकारेणं 366.. तस्स
उत्तरी 367. पावाणं कम्माणं 368. आलोचना 369. गर्हा 370
समता 371. निर्भयी 372. णमोत्थुणं 373. चारित्र मोहोदय
374. शक्रेन्द्र 375 सामायिक 376. नववै 377 अमूल्यवान् 378.
लौकिक वैभव 379. सिद्धात्माए 380. ससारी 381. सामायिक 382
समत्व 383 कायोत्सर्ग 384. आवश्यक 385. समताराधन 386.
सामायिक 387. तीर्थकर 388. अतिक्रम 389. व्यतिक्रम 390
अतिचार 391. अनाचार 392. सामायिक 393. प्रतिक्रमण 394.
इच्छामि ठामि 395 पांच बार 396. इच्छामि ठामि 397 ठक जाते
398. पूर्वे कायोत्सर्ग 399. स्वभाव 400 पांच 401. शंका
402 कांक्षा 403. धर्म 404. पर पाखण्डी 405. परपांखडी

406. स्वाध्याय 407 स्वाध्याय 408 स्वाध्याय 409 स्वाध्याय
 410. आश्रव 411 अब्रह्मचारी 412. हीरे 413 सत्य व्रत 414
 अहिंसा व्रत 415. प्रतिक्रमण 416. कर्मादान 417 शिष्य 418
 इच्छामि खमासमणो 419. दो 420 आवर्त्तन 421 आववस्सियाए
 पडिवकमामि 422. अहंविजय 423. विधिवत् 424. विनयभाव से
 425 खमासमणों 426. मौखर्य 427. 8वे अनर्थादिण्ड 428
 मिथ्यात्वी 429 सम्यादृष्टि 430. आलोचना 431. सतर्कता 432
 प्रतिक्रमण 433 प्रत्याख्यान 434. तीर्थकर गोत्र 435. मत्र 436. मत्र
 437. मंत्र 438. नमो 439. महापुरूषो 440 नवकार 441 नमस्कार
 442. नमस्कार 443. विनम्र 444 नवकार 445 नवकार मत्र 446
 नवकार मत्र 447. नवकार मंत्र 448. अमगल 449 पाप 450
 णमो लोए सव्वसाहूण 451. वंदनीय, पूजनीय 452. द्वेत नमस्कार
 453 अद्वेत नमस्कार 454. अरिहत 455 अरिहंत 456. अरिहत,
 सिद्ध 457. अपापायागम 458 ज्ञानातिशय 459 पूजातिशय 460.
 वचनातिशय 461. सिद्ध जप 462 सिद्ध प्रभु 463. कर्मशत्रु 464
 अरिहत, तीर्थकर 465. तीर्थकर 466. जिन, वीतराग 467. देव
 468 गुरू 469. चार 470 सिद्ध 471. दर्शनावरणीय क्षय 472.
 ज्ञानावरणीय क्षय 473. पाच 474. तीर्थकर, चक्रवर्ती 475 गर्भ
 कल्याणक 476 जन्म 477. दीक्षा 478. केवल ज्ञान 479. निर्वाण
 480 स्वयंइन्द्र 481. कल्याणक काल 482. दुःखों 483 निरजन
 484 निराकार 485. अगम 486 चार 487. पद्रह 488. पंद्रह 489
 तीर्थकरो 490. चरण 491. सत्तर 492. सत्तर 493. सारणा
 494. वारण 495 धारणा 496. चौतीस 497. पैतीस 498. माला
 मत्र 499. अडसठ 500. णमोसिद्धाणं 501. एक सौ आठ 502.
 साधु 503 चार 504 एक 505. कायोत्सर्ग 506 मन मंदिर
 507 नववां 508. सर्वश्रेष्ठ 509. अपरिमित 510. परमेष्ठि मत्र
 511. साधना 512 नवकार मत्र 513 चुलिका 514. तुरन्त 515.
 आत्म शुद्धि 516. प्रथम पद 517. निष्काम 518. एक सौ आठ
 519. गुणों

‘भाग-7’-8-9’ प्रश्नवली

1. चिंता 2. चिता 3. चिता 4. बुद्धि 5. चिंता 6. नारी 7. बन्धन
8. खतरनाक 9. समर्पण 10. प्रतीक्षा 11. रिक्तता 12. आदर्श 13. नारी
14. कर्तव्य परायणता 15. नारी 16. नारी 17. धार 18. काम
19. पानी 20. शील-स्वभाव 21. कस्तुरी 22. लज्जावान् 23. नारी
24. पत्नि के 25. श्वास-स्थिरता 26. एकान्त वासी 27. प्राणायाम
28. प्राणबल 29. प्राणवान् 30. ऊर्जा-शक्ति 31. मस्तिष्क 32. नारी
33. नारी 34. प्राण संवर 35. मानव 36. साध्य 37. बुद्धिबल
38. घोर अनर्थ 39. धर्मामीटर 40. लज्जा 41. मैत्री 42. गुरु
43. बुद्धिमान 44. विद्यार्थी 45. वीर्य विनाश 46. काम 47. ब्रह्मचारी
48. वासना 49. ब्रह्मतेज 50. आत्मार्थी 51. भिखारी 52. उपासना
53. उपासना 54. निरहंकारी 55. पाप 56. हलाहल 57. मनःचंचलता
58. झूठ-कपट 59. समाधि 60. दर्शन 61. प्रतिच्छाया
62. विद्वेष 63. आंख 64. मन 65. दिल 66. मन
67. ध्यानाभ्यास 68. तलघर 69. कर्मो 70. वायु 71. मनोलय 72. नाद
73. प्राणवायु 74. वीर्य 75. सत्व 76. मन 77. कायोत्सर्ग 78. आदर
79. अमृत 80. क्षुद्रस्वभावी 81. विराट्-महान 82. बडप्पन
83. महापुरूष 84. लोक नायक पुरूष 85. महापुरूष 86. महापुरूष
87. महापुरूष 88. युग पुरूष 89. महापुरूष 90. सज्जन 91. महानता
92. सहृदयी 93. विचार वान् 94. तिरस्कार 95. विरले
96. मानवता 97. अस्थिर 98. तीर्थकरों 99. प्रबुद्ध हृदयी 100. प्रशान्त मन
101. विचारों 102. स्वस्थ मन 103. संखिए 104. अनुप्रेक्षा
105. भावना 106. भावना 107. भावना 108. सहिष्णुता
109. मानस यत्र 110. विक्षिप्त 111. हाई ब्लड प्रेशर 112. लॉ ब्लड प्रेशर
113. मन 114. निश्चय 115. चित्त 116. मनोनिग्रह 117. मनो विलय
118. सक्रिय 119. वृत्ति 120. खुराफात 121. प्राण
122. वृत्तियां 123. वृत्तियों 124. आत्म दमन 125. क्षायिक मार्ग
126. औपशमिक मार्ग 127. शिथिल 128. बाधक 129. सकल्प
130. रामकृष्ण परमहंस 131. इच्छा शक्ति 132. विवेक

133. विवेक 134. होश 135 विवेकशील 136 यथार्थ 137
 विवेक 138. शव 139. दुराग्रही 140 समिति 141. तर्क 142
 अनुसंधान 143 दर्शन 144 विज्ञान 145 अभिशाप 146 अध्यात्म
 147. विश्लेषण 148. हृदय 149. विज्ञान 150. अमनचैन, शांति
 151. दर्शन 152. व्यसन 153. सात्विक 154 व्यसन 155. व्यसन
 156. व्यसनी 157. नीरस 158. व्यसनी 159. लघु 160 द्युत
 क्रीडा-जुआ 161. खेलता 162. बच्चा 163. नाश 164. जुआंरी
 165. जुआंरी 166. धर्म पुरुष 167. भोग पुरुष 168. कर्म पुरुष
 169. चमक 170. निखार 171. सौरभ 172. वीर 173 जीवन
 174. मृत्यु 175. प्यार 176. महापुरुष 177. अज्ञानी 178. मृत्यु
 179. पाप 180. चन्दन 181. विचार 182. भूतकाल 183. वर्तमान
 काल 184. भविष्य 185. बीज 186. फल 187. अंधा 188.
 विकार 189. कागज फूल 190 विनम्रता से 191. विनय 192.
 चापलूस 193. सद्गुण 194. विनम्रता 195. सद्गुणों 196. द्रव्य
 वन्दन 197. विनयवान् 198. कढने (अनुभव) 199. जुआरी 200.
 मांसाहार 201. मांसाहार 202. मदिरा 203. मदिरा 204. मदिरालय
 205. मदिरा 206. मदिरा 207. मदिरापान 208. वैश्या 209. वैश्या
 210. वैश्या 211. वैश्यालय 212. पैसे 213. मदिरा 214. वैश्या
 215. वैश्या 216. भस्म 217. शिकारी, कसाई 218. कच्चा पारा
 219. चोर 220. कलुषित 221. सत्संग 222. सत्संगति 223. बन्धन
 224. परख 225 गुरू 226. समत्वाभाव 227. सामायिक
 228. सामायिक 229. सामायिक-साधना 230. सामायिक 231. फल
 232. साधक 233. वीतराग भाव 234. तुच्छ 235. अद्योगामी 236.
 उपलब्धियों 237. समभाव 238. आत्म सम्पदा 239. स्वात्म विजेता
 240. क्रियाहीन पडित 241. क्रियावान् 242. कीर्ति 243. वर्जनीय
 244. मुमुक्षु 245. आत्मोत्थान 246 घातक 247. घाणीबेल 248.
 अभिनव 249. माया 250. साहित्यकार 251. साहित्य 252. साहित्य
 253. सत्साहित्य 254. साहित्य 255 साहित्य 256. साहित्य 257.
 साहित्य 258 सत्साहित्य 259. साहित्य 260. साहित्य 261. साहित्य
 262. ब्रह्मा 263. बिष्णु 264. महेश 265. सेवा 266. मंदिर

267 पूजा 268. सेवा 269 सेवाफल 270 श्रेष्ठ 271 सेवा 272.
 व्यापार 273 नष्ट 274. क्षुद्र 275 कार्य 276. बाधक 277.
 तेजस्वी 278 सकल्पवान् 279 मन 280 संकल्प 281. राक्षस
 282 भाग्य 283. आदतों 284 महानकार्य 285. सकल्पवान् 286.
 दृढ़ सकल्प 287 संकल्प 288. आत्मबल 289. संकल्प हीन 290.
 महा कठिन 291. लक्ष्मी 292. मृत्यु 293 दल हित 294. सहिष्णुता
 295. पतन 296. विश्वास 297. कुतार्किक 298. समालोचक 299.
 साहित्य 300. आक्षेपणी कथा 301. विक्षेपणी कथा 302. संवेदनी
 कथा 303. निर्वेदनी कथा 304. व्यवहार आक्षेपणी 305. प्रज्ञप्ति
 आक्षेपणी 306. दृष्टिपात आक्षेपणी 307. साहित्य 308. श्रेय 309.
 दुःख 310. अपयश 311. अपयश 312. संतोष 313. द्वन्द्व 314.
 कारण, निमित्त 315. महक 316. कसौटी 317. विपदा 318. विपदा
 319. विपत्ति 320. सहयोग 321. औषध 322. मन 323.
 अन्तःकरण 324. दुःख 325. सुख 326. संयोग सुख 327. दुःख
 328. संतोष 329. ममता 330. प्रायश्चित्त 331. ज्ञान 332. सत्ता,
 प्रतिष्ठा 333. ब्रह्मज्ञानी 334. जिज्ञासा 335. चरण 336. शिक्षा
 337. समाधि 338. दिखाने 339. अहं प्रदर्शन 340. ज्ञान-विद्या
 341. अनुशासन 342 अविधा 343. अविधा 344. मनःबैचेनी 345.
 आत्म ज्ञान 346. ज्ञान 347. अज्ञानी 348. सर्वश्रेष्ठ 349. स्वाध्याय
 350. ज्ञान 351. पुस्तक 352. पुस्तक 353. ज्ञानी 354. लोक रूढि
 355. गुरु 356. सद्गुरु 357. सद्गुरु 358. सद्गुरु
 359 सद्गुरु 360. सद्गुरु 361. गुरु 362. अनुशासित 363.
 सद्गुरु 364. पृष्ठभूमि 365. पाथेय 366. तत्व मोती 367 अन्तरंग
 368 श्रद्धा 369. श्रद्धा 370. श्रद्धा 371. श्रद्धा 372. शव 373.
 ज्ञान 374 कोमल 375. श्रद्धा 376. श्रद्धा 377. अध्यात्म 378.
 श्रद्धा 379. लाज 380. श्रद्धा 381 श्रद्धा 382. हेतुवाद 383
 श्रद्धा 384. अहंकार 385. पुत्री 386. सम्यग्दर्शन 387. श्रद्धा 388.
 विद्वान 389. अज्ञानी 390. ज्ञान निधि 391. मधु मक्खी 392.
 विज्ञान 393. क्षुद्र हृदयी 394. मुक्त करना 395. अहकार 396.
 मनुष्य 397. निर्मल 398. आचार 399. दर्शन 400. आचरण

401. सहनशीलता 402 अहिंसा 403 वृत्ति 404 अहिंसा 405
 अनेकान्त 406 स्याद्वाद 407 अहिंसा 408 अहिंसा 409 अहिंसा
 410 सिद्धान्त 411. अहिंसा 412. निवृत्ति 413 भाव हिंसा 414
 द्रव्य हिंसा 415 प्रति हिंसा 416. स्वनिंदा कातर 417 स्वालोचन
 418. निंदा 419 निदक 420 निदक 421. निदक 422 कर्म
 निर्जरा 423. आत्म निन्दा 424 कागज, कुत्सित फूल 425 सच्चा
 हितैषी 426 घृणा 427. मूर्ख, विद्वैषी 428. ईर्ष्यागिन 429. ईर्ष्या
 430. क्षमा 431. गुरु 432 गुरु 433. काम 434. चरित्र 435
 चरित्र 436 स्थायी 437 श्रद्धा 438. चरित्र 439. सदाचार 440.
 सदाचार 441. पहलू 442. शील साधना 443. सौ 444. हजार
 445. कृष्ण पक्ष 446. शुक्ल पक्ष 447. भावों 448. सम्यग्श्रुत
 449. सदाचार 450. वस्तु निष्ठ 451. आत्म निष्ठ 452. प्रकाशन
 453. मेरूदण्ड 454. आचारवान् 455. आचार हीन 456. विचार
 457. आचार 458. सत्व 459. चित्त 460. कर्म सिद्धान्त 461.
 चमचमाती 462. सदाचार 463. ईर्ष्या 464. ईर्ष्यालु 465. ईर्ष्या
 466. ईर्ष्यालु 467. ईर्ष्यालु 468. ईर्ष्या 469. ईर्ष्यालु 470. ईर्ष्या
 471. द्वेषी 472. द्वेषी 473 आत्म ज्योति 474. तन्मयता, तडफन
 475. हृदय 476. हृदय-विशालता 477. मानव 478. सुख 479.
 एकाग्रता 480. एकाग्रता 481. एकाग्रता 482. एकाग्रता 483. मूल
 मंत्र 484. केन्द्रित भावना 485. कवि 486. कवि 487. कवि 488.
 कवि 489 कवि 490. कवि 491. अन्तर्भेदी 492. कवि 493.
 कवि 494. कवि 495. कमनीय 496. कवि 497. फलश्रुति 498
 कला 499. कला 500. कलाकार 501. संगीत 502. नृत्य 503.
 कलाए 504 नमस्कार 505. कला विहीन 506. कला 507. कला
 508. विलासिता 509. निम्न श्रेणी 510. मध्यम कला 511. उत्तम
 श्रेणी 512. धर्म कला 513 धर्म कला 514. धर्मकला 515. महान
 कलाकार 516. छिद्र 517. दुर्जन 518. कमजोरी 519. मानव 520
 गुण 521. करूणा 522. गुण दर्शनकर 523. सद्गुण 524. दुर्गण
 525. दुर्व्यसन 526 गुणों 527 उपेक्षा 528. सद्गुण 529. सत्कर्म
 530. मन 531. पूजा 532. गुण ग्रहण 533. सरलता 534. जिज्ञासु



535 गुरु कृपा 536 दया 537 सत्सग 538. दया 539. दयालु
540 करूणा 541 करूणा 542 दया 543 दान 544. कजूस
545 दानी 546 भावना 547 दान 548 दान 549 दान 550
दान 551 अपूर्वफल 552 मधुर 553. धन-सम्पदा 554. धन 555.
शत्रुता 556. अनर्थ 557 ठोकर 558 सत्कार्य 559 मितव्ययी
सतोषी 560. लक्ष्मी पति 561 लक्ष्मी दास 562 वैभव 563
कजूस 564. दुर्जन 565. धनी 566. सम्मानित 567. नैतिक-जीवन
568 कठिन 569 मित्र बनाना 570. परतंत्र 571 स्नेह 572.
मित्रता 573 चातुर्य 574. दुष्टता 575 आदर्शो 576. आदेशात्मक
577. तथ्यो 578. वर्णनात्मक 579 नीति 580. बेकार 581. चारित्र
विकास 582. समाज 583. मानवता 584. झुकिए 585. अनुभव
586 परहित समर्पित 587. अकर्मण्यता 588. पुरूषार्थ 589. श्रम
590 आलसी 591. आलस्य 592. आलसी 593 आलस 594.
आलस 595. आलस्य 596 आलस्य 597. सफलता 598 परिश्रमी
599. छाया 600. कायरता 601 वीर 602. प्रतीक 603 दुःखमय
604 समझते 605. स्नेह-सद्भाव 606 प्रेम 607. प्रेम 608
बदलाव 609. जुड़-घुलमिल 610. मैत्री 611. समाप्त 612 झुण्ड
613. विशाल भूखण्ड 614. शासन 615. स्वर्ग 616. प्रेमी 617.
प्रेम 618. मित्र-मैत्री 619. स्नेह 620. आत्म प्रशंसा 621. क्षुद्रता
622 पुल 623. रागी 624. द्वेषी 625. सिद्धान्त 626 योग 627.
प्रेम मार्ग 628 पौरूष हीन 629. भाव 630 साधना 631. शील,
स्वरूप 632. कविता 633. कृति 634. पानी 635. सहिष्णुता
636. मानवता 637. सुगन्ध 638 विवेक 639. आचार 640. निब्ब
641. शिक्षा 642. संयम 643. समय 644. पात्र 645. परीक्षक
646. क्रूर 647. मजदूर 648. स्वयं को 649. अनुभव 650
परमात्मा 651. कामना 652. श्रीमंत 653 गरीब 654. हारजीत
655 समझौता 656. निश्चितता 657 छाया 658 कृत्रिमता 659.
दक्षता 660 मूर्खता 661 जौहरी 662. सार्थक 663. मनुष्य 664
मनुष्य 665. मानवता 666. मानव 667. मानव 668. जंगली 669
मानव 670. मानव 671. मानवता 672. स्वार्थी 673 शाति

674. भोगवादी 675. अहिंसा 676 पवित्रता 677 मानव 678
मानव 679 मानव 680. विरोधी 681 मानव 682 कष्ट 683
सहयोग 684 छटपटाता 685 सत्य 686 आबाद 687 मानव 688
असतुलित 689 मर्यादा 690 दण्ड 691 मानवीयता 692 प्रेम
693. चापलूस 694. पागलपन 695. उठाना 696 धैर्य 697
प्रसन्नता 698 जवानी 699. विद्यार्थी जीवन 700. विद्यार्थी 701
विद्यार्थी 702. विद्यार्थी 703. योगी 704. स्वयं 705. आघात 706
राज 707. मजिल 708 जीवन 709. खान 710. तेज 711.
दानवता 712 साधना 713. शरीर 714 दानव, दुर्जन 715. आनद
716. सम्मान 717. समाप्त 718. कल्पवृक्ष 719. मनुष्य 720 मानव
जीवन 721. मनुष्य 722. मनुष्य 723. मनुष्य 724 इन्सानियत 725.
अमर 726. महकता 727. चालाक 728. वर्तमान 729. यात्रा 730
समझदार 731 पागल 732. मानव 733. प्रसिद्धि 734. बढेगी 735
प्रभाव 736. भव्य 737. सर्वोपरि 738. मां 739. मां 740
वात्सल्यभाव 741. फूल 742. मां 743. मां 744. मां 745
प्रतिकृति 746. अपार 747. शत्रु 748. युवक 749. युवक 750.
युवक 751. युवक मन 752. युवक 753. युवक 754. यौवन 755.
आहों, दुराशीष 756. उलझती 757. डाकू 758. झूझ-बूझ 759
चीते 760. राजा 761. राजा 762. सन्त 763. राजा 764. वत्सल
'शासक 765. सेवक 766. वस्त्राभूषण 767. बेगमे 768. सेना 769.
दरिद्र, तृष्णावान 770. शाह 771. प्रजा 772. दरिद्री
773. अनासक्ति 774. विवशता 775. वीतराग मुनि भगवत 776.
वसन्त 777. सन्त 778. सन्त 779. सुसन्यासी 780. संत 781.
शास्त्री 782. सत्पुरुषों 783. सत्पुरुष 784. कर्म 785. तल्लीनता
786 कमजोर 787. मनुष्य 788. समय 789. अपव्यय 790. मूर्ख
791. समय 792. समय 793. संस्कृति 794. भारतीय संस्कृति
795. जैन संस्कृति 796. व्यक्ति 797. परिवार 798. समाज 799
संस्कृति 800. जलधारा 801. क्षमावान् 802. वैर-भाव 803.
क्षमाशील 804. क्षमाशील 805. बुजदिल 806. क्षमावान 807.
क्षमा 808. क्षमा 809. सुवचन 810. मुस्कान 811. हल्का



812 समय 813 साहस 814 माहस 815 साहसहीन 816.
साहस 817 साहस 818 साहस 819. साहस 820 विपदाओं 821
सुगम 822 धैर्य 823 विजय श्री 824 पुण्य प्रकृति 825 संसार
826 डरपोक 827 ससार 828 ससार 829 स्वागत 830 विरले
831 विरले 832 विरले 833 सदेश, निर्देश 834 सभ्यता 835
संस्कृति 836 बहिर्मुखी 837 अन्तर्मुखी 838. संस्कृति 839.
सभ्यता 840 सभ्यता 841 संस्कृति 842 सस्कृति 843 सस्कृति
844 दण्ड 845 तृष्णा 846. भिखारी 847 तृष्णा 848. तृष्णा
849 संतोष 850 निष्काम 851. दीक्षा 852. दीक्षा 853
आर्हतीदीक्षा 854. दीक्षा 855 दीक्षा 856. दीक्षा 857. दीक्षा 858.
दीक्षा 859 मुमुक्षु 860 दीक्षा 861. दीक्षा 862. दीक्षा 863. दीक्षा
864 दृष्टि 865. सृष्टि 866 दृष्टि 867. विरोधी 868. दृष्टि 869
मिथ्या दृष्टि 870 मनभर 871 कणभर 872. मिथ्या 873
अनेकान्त 874. संघर्ष 875. दृष्टि शुद्ध 876 तेजस्वी 877 बेतार
का तार 878. युगपुरूष 879. युग पुरूष 880. युग पुरूष 881
युग पुरूष 882. युग पुरूष 883 कायोत्सर्ग 884. शिथिलीकरण
885 कायोत्सर्ग 886. कायोत्सर्ग 887. कायोत्सर्ग 888 कायोत्सर्ग
889. इत्र 890 णमोकार मंत्र 891 णमोकार मंत्र 892. अन्तर्मुखी
893 नवकार मंत्र 894 मंत्र 895 मंत्रजप 896 अनशन 897
उपवास 898 कर्मक्षय 899 तप 900. तप 901 तप 902. झूठा
903 तप 904. जप 905 पश्चाताप 906 कषाय 907. राजनीति
908 धर्मनीति 909 प्रायश्चित्त 910 धूमिल 911. निराशा 912
मिथ्याशा 913 साधन 914. अभाव 915 छिद्रान्वेषण 916.
अभिन्न 917. पूरक 918. दर्शन 919. आचार 920 अनेकान्तवाद
921 एकान्तवाद 922 श्याद्वाद 923 भाषा प्रधान 924. सापेक्षवाद
925 स्याद्वाद 926 नय 927 नय 928. धर्म 929. धर्म 930. धर्म
931. धर्म 932. मधुरता 933 धर्म 934. प्रकाश 935 दुर्गुणों
936 धर्म 937 धर्म 938. धर्म 939. धर्म 940. धर्म 941 धर्म
942 प्रमाण 943. नय 944. नय 945. प्रमाण 946. कणाद 947
अक्षपाद 948. शुभ 949. शुभध्यान 950 शुक्लध्यानी

951 शुक्ल ध्यानी 952 ध्यान 953 परमात्मा 954 ध्यान 955
 ध्यान 956 आत्म सयम 957 निर्जरा 958 अकाम निर्जरा 959
 अकाम निर्जरा 960 सकाम निर्जरा 961 सकाम निर्जरा 962 प्रमत्त
 963 अप्रमत्त 964 तृष्णा 965 इत्वरिक तप 966 यावत्कालिक
 967. तप 968 निर्विकल्प दशा 970 आदतन 971 पाप 972
 पुण्य प्रबल 973 पापोदय 974 पुण्योदय 975 सम्यग्दृष्टि 976
 संकल्प 977. आत्मानुशासन 978 व्रत 979 व्रत 980 दम्भी
 981. निदान 982 व्रत 983 व्रत 984 व्रत 985 आवेश 986
 व्रत 987. व्रत 988. न्याय 989 दुर्लभ 990. सत्य 991. सत्य
 992. असत्य 993. सत्यान्वेषी 994 सत्य 995. सत्य 996
 सम्प्रदाय 997 सत्य 998 सत्यवादी 999 सत्य 1000. चाटुता
 1001. कटुता 1002. पटुता 1003 सच्चाई 1004. सत्य 1005
 सत्य 1006 सत्य 1007. सत्य 1008. सत्य 1009 'मिथ्या दृष्टि
 1010. पुनर्जन्म-सिद्धान्त 1011 पुनर्जन्म सिद्धान्त 1012 पुनर्जन्म
 1013 गर्हा 1014 प्रतिक्रमण 1015. झूठे 1016. समर्पणा 1017.
 सच्ची प्रार्थना 1018. प्रार्थना 1019. मोह 1020 ममता 1021
 मोहग्रस्त 1022. मोह 1023 भोग 1024. तृष्णा 1025. पर-भव
 1026. भय 1027 अमर 1028. मौन 1029 श्रेयस्कर 1030. वचन
 1031 वासना 1032 वातावरण 1033. नारी 1034. कामातुर
 1035 कामना 1036. विषय 1037. वासना 1038. दुरात्म 1039
 विवाह 1040 सामाजिक 1041 आसक्ति, लालसा 1042. सत्य
 1043 सत्य 1044. भाव सत्य 1045. करण सत्य 1046 योग सत्य
 1047 भाव सत्य 1048. माया जाल 1049. सत्य 1050 झूठ
 1051 झूठ 1052 झूठ 1053. सम्यग्दर्शन 1054 पडित मरण
 1055 सम्यक्त्व 1056 मिथ्यादर्शन 1057 सम्यादर्शन 1058
 सम्यादर्शन 1059 भेदविज्ञान 1060. सन्मति 1061 मिथ्या दर्शन
 1062 मिथ्या दर्शन 1063 कुदृष्टि 1064 साध्य 1065. साधन
 1066. सम्यग्दृष्टि 1067. आत्मा 1068. सम्यग्दृष्टि 1069. मिथ्या
 दृष्टि 1070 साधना 1071 साधना 1072 साधना 1073 साधना
 1074 आनद 1075 साधना 1076 प्रेमपूर्ण 1077. साधना

1078 चमत्कार 1079. परमात्म 1080 भगवान 1081. भिखारी
 1082 विकृति 1083 नियंत्रण 1084 सवर 1085 आश्रव 1086
 आश्रव पथिक 1087. सवर पथिक 1088 आश्रव मार्ग 1089. काय
 योग 1090 काय गुप्ति 1091 संलेखना 1092. संलेखना 1093
 सलेखना 1094. सलेखना 1094. संलेखना 1095 संलेखना 1096
 सलेखना 1097. स्वाध्याय 1098 सदग्रन्थ 1099. स्वाध्याय 1100
 स्वाध्याय 1101 स्वाध्याय 1102 स्वाध्याय 1103 स्वाध्याय 1104.
 स्वाध्याय 1105 स्वाध्याय 1106. स्वाध्याय 1107. स्वाध्याय 1108
 स्वाध्याय 1109. स्वाध्याय 1110. स्वाध्याय 1111. स्वाध्याय 1112
 स्वाध्याय


‘भाग-10-11’ प्रश्नवली

1. राजमार्ग 2. निराकुल 3. आकुलता 4. आत्मा 5. मन 6.
 आत्मोन्मुखी 7. आत्मा 8. सुख 9. संतोपी 10. संतोप 11. कामना
12. अल्पकालिक 13. सर्व कालिक 14. आध्यात्मिक 15. भौतिक
16. भटकाती 17. सुख 18. दुःख 19. मन 20. मस्तक 21.
 आत्मा 22. सुखी 23. सुखी 24. सुख 25. सुखदाता 26 दुःख
27. अनुभव 28. पशु-पक्षी 29. मनुष्य 30. जीवन 31. संयम 32.
 निर्झर 33. क्षणभंगूर 34. जीवन 35. सुखःदुःख 36. वेदनीय
37. पुण्य 38. शान्ति 39. जीवन कला 40. प्रज्ञावान 41. चिन्तन
42. मनःस्थिति 43. अभाव जन्य 44. मोह-राग 45. लोभ 46
 अहंकार 47. कर्मोपाधि 48. दुराचरण 49. कर्म 50. पापी 51. जीव
52. दुःख 53. दुःख 54. कामना 55. कामना 56. तृष्णा 57.
 रहीमदास 58. विपदा 59. दुःख का कारण 60. दुःख 61. दुःख
62. दुःख 63. पराधीन, पराश्रित 64. तृष्णावान 65 निर्धनता 66
 दाम विना 67. कर्जदार 68. रोगग्रस्त 69. कर्कशानार 70. प्रतिस्पर्धा
- से 71. दुःखालय 72. अवगुण 73. सुखेच्छा न हो 74. दुःख
75. दुःख 76 विषयानुरागी 77. ईसा मसीह 78. अन्तर्मुखी

79 दुःख सुख 80 मधुर 81 भूलें 82 दुःख 83 दुःख 84 प्रेम
 85 विपदा 86 मिथ्यात्व 87 स्वचैन 88 विनय 89 विनय 90
 अविनीत 91 विनयश्रुत 92 कोमल 93 विनय 94 विनय 95
 विनय 96 विनय 97. विनयवान 98 अनुशासन 99 सहिष्णुता
 100. विनय 101 नम्र 102 विकास 103. नम्रता 104 अभिमान
 105. अभिमानी 106. प्रभुनाम 107 दयाबाज 108 घात 109
 झुकता 110 नम्रताशील 111 विनयशील 112. झुकता 113. हेत
 114. वात्सल्यमय 115. बहुमान 116. नम्रता 117 आचार 118
 विनय 119 नम्रता 120. चापलूसी 121. नम्रता 122 श्रद्धा 123
 विनय 124 लघुता 125. लघुता 126 निदा 127 निदा 128
 आत्म निरीक्षण 129. झगड़े 130 पाप 131. निदा 132. निदक
 133. स्वनिदा 134. चुगली 135 असत्य 136 प्रशंसा 137 नीद
 138. प्रशंसा 139. निंदा 140. निदा 141 निंदक 142 निदक
 143. निदक 144. दोष 145. महात्माओं 146 आत्म निंदा 147
 न्यूनता 148 नीच, क्षुद्र 149. चुप रहना 150. चौथा 151. परनिंदा
 152. दुर्गुण 153. निदा 154. निदक 155 सशंक, डरते 156.
 निंदक 157. आत्म निदा 158. परनिदा 159. आत्म निंदा 160
 वाणी 161. वाणी 162. वाचाल 163. मन 164. वाणी 165.
 वाचाल 166 वाक्संयम 167. वाक्चातुर्य 168 समयोयित 169
 शत्रुता 170 यतना 171. वचन 172 वैर-विरोध 173. दिल 174
 कटु 175 कटु वचन 176 मौन 177 बोलने 178 वाणी 179
 वीतराग 180. पशु 181. कष्ट 182. वाणी 183. वचन 184
 सफलता 185 भला 186. अनुप्रेक्षा 187. भावना 188 समतामय
 189. मुक्त 190. चिन्तन 191 लाभ 192 भावों के 193 लीला
 194 भावों 195. समभावी 196 निर्माण 197. भाव 198
 वीतरागता 199. अमृत 200 भावना 201. ससार 202 भाव 203
 फलीभूत 204 भावों 205. दुआं 206 आचार 207 भावों 208
 मनोगतभाव 209. भावना 210. भाव 211. भावना 212. निष्काम
 213. दुर्भाव 214. भावों 215 नरक 216 भावना 217 शत्रुता
 218 करूणा 219. करूणा 220. करूणा 221. दया भावना




222 मानव 223. समाज 224 सहयोग 225 मोह 226 मोही
227 करूणाशील 228 आचरण 229 नवनीत 230. सत 231
दया 232 दया 233 दया 234 दया 235 रहमान 236 मित्रता
237 विवेक 238 दया 239 दया 240 शांति 241. तृष्णा,
भवरोग 242 करूणा 243 करूणाहीन 244 दुकराते 245 मैत्री
भाव 246 करूणा 247 करूणा 248. पकृति 249. परोपकार
250 परोपकारी 251. परोपकार 252 परोपकार 253. सज्जनों
254 भूल जाना 255. स्वर्ग 256. दुर्लभ 257. स्वार्थी 258
परोपकारी 259 कृतज्ञता 260 करूणा 261. धर्म 262 पाप 263.
सर्वश्रेष्ठ 264 कानों 265. दान 266 परोपकार 267. परोपकार
268 परोपकारी 269 परोपकार 270. नेककार्य 271 तनदान 272.
परोपकार 273 उपकार 274. सद्गुरू 275 सद्गुरू 276 सद्गुरू
277 सद्गुरू 278 सद्गुरू 279. सद्गुरू 280. मुक्ति 281.
सद्गुरू 282. माणक 283 मोती 284. चन्दन 285. सच्चे संत
286. श्रमण 287 गुरू 288 सद्गुरू 289. सद्गुरू 290. ग्रहण
291 सत 292 सुगुरू 293. शिष्य 294. गुरू 295. सौ 296. संत
297 सद्गुरू 298. गुरू 299. सम 300 संत 301. संत 302.
सतों 303. ज्ञान 304 अहंकारी प्रमादी 305. सद्गुरू 306 पावन
307. गुरू 308 रोग 309 वैध 310. गुरू आज्ञा 311 औपध
312 सद्गुरू 313. कुगुरू 314. गुरू 315 परमात्मा 316 सत
317 श्रेष्ठ 318 सद्गुरू 319. सत 320. सद्गुरू 321 सद्गुरू
322 मौन 323 दृष्टाभाव 324. मौन 325 झगड़े 326. अन्तर्मुखी
327 मौन 328 वाचलता 329. सर्वार्थ 330 ब्रह्म 331. वाक्
सयम 332 वचन सिद्धि 333. मौन 334 परेशानियां 335 मन
336 दुःखदर्द 337. मौन 338. मौन 339 शांति 340 अल्पभाषी
341 मौन 342. आत्ममौन 343. मौन 344 लक्ष्य 345. समयोचित
346 सुनना 347. मौन 348 वाणी 349 अपूर्ण 350 मौन 351.
बुद्धिमान 352. मौनी 353 गुणस्थान 354. गुणस्थान 355
जीवस्थान 356 मोह कर्म 357 कर्मग्रन्थ 358 विकलेन्द्रिय 359.
मिथ्यात्व 360 पच्चीस 361 कषाय तीव्रता 362. अनंतानुबधी



कषाय 363 मिथ्या दृष्टि 364 सम्यक्तव 365 तीन 366 चार
 367. गुणस्थान 368. गुणस्थान 369 मिश्रगुणस्थान 370 भूमिकाओं
 371. अवस्थाओं 372. श्रद्धान 373 गुणस्थान 374 अविरति
 सम्यग्दृष्टि 375. तिर्यच 376 वैक्रिय 377. उपशम समकित 378
 अप्रमत्त गुणस्थान 379 मिश्र गुणस्थान 380. प्रमत्त गुणस्थान 381
 अपूर्व करण 382. अनिवृत्ति करण 383. गति मापक यत्र 384. सूई
 सदृश 385. सम्यक्तव 386. कुछ कर्ज 387. आठ 388. सकषाय
 389. कषाय 390. भय 391 तत्त्वों 392. श्रद्धा 393. तत्त्वों 394.
 विशुद्धि 395. उपशान्त मोहनीय 396. क्षीण मोहनीय 397. सूक्ष्म
 सम्पराय गुणस्थान 398. सयोगी केवली 399. सयोगी केवली 400
 सयोगी केवली 401. प्रतिपाती 402. मुक्ति 403. चौथे 404
 छदमस्थ 405. सवेदी 406. लोकाग्र 407. धर्मास्तिकाय-अभाव
 408 तीर्थकर 409. आठ 410. 12वें गुण स्थान 411. 4 412
 मोक्ष 413. 14 414. सावन सुदी-5 415. चित्रा नक्षत्र 416
 अरिष्ट रत्न मय चक्र 417. शत्रुनाश 418. इष्ट 419. 18 420.
 हरिवंश 421. गौतम, वृष्णि 422. धनकुमार 423. अपराजित 424
 पुत्र 425. भुआ-पुत्र 426. आठ साल 427. राजा विक्रम 428. नव
 भव 429. 22वां तीर्थकर 430. 1000 वर्ष 431. बेला 432.
 धनकुमार के भव 433. मुनि चन्द्र 434. भुजा फैला 435.
 अरिष्टनेमि 436. मथुरा 437. अरिष्टनेमि 438 अरिष्टनेमि 439. श्री
 कृष्ण 440. निर्विकार 441. अरिष्टनेमि 442. सौद्धमेन्द्र 443. बघ
 हेतु 444. अरिष्टनेमि 445. द्वारका आक्रमण 446. जरासंध 447.
 1000 पुरुषों 448. 18000 साधु, 40000 साध्वी 449 1500 450
 बरदत्त ब्राह्मण 451 54 अहोरात्रि 452 चित्रा 453. 300 सौ
 454 1008 455 मनःपर्यय 456. गिरनार (उज्जयन्त) 457. आषाढ
 सु. 8 458 वरदत्त राजा 459. 700 वर्ष 460. कुछ माहबाद, 100
 वर्ष 461. 5 लाख, 84 हजार, 980 वर्ष 462. अधेरा 463. स्वार्थी
 464. सददर्शन 465. स्वर्ग 466 प्रीति 467. प्रसन्नता 468. विश्वास
 469. ज्योति 470 हृदय 471. पर्दा 472. प्रीति 473. उपयोग 474
 प्रीति 475. प्रेम 476 रोते 477. श्मशान 478 प्रेम हीन



479 बन्धन 480 परमात्मा 481 देह 482 गुणों 483 राक्षसों की
484 क्षमा 485 प्रेममय 486 प्रेम 487. आशीर्वाद 488. करुणा
489 हृदय 490 आसक्ति 491 प्रेम 492 परमात्म-प्रेम 493 शत्रु
494 संतोष 495 बल 496 सद्गुण 497 गुण 498 सद्गुणों
499 सज्जन 500. गुणों 501 गुणी 502 अभिशाप 503 आत्मा
504. सद्गुण 505. रत्नों 506 सच्चरित्र 507. सत्य 508. वायु
मण्डल 509. इन्द्र 510. सद्गुण 511. विद्वान 512 सरोवर 513.
राग 514. सर्प 515. आखों 516. शब्द 517. सम्मुख जन 518.
चारित्र 519 गुणी 520. आदर 521. सत्ताधीश 522. विनय 523.
सर्वत्र 524. सद्गुणी 525. मां बेटी 526. दुर्गुण 527. प्रेमी 528.
प्रेमी 529. प्रभुसम 530. प्रार्थना 531. विनम्रभाव 532. निःस्पृह
533. प्रार्थना 534. प्रार्थना 535. प्रार्थना 536. प्रार्थना 537.
पापकर्मों 538. प्रार्थना 539. देव 540. श्रेष्ठ 541. अन्तर पट 542
तीर्थकर गोत्र 543. प्रार्थना 544 त्याग 545. वैरागी 546. वैराग्य
547. वैराग्य जीवन 548. माया 549. खुद 550. वक्त-बेवक्त
551. पुण्य क्षीण 552. पुण्य क्षीण 553. ससार 554. 16 वर्ष 555.
बलभद्र 556. जीवन 557. मौत 558. मरने पर 559. भक्त 560.
भौतिक सुख 561. भोगी 562. प्रेम 563. प्रेम 564. प्रेम 565. प्रेम
566 प्रेमी 567. हृदय से दूर 568 प्रेम 569. पतन कारी 570
दोषों 571 वात्सल्य 572. प्रेम 573. प्रेम 574. प्रेम 575. प्रेम
576. मैत्री 577 भक्ति 578. मैत्री 579. इश्क 580. प्रार्थना 581
प्रार्थना 582 प्रार्थना 583. प्रभुभक्ति 584. चंचलता 585. शान्ति
586 प्रार्थना 587 प्रार्थना 588. प्रार्थना 589. हृदय-मिलन 590.
प्रार्थना 591. प्रार्थना 592. समर्पणा 593. जिनेश्वर 594. जिनेश्वर
देव 595. भोगों 596. अग्नि 597. त्याग 598 अनन्य 599
मोह-माया 600 ध्यान 601. ध्यान 602. धर्म ध्यान 603. पिण्डस्थ
ध्यान 604. रूपस्थ ध्यान 605 ध्यान 606. अप्रमत्त साधक 607.
सिर 608. जड 609 धर्म 610. ध्यान 611. ज्ञान 612. ध्यान 613.
ध्यानावस्था 614. स्वाध्याय 615. स्वाध्याय 616. ध्यान 617.
अवधान प्रयोग 618. धारणा 619. शुद्ध दशा 620. ध्यान-साधना



621 ध्यान 622. आत्मज्ञान 623. ध्यान 624 ब्रह्म मुहुत 625 ब्रह्म
 मुहुत 626 शात 627 ध्यान 628 ध्यान 629 आग सदृश 630
 नदन वन 631 ध्यान 632 धारणा 633 निःसारता 634 धर्मध्यान
 635 शुक्ल ध्यान 636 तीर्थ यात्रा 637 सलेखना 638. सलेखना
 639. सलेखना 640 संलेखना 641 विवेक से घटाना 642
 मरणान्तिक सलेखना 643 उपासक दशाग 644. संधारा 645
 संधारा 646 'संधारे 647 संधारे 648. समाधि मरण, संधारा 649
 सचेत, उप्रमत्त 650 जीवन 651 संधारे 652. भक्त प्रत्याख्यान
 मरण 653 ज्ञानी पुरुष 654. जीते हुए मरे 655. ससार 656
 पंडित मरण 657. समाधि मरण 658. मृत्यु 659. मृत्यु 660 मृत्यु
 661. जीवन-मृत्यु 662. मृत्यु 663. भेद विज्ञान 664. क्षमा, माफी
 665. आलोचना 666 अज्ञानी 667. मृत्यु 668. निर्मल 669. संधारा
 670. संधारा 671 संधारे 672. आत्म हत्या 673. आत्म हत्या
 674 आत्म हत्या 675. आत्म हत्या 676. उपवास चिकित्सा 677
 मृत्यु 678 मृत्यु काल 679. अनैतिक आचरणं 680. आलस्य।

